

GL H-R 016.07

AKH



120639  
LBSNAA



बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

Bahadur Shastri

National Academy of Administration

मसूरी

MUSSOORIE

गांधी स्मृति पुस्तकालय

GANDHI SMIRITI LIBRARY

अन्वेषण संख्या

Accession No

120639

वर्ग संख्या

Class No

H-R

016.07

पुस्तक संख्या

Book No

AKH



अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ  
के  
सदस्य-प्रकाशकों की  
सम्मिलित  
प्रकाशन-सूची

१९५७



अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ\*  
१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद

●

मूल्य : एक रुपया आठ आने मात्र

●

मुद्रक  
न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद

●

प्रकाशक  
वाचस्पति पाठक  
प्रधान-मंत्री  
अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ

इधर पुस्तक-विक्रेताओं, पुस्तकालयों, सरकारी विभागों तथा पाठकों की ओर से इस बात की बराबर शिकायत रही है कि उन्हें हिन्दी-पुस्तकों का कोई ऐसा बृहत् तथा वर्गीकृत सूचीपत्र उपलब्ध नहीं है जिससे वे विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित, हिन्दी-लेखकों की मनचाही पुस्तकें पसन्द करके मंगा सकें।

पुस्तक-विक्रेताओं, पुस्तकालयाध्यक्षों, सरकारी-विभागों के पदाधिकारियों तथा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैले हुए सार्वजनिक-पुस्तकालयों एवं हिन्दी के जागरूक पाठकों की उपर्युक्त कठिनाई को बहुत कुछ सीमा तक दूर करने के लिए ही “अखिल भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ” की ओर से हिन्दी-पुस्तकों के इस बृहत् सूचीपत्र का प्रकाशन किया जा रहा है।

इस सूची-पुस्तक में प्रकाशक संघ के ६५ सदस्यों के, जो भारत के प्रमुख हिन्दी-प्रकाशकों में से हैं, उत्कृष्ट प्रकाशनों की विषयानुसार वर्गीकृत तथा लेखकों, लेखिकाओं और पुस्तकों के शीर्षकों के अनुसार अकारादिक्रम से अनुक्रमित, विविध विषयों की लगभग आठ हजार

( चार )

हिन्दी-पुस्तकों की तालिका दी जा रही है। हिन्दी-जगत में इस सूची-पुस्तक की उपादेयता का हार्दिक स्वागत होगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है।

दिनांक १५-२-५७ ई०

१५-ए०, महत्मा गांधी मार्ग

इलाहाबाद—१

वाचस्पति पाठक

प्रधान-मंत्री

अ० भा० हिन्दी-प्रकाशक संघ

# प्रथम खण्ड : विषयानुक्रम

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपन्यास	...	१
अनूदित उपन्यास	...	११
कहानी-संग्रह	...	१७
कहानी-संकलन	...	२४
विदेशी कहानियाँ	...	२५
हास्य तथा व्यंग्य	...	२५
नाटक	...	२६
एकांकी	...	३३
विदेशी नाटक	...	३४
काव्य नवीन : प्रबन्ध	...	३५
काव्य नवीन : गीत तथा मुक्तक	...	३८
काव्य प्राचीन : ग्रन्थावलियाँ तथा सम्पादित-ग्रन्थ	...	४४
निबन्ध	...	४६
गद्यकाव्य	...	५३
रेखाचित्र	...	५३
संस्मरण, पत्र तथा यात्रा-विवरण	...	५३
अभिनन्दन तथा स्मारक-ग्रन्थ	...	५६
आत्मकथा तथा जीवनी	...	५६
प्राचीन हिन्दी गद्य के नमूने	...	५८
आलोचना-सिद्धान्त तथा समीक्षा-ग्रन्थ	...	५६
साहित्य का इतिहास	...	६६
लोकसाहित्य	...	७३

विषय	पृष्ठ-संख्या
संस्कृत-वाङ्मय	... ७१
भाषाविज्ञान	... ७६
व्याकरण, रचना तथा मुहावरे	... ७७
काव्यशास्त्र : रस, छन्द तथा अलंकार	... ७९
कोश तथा सन्दर्भ-ग्रन्थ	... ८०
पत्र-पत्रिकाए	... ८२
पुरातत्व, इतिहास तथा संस्कृति	... ८३
समाज-शास्त्र	... ८८
राजनीति तथा नागरिक-शास्त्र	... ८८
अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य	... ९४
भूगोल	... ९६
कृषि	... ९७
तर्कशास्त्र, धर्म तथा दर्शन	... ९७
शिक्षा, मनोविज्ञान तथा बाल-मनोविज्ञान	... १०९
विज्ञान	... ११२
स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा वैद्यक	... ११३
यौन-विज्ञान	... ११४
सामान्यज्ञान	... ११५
कला तथा दस्तकारी	... ११६
पत्रकारिता	... ११६
गृहविज्ञान तथा महिलोपयोगी	... ११७
संगीत	... ११८
बाल-साहित्य	... ११९
किशोर-साहित्य	... १३१
स्काउटिंग	... १३८
प्रौढ-शिक्षा	... १३९
समाज-शिक्षा तथा ग्राम-साहित्य	... १४४
चरित्रनिर्माण	... १४८
गांधी-साहित्य तथा सर्वोदय-साहित्य	... १४९
पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थी-उपयोगी	... १५१
विविध	... १५५



## द्वितीय खण्ड : विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ-संख्य
उपन्यास	... १६३
अनूदित उपन्यास	... १७४
कहानियाँ	... १७६
नाटक	... १७८
एकांकी	... १८०
काव्य : नवीन	... १८१
काव्य : प्राचीन	... १८३
आलोचना	... १८३
निबन्ध	... १९०
हास्य-व्यंग्य	... १९१
पत्र, संस्मरण तथा यात्रा-विवरण	... १९२
आत्मकथा तथा जीवनी	... १९३
इतिहास : साहित्यिक	... १९४
भाषाविज्ञान	... १९५
व्याकरण तथा रचना	... १९५
रस, अलंकार तथा पिंगल	... १९६
कोष तथा सन्दर्भ-ग्रन्थ	... १९६
संस्कृत-वाङ्मय	... १९७
इतिहास तथा संस्कृति	... १९७
राजनीति तथा नागरिक-शास्त्र	... १९८
अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा भूगोल	.. २००
कृषि तथा पशुपालन	... २०२
विज्ञान, गणित तथा सामान्यज्ञान	... २०३
स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा वैद्यक	... २०५
यौन-विज्ञान	... २०६
शिक्षा-शास्त्र तथा मनोविज्ञान	... २०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
धर्म, दर्शन तथा तर्कशास्त्र	... २१०
चरित्र निर्माण	... २११
कला तथा दस्तकारी	... २१२
बाल-साहित्य	... २१७
किशोर-साहित्य	... २२५
महिलोपयोगी	... २२७
ग्रामोपयोगी तथा प्रौढ-साहित्य	... २२६
संगीत	... २३१

## परिशिष्ट : विषयानुक्रम

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपन्यास : मौलिक तथा अनूदित	... २३५
कहानियाँ : मौलिक तथा अनूदित	... २३८
हास्य-व्यंग्य	... २४०
नाटक तथा एकांकी	... २४०
काव्य : नवीन	... २४१
काव्य : प्राचीन	... २४३
निबन्ध, संस्मरण, पत्र तथा यात्रा-विवरण	... २४३
आत्मकथा, जीवनी तथा संस्मरण	... २४४
आलोचना तथा इतिहास-ग्रन्थ	... २४५
टीकाएँ, दिग्दर्शन तथा स्वयं-शिक्षक आदि	... २४७
संस्कृत, पाली तथा प्राकृत वाङ्मय	... २४६
काव्यशास्त्र	... २५०
भाषाविज्ञान, व्याकरण, रचना तथा मुहावरे	... २५०
कोश तथा संदर्भ-ग्रन्थ	... २५१

विषय	पृष्ठ-संख्या
इतिहास तथा संस्कृति	... २५१
राजनीति, नागरिकशास्त्र तथा समाजशास्त्र	... २५३
वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा भूगोल	... २५४
शिक्षा तथा मनोविज्ञान	... २५५
गणित, रसायन तथा अन्य विज्ञान	... २५५
चिकित्सा तथा वैद्यक	... २५७
ज्योतिषशास्त्र	... २५७
तर्कशास्त्र, धर्म, दर्शन तथा चरित्रनिर्माण	... २५८
बाल-साहित्य	... २५८
किशोर-साहित्य	... २६३
ग्राहस्थ-शास्त्र तथा महिलोपयोगी	... २७५
प्रौढ़-शिक्षा तथा ग्राम-साहित्य	... २७५
कला तथा दस्तकारी	... २७६
विविध	... २७६

## प्रथम खण्ड की प्रकाशक-सूची

अशोक प्रेस, महेन्द्र, पटना

आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली

ओरिएण्टल बुकडिपो, १७०, नई सड़क, दिल्ली

किताब महल, जीरो रोड, इलाहाबाद और बम्बई—१ तथा दिल्ली—७

गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा, जैपुर, कानपुर तथा ग्वालियर ।

ग्रन्थकार, शिबाला, वाराणसी

न्यूलिटरेचर, चक, इलाहाबाद

नवयुग साहित्य सदन, खजूरी बाजार, इन्दौर

- ना० प्र० सभा (नागरी प्रचारिणी सभा), काशी (बाराणसी)  
नीलाभ प्रकाशन, ५ खुसरूबाग रोड, इलाहाबाद  
नैशनल पब्लिशिंग हाउस, नई सड़क, दिल्ली  
पद्मजा प्रकाशन, c/o साहित्य रत्नालय, भ्रद्धानन्द पार्क, कानपुर  
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, इर्विंग कालेज के सामने, दिल्ली  
भारत प्रकाशन मन्दिर, सुभाष रोड, अलीगढ़  
भारती भण्डार, लीडर रोड, इलाहाबाद  
भारती साहित्य सदन, ३०/६६ कनाट सर्कस, नई दिल्ली  
मयूर प्रकाशन, मानिक चौक, भांसी तथा दिल्ली—७  
मोतीलाल बनारसीदास, नैपाली खपड़ा, वाराणसी तथा पटना—४  
राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-७, बम्बई-१, इलाहाबाद-१, पटना-६, मद्रास-१  
राजपाल एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली  
रामनारायण लाल, कटरा, इलाहाबाद  
राष्ट्रभाषा प्र० (प्रचार) समिति, हिन्दी नगर, वर्धा  
लहर प्रकाशन, लक्ष्मीटाकीज-कम्पाउण्ड, कटरा, इलाहाबाद  
विप्लव कार्यालय, २१ शिवाजी मार्ग, लखनऊ  
श्रीअञ्जन्ता प्रेस, नयाटोला, पटना—४  
सरस्वती प्रेस, ५ सरदार पटेल मार्ग, इलाहाबाद तथा बनारस  
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली  
साहित्य निकेतन, भ्रद्धानन्द पार्क, कानपुर  
साहित्य प्रकाशन, मालीवाड़ा, दिल्ली  
साहित्य भवन (प्राइवेट) लि०, जीरो रोड, इलाहाबाद  
साहित्यरत्न माला कार्यालय, धर्मकूप, बाराणसी  
साहित्य सदन, चिरगाँव, भांसी  
सुषमा साहित्य मन्दिर, जबाहर गंज, जबलपुर  
हंस प्रकाशन, जीरो रोड, इलाहाबाद तथा जबलपुर  
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर लि०, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई  
हिन्दी भवन, अड्डा होशियारपुर, जालन्धर तथा रानीमंडी, इलाहाबाद  
हि० सा० सम्मेलन (हिन्दी साहित्य सम्मेलन), फ्रास्यवेट रोड, इलाहाबाद  
हिन्दुस्तानी एकेडेमी, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद  
ज्ञानपीठ लि०, खजांची रोड, पटना  
ज्ञानमण्डल लि०, कबीर चौरा, बाराणसी

## द्वितीय खण्ड की प्रकाशक-सूची

- आनन्द पुस्तक भवन, पहड़िया, वाराणसी  
एन० डी० सहगल एण्ड सन्स, दरीबा कलां, दिल्ली  
कल्याण दास एण्ड ब्रदर्स, चौक, वाराणसी  
चिन्गारी प्रकाशन, पो० बा० ७८, वाराणसी  
छात्रहितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, इलाहाबाद  
देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, दिल्ली  
नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स, चौक, वाराणसी  
नवयुग ग्रन्थ कुटीर, बीकानेर  
नव साहित्य प्रकाशन, ६२७६, मुल्तानी टांडा, नई दिल्ली—१  
नॉर्वेल्टी एण्ड कं०, चौहट्टा, पटना—४  
भारतीय प्रकाशन मण्डल, नन्दन सहू लेन, वाराणसी  
भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी  
राजहंस प्रकाशन, सदर बाजार, दिल्ली  
राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर, लखनऊ  
लोक सेवक प्रकाशन, बुलानाला, वाराणसी  
विनोद पुस्तक मन्दिर, हास्पिटल रोड, आगरा  
विद्यामंदिर, वाराणसी  
शारदा-मन्दिर, नई सड़क, दिल्ली  
श्री प्रभाकर साहित्यालोक, २३ श्रीराम रोड, लखनऊ  
श्री भारत-भारती (प्राइवेट) लि०, १ अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली  
श्रीराम मेहरा एण्ड कं०, आगरा  
साहित्यरत्न भण्डार, महात्मा गांधी मार्ग, आगरा  
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, वाराणसी  
हिन्दी साहित्य कुटीर, हाथी गली, वाराणसी



# वर्गीकृत शुद्धि-पत्र

## प्रकाशकों के नाम के सम्बन्ध में

पुस्तक का नाम	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-संख्या
सुबह के भूले	भारती भण्डार	हिन्दी भवन	२
आदर्श हिन्दी व्याकरण	अशोक प्रेस	ओरिएण्टल बुकडिपो	७८
वाल्मीकि रामायण	नवयुग साहित्य सदन	ओरिएण्टल बुकडिपो	७५
हिन्दी साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में	नवयुग साहित्य सदन	ओरिएण्टल बुकडिपो	१५२
बहती रेता	राजपाल एण्ड सन्स	भारती साहित्य सदन	३
मानव	राजपाल एण्ड सन्स	भारती साहित्य सदन	३
भावुकता का मूल्य	राजपाल एण्ड सन्स	भारती साहित्य सदन	३
आयुर्वेद का इतिहास	मोतीलाल बनारसीदास	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	११३
भैषज्य कल्पना	मोतीलाल बनारसीदास	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	११३
उपनिषदों की कहानियाँ	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स	राजहंस प्रकाशन	१२६
सिगरेट के टुकड़े	राजहंस प्रकाशन	शारदा मन्दिर	१७७
धरती की ओर	राजकमल प्रकाशन	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	१०
लोकमान्य तिलक	राजकमल प्रकाशन	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	५७
प्रबन्ध प्रभाकर	किताब महल	रामनारायण लाल	५१
काव्य परिचय	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	रामनारायण लाल	७६
भाषा-भूषण	हिन्दी साहित्य सम्मेलन	रामनारायण लाल	७६
रेशमी टाई	रामनारायण लाल	भारती भण्डार	३४
सोरठ तेरा बहता पानी	राजकमल प्रकाशन	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	१३
मुंशी अभिनन्दन ग्रंथ	ना० प्र० सभा	राजकमल प्रकाशन	५६
हिमहास	राजकमल प्रकाशन	साहित्य भवन (प्राइवेट) लि०	५३

## मूल्य के सम्बन्ध में

पुस्तक का नाम	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-संख्या
हमारे सोलह गीत और बारह सिंहनाद	१८	८	१३६
दो नाटक	१॥॥	२॥॥	२७
तारों के गीत	१)	॥॥	४१
अंधेरे के दीप	...	३॥॥	१६४
औरत, रात, और रोटी	...	३)	१६७
बड़ों का बचपन	...	२॥)	२२२
हाय नागिन	...	१॥)	२२२
पाटलिपुत्रक	८)	२)	१६८
त्रिन्दिया	...	१॥)	१६५
भाग्य निर्माण	...	१॥॥)	२११
खोज की पगडरियाँ	८)	६)	१६८
भाषा की शिक्षा	८)	४॥॥)	२०६
ब्रजभाषा के प्रमुख (प्रतिनिधि) कवि	३॥॥॥)	८)	१८४
आयक (२) विधान और खाता	५॥)	४॥॥)	२०१
शशिगुप्त	१॥॥॥)	१॥॥)	२७
जय हनुमान	१॥)	१)	३८
वैराग्य संदीपिनी	१)	१८)	४७
कबीर साहित्य की भूमिका	२॥॥)	८)	६६
कुमार संभव (अध्याय ५)	१)	८)	७५
अलंकार मंजूषा (२ भाग)	८)	प्रत्येक २॥॥)	७६
भारत का भूगोल	१८)	१८)	१२५
योरुप और एशिया का परिचय	॥॥)	१८)	१२५
जमीन-आसमान की बातें	१८)	॥॥)	१२५
पशु-कौतुक	१)	॥१८)	१२६
पुरुषार्थ के पुतले	१८)	॥१८)	१३६
निरुपमा	१॥॥॥)	२)	१०
काले फूल का पौदा	२॥॥)	३)	६
सुधांशु	॥॥)	॥॥॥)	२२
श्रम-देवता	२)	२॥)	२७
प्रारम्भिक रचनाएँ (भाग ३)	१॥॥)	२)	४०

( चौदह )

पुस्तक का नाम	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-संख्या
हिमतरंगिनी	४॥)	२॥॥)	४१
ग्रन्थि	॥)	॥॥)	४३
अर्चना	२॥)	२)	४३
कुसुमावली	३॥)	३॥॥)	१५२
कोमल पद शिक्षण (गाइड्स के लिए)	१॥)	१)	
पाश्चात्य आलोचनाकी अर्वाचीन प्रवृत्तियाँ	३)	२॥)	५६
धर्म वर्णन	१॥)	२॥)	६६
भारतीय अर्थशास्त्र (२ खण्ड संयुक्त)	१४)	१२)	६४
भारतीय अर्थशास्त्र (प्रथम-खण्ड)	७)	७)	६४
भारतीय अर्थशास्त्र (द्वितीय-खण्ड)	८)	७)	६४
चार के चार	२॥)	२)	१८

पुस्तक के नाम के सम्बन्ध में

अशुद्ध नाम	शुद्ध नाम	पृष्ठ-संख्या
हिन्दी साहित्य का विकास एक दृष्टि में	हिन्दी साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में	६२
सिंहल विजय	संघमित्रा और सिंहल विजय	३०
हमारे रीति-रिवाज व परम्पराएँ	भारतीय रीति-रिवाज व परम्पराएँ	२३०
भारतीय शिक्षा का इतिहास	भारतीय और योरोपीय शिक्षा का इतिहास	२०६
ब्रजभाषा के प्रमुख कवि	ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि	१८४
आयक विधान और खाता	आयकर विधान और खाता	२०१



( पन्द्रह )

अशुद्ध नाम	शुद्ध नाम	पृष्ठ-संख्या
केशव कौमुदी (रामचन्द्रिका)	केशव कौमुदी (रामचन्द्रिका) उत्तरार्द्ध	४५
दृष्टि-तरंगिणी	दृष्टांत तरंगिणी	४६
हिन्दी भारती	हन्दी भारती (२ भाग) प्रत्येक	६६
जीवों की कहानी जीवों की जबानी	(२ भाग) ॥१, १२	१२५
साहसी यात्री (२ भाग)	साहसी यात्री	१३५
चरित्र विकास	चरित्र प्रकाश	१३५
गोद भरे लाल	गोदी भरे लाल	१३६
हिंदी महाभारत	हिंदी महाभारत (२ भाग)	१३५
भारतीय उपन्यास माला	भारतीय उपाख्यान माला	१३५
विज्ञान के नव रत्न	विज्ञान के नर रत्न	१३६
देव दर्शन	देश दर्शन	१३६
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास	हिंदी भाषा का उद्भव और विकास	७६
उलका	उल्का	१

लेखकों के नाम के सम्बन्ध में

पुस्तक का नाम	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-संख्या
विद्यापति का अमर काव्य	त्रिगुणायत	गुणानन्द जुयाल	४२
आजादी किस कीमत पर	जवाहरलाल नेहरू	सीरिल मोदक	८६
कथा-कलश	नर्मदाप्रसाद	नर्मदाप्रसाद खरे	१६
मीरा मंदाकिनी	मीरा	नरोत्तम स्वामी (सं०)	४६
हमारी भी कहानी है	प्रेमनारायण श्रीवास्तव	राजेश्वर गुरु (सं०)	१३३
वैदिक साहित्य	रामगोविन्दसिंह	रामगोविन्द त्रिवेदी	२१०
अरीषिका	सुनीता	अनीता	१७२

पुस्तक का नाम	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-संख्या
समिधा	सुनीता	अनीता	१७२
प्राचीन भारत का इतिहास	रमशंकर त्रिपाठी	रमाशंकर त्रिपाठी	१६८
व्यापार पद्धति, .....	एम० के० ओभा	एम० के० भा०	२००
प्रवेशिका बही-लेखन	केदारनाथ गुप्त	केदारराम गुप्त	२००
दुर्बल बन्धु	अवध उपाध्याय (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	२६
विद्या सुन्दर	अवध उपाध्याय (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	२६
सत्य हरिश्चन्द्र नाटक	जीवनशङ्कर याज्ञिक (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	२८
मुद्गाराक्षस	ब्रजरत्नदास (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	३०
नीलदेवी	हरिशङ्कर अग्रवाल (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	३२
भारत दुर्दशा	सत्यव्रत सिन्हा (सं०)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	३२
समीक्षक प्रवर			
श्री रामचन्द्र शुक्ल	गुर्ती सुब्रह्मण्य	गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश	६१
छायावाद और रहस्यवाद	नन्ददुलारे वाजपेयी	गंगाप्रसाद पाण्डेय	६२
ब्रजभाषा व्याकरण (२॥)	धीरेन्द्र वर्मा	किशोरीदास वाजपेयी	७८
अर्थशास्त्र के मूळ सिद्धांत	शान्तिप्रकाश	श्रीनारायण अग्रवाल	६५
मुक्ति के बन्धन	चतुरसेन शास्त्री	गोविन्दवल्लभ पन्त	४
भावुक	व्योहार राजेन्द्रसिंह	राय कृष्णदास	४२
स्थानीय स्वशासन	चेत	चेतकर भा	१६६
कवियों का विवेचनारमक			
अध्ययन (उत्तर भाग)	सोमनाथ गुप्त	बृहद् संयमी साहित्याचार्य	१८६
राधिकारमण सिंह :			
व्यक्ति और कला	गोपीनाथ शर्मा	ऑंकार शरद	६१

## हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन

- समीक्षा, इतिहास तथा काव्य  
काखिदास : श्री चन्द्रबली पाण्डेय ७)
- शूद्रक : श्री चन्द्रबली पाण्डेय ४॥)
- हिन्दी काव्यशैली का विकास :  
श्री चन्द्रबली पाण्डेय ४॥)
- हिन्दी साहित्य की रूपरेखा :  
डॉ० बाहरी २॥)
- हास्य के सिद्धान्त और मानस में  
हास्य : श्री जगदीश पाण्डेय ३॥)
- मानस शब्दसागर : श्री बद्रीदास  
अग्रवाल २०)
- साहित्य और समीक्षा : श्री केसरी  
कुमार ३)
- हिन्दी के कहानीकार : श्री केसरी  
कुमार २॥)
- हरिऔध और उनका काव्य :  
श्री केसरी कुमारी २॥)
- गुप्तजी यशोधरा तन्त्र : श्री केसरी  
कुमार २॥)
- पंत आधुनिक कवि : श्री केसरी  
कुमार ३॥)
- हिन्दी मुहावरे और कथावतें : १)
- साहित्य दर्पण की विमला  
वाक्या : शालग्राम शास्त्री १०)
- पारिचिकालीन भारतवर्ष :  
वासुदेवशरण अग्रवाल १०)
- रामचरितमानस : विजया टीका  
(३ खण्ड) ३०)
- श्रीकृष्णचरितपूर्वाङ्क : श्री सुदर्शन  
सिंह १०)
- नाटक तथा एकांकी  
रूपया तुम्हें खा गया : श्री भगवती-  
चरण वर्मा २)
- नये एकांकी : सम्पादक : तिवारी  
तथा पाठक ३)
- इश्य कुसुमाकर : श्री रघुनन्दन  
शास्त्री २)
- गोआ अभिषेक : श्री देवदत्त  
अटल २॥)
- सत्य और कल्पना : डा० राकेश २)
- उपन्यास तथा कहानियाँ  
प्यासे बादल : श्रीमती रजनी पनिकर ४)
- आदमी और जिन्दगी : श्री राजेश्वर  
प्रसाद सिंह ५)
- अभिनय : श्री राजेश्वर-  
प्रसाद सिंह ३)
- देखा सुना : श्री गयाप्रदा पाण्डेय ३)
- नादिर शाही : सैयद कासिम अली १॥)
- पुराना नौकर : इवान त्वेंकर २)
- वैशाख की रात : श्रीमती सत्यवती  
मल्लिक १॥)
- माटी की मूरतें : रामवृद्ध बेनीपुरी ४)

मुफ्त सूचीपत्र प्राप्त करने के लिए लिखिए :

मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, वाराणसी, पटना

# भारत प्रकाशन मन्दिर अलीगढ़ द्वारा प्रकाशित

## उत्कृष्ट-साहित्य

सूर और उनका साहित्य	डा० हरवन्शलाल शर्मा	७)
सूर काव्य की आलोचना	डा० हरवन्शलाल शर्मा	६)
भागवद्दर्शन	डा० हरवन्शलाल शर्मा	प्रेस में
भावना और समीक्षा	डा० श्रोमप्रकाश	४)
आचार्य जेमेन्द्र	डा० मनोहरलाल गौड़	४)
शैली (केन्द्रीय गवर्न० द्वारा ३०००) से पुरस्कृत)	यतेन्द्र कुमार गर्ग	२॥)
आर्थिक विचारों का विकास	यतेन्द्र कुमार गर्ग	५)
मध्यकाल के पाँच श्रेष्ठ कवि	श्री रमाशंकर जैथली तथा सनाब्द	१॥)
आधुनिककाल के चार श्रेष्ठ कवि	श्री रमाशंकर जैथली	१॥)
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक संक्षिप्त इतिहास (हिंदी सा० का आदिकाल)	श्यामकुमार सांख्यकर शास्त्री सा० रत्न	२)
सती सावित्री (खण्ड काव्य)	'भ्रमर' तथा 'अनिल'	१॥)
पृथ्वीराज (खण्ड काव्य)	श्री सुरेशचन्द्र वाष्णीय	॥)
प्रेमचंद और गोदान	श्री सुरेशचन्द्र वाष्णीय	१)
हिंदी साहित्य के सितारे	श्री सियारामशरमा	१॥)
हिन्दी साहित्य संग्रह	श्री शर्मा तथा शुक्ल	१॥)
पूजा के फूल (एकांकी नाटकों का संग्रह)	श्री व्यथित हृदय	१)
वाङ्मयी	श्री अम्बाप्रसाद जी 'सुमन'	२)
सामुदायिक संगठन	शर्मा और उपाध्याय	१॥)
आदर्श महिलाएँ	श्री शान्ती देवी वर्मा	॥)
वीरों की कहानियाँ	श्री व्यथित हृदय	१)
हरिजन और हम	श्री अम्बाप्रसाद 'सुमन'	१)
जीवन रश्मियाँ (ऐति० जीवनियाँ)	श्री व्यथित हृदय	१)
हिंदी हिलोर	श्री रामस्वरूप गुप्ता	१॥)
हिन्दी निर्माण	श्री रमेन्द्र	१॥)

वायु की कहानी	श्री भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव	॥१॥
भारतीय स्वातन्त्र संग्राम	श्री बदनसिंह शर्मा	॥१॥
हमारे धर्म-ग्रंथ	श्री हरीश रायजादा	॥१॥
उपनिषदों की कहानियाँ	श्री हरीश रायजादा	॥१॥
संस्कृत नाटकों की कहानियाँ	श्री हरीश रायजादा	॥१॥
युग पुरुष	श्री हरीशरायजादा	॥१॥
भारतीय संत	श्री हरीश रायजादा	॥१॥
किरातार्जुनीय	श्री 'देवर्षि'	॥१॥
पंचरात्र	श्री 'देवर्षि'	॥१॥
विक्रमोर्वशी १	श्री 'देवर्षि'	॥१॥
शिशुपाल बध	श्री 'देवर्षि'	॥१॥
प्रतिमा	श्री रमाशङ्कर 'जैथली'	॥१॥
मालविकाग्निमित्र	श्री रमाशङ्कर 'जैथली'	॥१॥
कुमारसम्भव	श्री रमाश 'जैथली'	॥१॥
नागानन्द	श्री देवर्षि सनाढ्य	॥१॥
गीता	श्री रमाशङ्कर 'जैथली'	॥१॥
नीति-कथा	श्री यतेन्द्रकुमार गर्ग	॥१॥
जागरण के गीत भाग १	श्री शिवशङ्कर शर्मा राकेश	॥१॥
” ” २	श्री शिवशङ्कर शर्मा राकेश	॥१॥
जीवन कथाएँ (महात्मागांधी)	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
” ” (सरदार पटेल)	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
” ” (जवाहरलाल नेहरू)	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
गवैया गधा	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
घोंघा बसन्त	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
समझदार मैना	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
सियार पंडित	श्री व्यथित हृदय	॥१॥
बालचर-शिक्षा के मूल सिद्धांत	श्री सुरेशचन्द्र वाष्णैय	॥१॥

भारत प्रकाशन मंदिर

सुभाष रोड, अलीगढ़

# राजकमल के लोकप्रिय प्रकाशन

उपन्यास	बहती गंगा : शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' (पुरस्कृत) १।।।८
जय सोमनाथ : कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ५)	गंगा मैया : भैरवप्रसाद गुप्त (पुरस्कृत) १।।।८
भगवान् परशुराम : कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ६।।)	चन्दा : इन्द्र वसावड़ा १।।।८
लोकमहर्षिणी : कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ४।।)	बाहर-भीतर : डॉ० देवराज (पुरस्कृत) १।।।८
लोपामुद्रा : कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ५)	बाबा बटेसरनाथ : नागार्जुन (पुरस्कृत) १।।।८
जहाज का पंछी : इलाचन्द्र जोशी (पुरस्कृत) ७)	उबाल : डॉ० रांगेय राघव १।।।८
मैला आंचल : फणीश्वरनाथ 'रेणु' (पुरस्कृत) ६)	सनसनाते सपने : राधाकृष्ण १।।।८
एक नीड़ दो पंछी : उदयशङ्कर भट्ट ८)	स्वप्नमयी : विष्णु प्रभाकर १।।।८
एक था राजा : मुल्कराज आनन्द ७।।)	कली मुसकराई : सत्यप्रकाश संगर ३)
उखड़े हुए लोग : राजेन्द्र यादव ७)	हेमा : राजेन्द्र शर्मा ३)
नदी और नारी : हुमायूँ कबीर ४)	एक था : श्रीमती शीला शर्मा (पुरस्कृत) २)
नये मोड़ : उदयशङ्कर भट्ट (पुरस्कृत) ३।।)	कजली : भवानी भट्टाचार्य ४।।)
सागर, लहरें और मनुष्य : उदयशङ्कर भट्ट ४।।)	दूटे हुए पर : खलील जिब्रान १।।)
कल्याणमल : के०एम०पणिकर ३।।)	धरती की ओर : शिवराम कारान्त ५)
प्रगति की राह : गोविन्दवल्लभ पन्त ४।।)	सोरठ तेरा बहता पानी : भवेरचन्द मेघाणी ३)
रथ के पहिये : देवेन्द्र सत्यार्थी ५।।)	वेदवृक्षों की छाया में : शिह येन १)
कठपुतली : देवेन्द्र सत्यार्थी ६)	वीर भद्र की गोष्ठी : रावी ३।।)
ब्रह्मपुत्र : देवेन्द्र सत्यार्थी ७)	कहानियाँ
सेमल के फूल : मार्कण्डेय १।।)	जीवन के अंचल से : लीलावती मुन्शी ४।।)
कायर : राजेन्द्र शर्मा १।।।८	फूल और पत्थर : कृष्णचन्द्र २।।।)
जीवनदान : श्रीराम शर्मा १।।।८	पाषाण नगरी : शिवसहाय चतुर्वेदी ३।।।)
आदमी और सिक्के : महेन्द्रनाथ १।।।८	हंसा जाई अकेजा : मार्कण्डेय २।।)
	राजा निरबंसिया : कमलेश्वर २।।)

# राजकमल के लोकप्रिय प्रकाशन

परिधि :	राजेन्द्र शर्मा २)	कविता
चार के चार :	कमल, जोशी २)	पर आँखे नहीं भगीं : डॉ० शिव-
लम्बे दिन जलती रातें : सत्यप्रकाश	संगर २)	मंगल सिंह 'सुमन' ३॥)
अफ्रीका का आदमी : सत्यप्रकाश	संगर २॥)	धरती और स्वर्ग : डॉ० देवराज ३)
अवगुण्ठन : सत्यप्रकाश संगर २)		अपत्क : वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ३॥)
कितना ऊँचा कितना नीचा :	सत्यप्रकाश संगर २)	क्वासि : वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ३॥)
कहानी नई पुरानी : सं० डॉ०	रघुवीरसिंह २)	चक्रव्यूह : कुँवरनारायण ३॥)
नाटक एवं एकांकी		सुवेत्ता : शम्भूनाथ 'शेष' २)
वाहारे मैं वाह ! : कन्हैयालाल	माणिकलाल मुन्शी ४)	चेतना : बाबूराम पालीवाल १॥)
पत्थर और परछाइयाँ : मार्कण्डेय २॥)		सूर्य का स्वागत : दुष्यन्त कुमार ३)
सूत्रधार : सं० धर्मेन्द्र गुप्त २॥)		दिवालयोक : शम्भूनाथ सिंह २)
ध्रुवतारिका : डॉ० रामकुमार	वर्मा १)	मंगल गीत : राजेन्द्र शर्मा २)
एकला चलो रे : उदयशंकर भट्ट १)		पद्य-प्रवाह : सं० श्रीमती सुशीला
क्रान्तिकारी : उदयशंकर भट्ट १॥)		कुमारी २॥)
पदों के पीछे : उदयशंकर भट्ट २॥)		रामचरित्र : रघुनाथ 'रसाल' ३)
नया समाज : उदयशंकर भट्ट १॥)		मकाकवि अकबर और उनका
त्रिद्रोहिणी अम्बा : उदयशंकर	भट्ट १॥)	काव्य : उमरावसिंह कारुणिक ३॥)
सगर विजय : उदयशंकर भट्ट २)		नये स्वर : सं० सुरेन्द्रपाल सिंह एवं
शक-विजय : उदयशंकर भट्ट २)		भुवनेश चतुर्वेदी १)
झलना : भगवतीप्रसाद, वाजपेयी २॥)		संस्कृति, तथा लोकसाहित्य
बरगद : कृष्णलाल श्रीधराणी १॥)		भगवान् बुद्ध : धर्मानन्द कोसम्बी
युगछाया : सं० शिवदानसिंह चौहान २॥)		(साहित्य अकादेमी की ओर से प्रकाशित) ५)
		मालाकार : रवीन्द्रनाथ ठाकुर,
		अनु० सत्यकाम विद्यालंकार १०)
		प्राचीन भारतीय मनोरंजन :
		मन्मथराय ५)
		हिन्दू सभ्यता : डॉ० राधाकुमुद
		मुकर्जी, अनु० डॉ० वासुदेवशास्त्र
		अग्रवाल ६॥)

## राजकमल के लोकप्रिय प्रकाशन

- मेघदूत (मूल सहित) : डॉ० वासु-  
देवशरण अग्रवाल ४)
- भारतीय संस्कृति : शिवदत्त ज्ञानी ५)
- भारतीय तत्त्वचिन्तन : डॉ०  
जगदीशचन्द्र जैन ६)
- भारतीयलोक साहित्य : श्याम  
परमार ३॥)
- धरती गाती है : देवेन्द्र सत्यार्थी  
(अभी अप्राप्य)
- धीरे बहो गंगा : देवेन्द्र सत्यार्थी  
(अभी अप्राप्य)
- बाजत आवे ढोल : देवेन्द्र सत्यार्थी ६)
- दशकुमारचरित : पं० निरंजनदेव  
शर्मा ५॥)
- पंचतन्त्र : डॉ० मोतीचन्द्र ४॥)
- आलोचना, भाषा-विज्ञान  
भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी :  
डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या (पुरस्कृत) ६)
- हमारी नाट्य परम्परा : श्रीकृष्णदास १०)
- वैष्णव धर्म : परशुराम चतुर्वेदी ३॥)
- हिन्दी रीति-साहित्य : डॉ० भगीरथ  
मिश्र ४)
- आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त :  
एस० पी० खत्री (पुरस्कृत) १२)
- प्रेमचन्द एक विवेचन : डॉ० इन्द्रनाथ  
मदान ३॥)
- प्रेमचन्द और गोर्की : सं शचीरानी  
गुर्तू ६)
- शब्दों का जीवन : भोलानाथ तिवारी २)
- निबन्धिनी : गंगाप्रसाद पाखडेय ३)
- हिन्दी-निबन्ध : प्रभाकर भागवते २)
- पृथ्वीराज रासो में कथानक रुढ़ियाँ :  
ब्रजविलास श्रीवास्तव (पुरस्कृत) ३)
- भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा :  
परशुराम चतुर्वेदी ३॥)
- सिद्धांत और समीक्षा : सं० सन्तराम  
विचित्र २॥)
- हिन्दी-गद्य की प्रवृत्तियाँ : आलोचना  
पुस्तकमाला २)
- हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ " २)
- हिन्दी-आलोचना की अर्वाचीन  
प्रवृत्तियाँ : " २)
- पारचात्य आलोचना की अर्वाचीन  
प्रवृत्तियाँ : " २॥)
- हिन्दी के गौरव ग्रन्थ : " २)
- मुन्शीजी और उनकी प्रतिभा : पं०  
सीताराम चतुर्वेदी ३)
- हिन्दी-भाषा तथा साहित्य : डॉ०  
उदयनारायण तिवारी ३)
- हिन्दी गद्य-साहित्य : शिवदानसिंह  
चौहान २॥)
- हिन्दी-साहित्य के अस्मी वर्ष :  
शिवदानसिंह चौहान ३)
- साहित्य-शास्त्र : डॉ० रामकुमार वर्मा ४)
- कालिदास और उनका युग : डॉ०  
भगवतशरण उपाध्याय ३)
- ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली :  
डॉ० हरिहरप्रसाद गुप्त ६)



## राजकमल के लोकप्रिय प्रकाशन

- उर्दू और उसका साहित्य : धर्म-वर्णन : आनन्दशङ्कर बापुभाई  
गोपीनाथ 'अमन' २) ध्रुव २॥)
- तमिल और उसका साहित्य : पूर्ण सागर-सेतु : राजेन्द्र शर्मा ५)  
सोमसुन्दरम् २) इतिहास
- तेलुगु और उसका साहित्य : रतलाम का प्रथम राज्य : रघुवीरसिंह १०)  
हनुमच्छास्त्री अयाचित २) Asoka : Dr. Radha-  
माखवी और उसका साहित्य : श्याम परमार (पुरस्कृत) २) Kumud Mookrji 15/-  
Chandragupta Maurya  
बंगला और उसका साहित्य : हंसकुमार तिवारी २) And His Times : ,, ,, 15/-  
Studies in the origins of  
ब्रह्मधी और उसका साहित्य : त्रिलोकीनारायण दीक्षित २) Buddhism : G.C. Pandey 25/-  
आत्मकथा, जीवन-चरित्र  
मराठी और उसका साहित्य : डॉ० प्रभाकर माचवे २) आधे रास्ते : कन्हैयालाल माणिकलाल  
मुन्शी ४॥)
- प्राकृत और उसका साहित्य : डॉ० हरदेव बाहरी २) सीधीचदान : कन्हैयालाल माणिक-  
लाल मुन्शी ५)  
साहित्यिक-निबन्ध स्वप्नसिद्धि की खोज में : कन्हैयालाल ५)  
शेष स्मृतियाँ : डॉ० रघुवीरसिंह ४) चाँद सूरज के बीरन : देवेन्द्र सत्यार्थी ५)  
जीवन-कथा : डॉ० रघुवीरसिंह ३) लोकमान्य तिलक : भीमराव  
गोपाल देशपाण्डे ३)  
जीवन धूखि : डॉ० रघुवीरसिंह १॥) अर्थशास्त्र, राजनीति  
गद्य-गौरव : सं० बलराज एम० ए० २॥)
- विचार-वक्त्ररी : सं० जैनेन्द्र कुमार ३॥) भारतीय अर्थशास्त्र : जथार और बेरी,  
अनु० डी० एस० कुशावाहा,  
मानसरोवर : गद्य-पद्य का छात्रोपयोगी एक जिल्द में १२)  
संकलन १॥) दो जिल्दों में, प्रत्येक का ७)
- साहित्य-संचय : गद्य-पद्य का छात्रो- आधुनिक संविधान :  
पयोगी संकलन २॥) के० सी० व्हीयर, अनु० नेमिचन्द्र जैन ३)  
धार्मिक भारत और अन्तर्राष्ट्रीय भ्रम-  
अन्तरात्मा से : रंगनाथ दिवाकर २) संस्था : नरेन्द्रनाथ कौल ३॥)

# राजकमल के लोकप्रिय प्रकाशन

शिक्षा, मनोविज्ञान  
 शिक्षा : डॉ० जाकिर हुसेन ३॥  
 शिक्षण प्रविधि : बी० एस० माथुर,  
 शची माथुर २॥॥  
 बच्चा मेरा शिक्षक : कैरोलिन प्रैट १॥  
 सरल मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया ३॥॥  
 हमारे बच्चे ६ से १२ वर्ष तक :  
 अनूदित ४॥॥

राजकमल मनोविज्ञान-माला  
 बचपन के पहले पाँच साल : १॥  
 हीनभाव : १॥  
 बचपन ५ से १० साल १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग १) : १॥  
 प्रेम और विवाह : १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग २) : १॥  
 व्यक्तित्व : १॥  
 स्मरण शक्ति : १॥  
 मित्र बनाने की कला : १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग ३) : १॥  
 अध्ययन कैसे करें : १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग ४) : १॥  
 चिन्ता : १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग ५) : १॥  
 माता पिता की समस्या : १॥  
 हमारे जीवन का अर्थ (भाग ६) : १॥  
 स्त्रियोपयोगी, सेक्स  
 भारतीय भोजन-विज्ञान : सावित्री  
 देवी वर्मा ७॥  
 नारी का रूप शृंगार : सावित्रीदेवी  
 वर्मा ६॥  
 दाम्पत्य प्रेम : डॉ० मेरी स्लोप्स २॥॥  
 सन्तति नियमन : डॉ० मेरी स्लोप्स १॥॥  
 स्थायी प्रेम : डॉ० मेरी स्लोप्स २॥॥

किशोरोपयोगी, प्रौढोपयोगी  
 इन्सान की कहानी : मुकरराज  
 आनन्द २॥॥॥  
 हिन्दुस्तान की कहानी : मुकरराज  
 आनन्द २॥  
 आदर्श माता-पिता : सावित्रीदेवी  
 वर्मा (पुरस्कृत) १॥  
 कैसे पकाएँ क्या खाएँ : सावित्रीदेवी  
 वर्मा १॥  
 बीमार की सेवा : डॉ० इन्द्रसेन वर्मा १॥  
 प्रौढोपयोगी देश-परिचय-माला  
 देश की जानकारी : ॥  
 गाँव की बातें : ॥  
 सहकारी आन्दोलन : ॥  
 सफाई : ॥  
 खेतीबारी : ॥  
 पशु-पालन : ॥  
 साम्प्रदायिकता : ॥  
 स्वतंत्र देश के नागरिक : ॥  
 हमारा विधान : ॥  
 पंचवर्षीय योजना : ॥  
 भारत के तीर्थस्थान : ॥  
 स्वास्थ्य-रक्षा : ॥  
 हमारे त्यौहार : ॥  
 भारत निर्माता : ॥  
 नगर-व्यवस्था : ॥  
 ग्राम-पंचायत १॥॥  
 प्रौढोपयोगी विज्ञान-परिचय-माला  
 पेड़-पौधे : ॥  
 पक्षियों का जीवन : ॥  
 फल और सब्जियाँ : ॥  
 कीड़े-मकोड़े व मक्खी-मच्छर  
 हमारी फसलें ॥

राजकमल प्रकाशन (प्राइवेट) लि०

दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास

सत्साहित्य प्रकाशन-संस्था  
सस्ता साहित्य मंडल

जिसने

पहले

भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम में  
राष्ट्रीयता की भावना को देश  
के कोने-कोने में पहुँचाने  
में योग दिया और

अब

देश के नव-निर्माण का संदेश  
लाखों नर-नारियों तक  
पहुँचाने के लिए बराबर  
प्रयत्न कर रहा है

यह सत्साहित्य  
घर-घर पहुँचाने में हाथ बँटाइये

प्रधान कार्यालय

सस्ता साहित्य मण्डल

नई दिल्ली—१

शाखाएँ

हिन्दी प्रकाशन मन्दिर  
जीरो रोड, इलाहाबाद

नवयुग साहित्य सदन  
खजूरी बाजार, इन्दौर

# हमारा अनमोल प्रकाशन

## साहित्यिक कृतियाँ

- १—हिन्दी कवियों की आलोचना—श्री कृष्णकुमार सिन्हा ४॥)
- २—ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि—श्री कृष्णकुमार सिन्हा ४)
- ३—आधुनिक कवि पंत—श्री कृष्णकुमार सिन्हा ४)
- ४—प्रसादजी का चन्द्रशुभ — श्री कृष्णकुमार सिन्हा ३)
- ५—प्रसादजी का अजातशत्रु —श्री कृष्णकुमार सिन्हा ३)
- ६—शुभजी की यशोधरा—श्री कृष्णकुमार सिन्हा ३॥)
- ७—पंत और उनकी ग्रन्थि—श्री कृष्णकुमार सिन्हा २)
- ८—सुदामा चरित्—श्री कृष्णकुमार सिन्हा १॥)
- ९—स्वर्ण काव्य मंजूषा (काव्य संग्रह)—श्री कृष्णकुमार सिन्हा ६॥)
- १०—प्रेमचन्द और उनकी निर्मला—श्री कृष्णकुमार सिन्हा १॥)
- ११—कहानी के रूप और तत्व—प्रो० देवमित्र एम० ए० १॥)
- १२—निबन्ध के रूप और तत्व—प्रो० देवमित्र एम० ए० १॥)
- १३—गबन : एकआ लोचनात्मक अध्ययन—प्रो० जगदीश नारायण दीक्षित १॥)
- १४—पथिक : एक आलोचनात्मक अध्ययन—प्रो० जगदीश नारायण दीक्षित १॥)
- १५—राज्यश्री : एक आलोचनात्मक अध्ययन—प्रो० जगदीश नारायण दीक्षित १॥)
- १६—ध्रुवस्वामिनी आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- १७—स्वप्नमंग आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० २॥)
- १८—रत्नाबन्धन आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- १९—चित्रलेखा आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- २०—नूरजहाँ आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- २१—रश्मिरेथी आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० २)
- २२—कुणाल गीत-आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- २३—कुणाल-आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- २४—रूपान्तर-आलोक—श्री मल्लिनाथ एम० ए० १॥)
- २५—बालकाण्ड (मूल और टीका)—श्री मल्लिनाथ एम० ए० ३)
- २६—हरिऔध और उनका प्रियप्रवास (द्वादश से सत्रह सर्ग की टीका और आलोचना)—श्री मल्लिनाथ एम० ए० २॥)
- २७—तथागत—श्री रामवृक्ष बेनीपुरी २)
- २८—माटी की मूर्तें—श्री रामवृक्ष बेनीपुरी १॥)

## राजनीति, अर्थशास्त्र और वाणिज्य

- १—इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन प्रणाली—जे० एच० वारेन ५॥॥
- २—भारतीय स्थानीय स्व-शासन—प्रो० चेतकर भा ४॥॥
- ३—भारत की आर्थिक समस्याएँ—प्रो० रामावतार लाल ५॥॥
- ४—व्यापार संचालन और बाजार सूचनाएँ (प्रथम भाग)—  
प्रो० आनन्दकुमार ३॥॥
- ५—व्यापार संचालन और बाजार सूचनाएँ (द्वितीय भाग) —  
प्रो० आनन्दकुमार ३॥॥
- ६—विक्रय-तत्व—प्रो० केदारराम गुप्त ४॥॥
- ७—वाणिज्य विधि की रूपरेखा—प्रो० कामताप्रसाद ७॥॥
- ८—आयकर विधान और खाता—प्रो० शिवराम श्रीवास्तव ४॥॥
- ९—माध्यमिक आर्थिक और वाणिज्य भूगोल—प्रो० अवधेशकुमार सिन्हा ४॥॥
- १०—प्रवेशिका आर्थिक और वाणिज्य भूगोल—प्रो० अवधेशकुमार सिन्हा २॥॥
- ११—प्रारम्भिक वाणिज्य भूगोल—प्रो० कामेश्वर भा १॥॥
- १२—व्यापारिक पद्धति, कार्यालय प्रबन्ध और सहकारिता—मायाकांत भा १॥॥
- १३—बीमा का प्रारम्भिक सिद्धान्त—प्रो० आनन्दकुमार ५॥॥
- १४—प्रवेशिका बही-लेखन—प्रो० केदारराम गुप्त ३॥॥
- १५—उच्च वाणिज्य अंकगणित—प्रो० पुण्यपत भा ५॥॥
- १६—नवीन व्यापारिक अंकगणित—प्रो० पुण्यपत भा १॥॥
- १७—सरल व्यापारिक अंकगणित—प्रो० पुण्यपत भा २॥॥
- १८—प्रवेशिका अर्थशास्त्र—जे० एन० भा २॥॥
- १९—प्रारम्भिक नागरिकशास्त्र—प्रो० एस० के० भा २॥॥

## गणित और विज्ञान

- १—विज्ञान और वैज्ञानिक—फूज़देव सहाय वर्मा १॥॥
- २—प्रारम्भिक स्थिति-विज्ञान—डा० वी० आर० चारियार और प्रो० भोला  
सिंह ५॥॥
- ३—प्रारम्भिक नियामक ज्यामिति—डा० वी० आर० चारियार और  
प्रो० पुण्यपत भा २॥॥

नोवेल्टी एण्ड कम्पनी

अशोक राजपथ, पटना—४

## साहित्य निकेतन, कानपुर के

### सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रकाशन

संस्कृत	आलोचना
वैदिक साहित्य की रूपरेखा ३॥)	प्रसाद के नाटकीय पात्र ४)
संस्कृत साहित्य की रूपरेखा ४॥)	कथाकार प्रसाद २)
संस्कृत साहित्य का सुबोध	प्रेमचन्द २॥)
इतिहास २॥)	मृगनयनी समीक्षा १॥॥)
भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र (१-३) २॥॥)	कर्मभूमि समीक्षा १॥॥)
हिन्दी दशरूपक ५॥), ६)	उपन्यास, कहानी
गीता-मर्म ७॥)	संघर्ष : कौशिक ४)
संस्कृत प्रथम पुस्तक ७)	कंटीले तार : रामसरन शर्मा ५)
संस्कृत द्वितीय पुस्तक ३)	हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियाँ ३॥)
सांख्य कारिका ५)	महाराणा अमरसिंह : स्त्री पात्रहीन नाटक ॥॥)
काव्य दीपिका अष्टम शिखा ॥॥)	
संस्कृत गद्य मंजरी २)	निबंध
प्राचीन काव्य	बुद्धितरंग : सद्गुरुशरण अवस्थी २)
पृथ्वीराज रासो : पद्मावती समय सटीक १॥)	शिक्षा
वेलि क्रिसन रुक्मणीरी : सटीक ३॥)	भूगोल शिक्षण पद्धति ३॥॥)
विद्यापति का अमर काव्य १॥॥=)	शिक्षण अभ्यास ॥=)
आधुनिक काव्य	अर्थशास्त्र
कविताएँ : १६५४ : संकलन २॥॥)	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त
मेघमाला २॥)	विज्ञान ३॥)
दो गीत १॥॥)	भारतीय वैज्ञानिक
शिञ्जिनी १॥॥=)	साधुन विज्ञान ६)
संत साहित्य	विविध
कबीर की विचारधारा ७)	कौमार्यभृत्य १॥॥)
संत दर्शन ४), ४॥)	गृह वस्तु चिकित्सा १)
	शेरपा तेनसिंह ॥॥)
	बारह वर्ष : बालकों का लेखा रखने की पुस्तक १॥), १॥॥)

भारत सरकार, पब्लिकेशन्स डिवीजन, उत्तर प्रदेश की सरकार एवं प्रकाशन ब्यूरो, लखनऊ विश्वविद्यालय, कौंसिल आफ साहित्यिक एण्ड इयलस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली, नागरी प्रचारिणी सभा, प्रभृति सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के प्रकाशन तथा विविध विषयों की हिन्दी एवं संस्कृत की श्रेष्ठ और नवीनतम पुस्तकों का बृहत् भण्डार ।

## साहित्य निकेतन, श्रद्धानन्द-पार्क, कानपुर

# हिन्दुस्तानी एकेडेमी के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन

## भाषा-शास्त्र

- ब्रजभाषा—डॉ० धीरेन्द्र वर्मा ६)  
दक्खिनी हिंदी—डॉ० बाबूराम सक्सेना ३)  
अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन—डॉ० कपिलदेव द्विवेदी १२)

## कोष

- तुलसी शब्द सागर—पं० हरगोविन्द तिवारी तथा श्री भोलानाथ तिवारी १२)  
अवधी कोष—श्री रामाज्ञा द्विवेदी ७॥)  
हिंदी कथा कोष—श्री भोलानाथ तिवारी तथा अन्य ३)

## समीक्षा

- हिंदी वीरकाव्य—डॉ० टीकमसिंह तोमर १२)  
आधुनिक हिंदी काव्य में नारी-भावना—डॉ० शैलकुमारी ७)  
पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत—श्री। लीलाधर गुप्त ६)  
उर्दू काव्य की एक नई धारा—श्री उपेन्द्रनाथ 'अरक' २॥)  
चंदबरदायी और उनका काव्य—डॉ० विपिनविहारी त्रिवेदी ८)

## इतिहास

- मराठी साहित्य का इतिहास—श्री कृष्णलाल ४॥)  
हिंदुई साहित्य का इतिहास—गार्सा दतासी—अनु० डॉ० लक्ष्मीसागर  
वाण्येय ७)  
उर्दू साहित्य का इतिहास—डॉ० रामबाबू सक्सेना, अनु० श्री रामचन्द्र  
टन्डन तथा श्री शालिग्राम श्रीवास्तव ७॥)

## संस्कृति तथा दर्शन

- मध्यकालीन भारतीय संस्कृति—म० म० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द्र  
ओफ्फा ३)  
नाथ-सम्प्रदाय—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ६)  
अरब और भारत के सम्बन्ध—सैयद सुखेमान नदवी, अनु० रामचन्द्र वर्मा ८)  
भारतीय दर्शन-शास्त्र का इतिहास—डॉ० न० कि० देवराज तथा  
डॉ० रामानन्द तिवारी ६॥)

हिन्दुस्तानी एकेडेमी (उ० प्र०), इलाहाबाद

## हमारे सुरुचिपूर्ण हिन्दी प्रकाशन

### दार्शनिक आध्यात्मिक

१. भारतीय विचारधारा २)  
 २. अध्यात्म-पदावली ४॥)  
 ३. वैदिक साहित्य ६)  
 कहानियाँ  
 ४. संघर्ष के बाद ३)  
 ५. गहरे पानी पैठ [द्वि० सं०] २॥)

### ६. आकाश के तारे : धरती के

फूल २)

७. पहला कहानीकार २॥)  
 ८. खेल-खिलौने २)  
 ९. अतीत के कंपन [द्वि० सं०] ३)  
 १०. जिन खोजा तिन पाइयाँ २॥)  
 ११. नये बादल २॥)  
 १२. कुछ मोती कुछ सीप २॥)

### कविता

१३. वर्द्धमान [महाकाव्य] ६)  
 १४. मिलन यामिनी ४)  
 १५. धूप के धान ३)  
 १६. मेरे बापू २॥)  
 १७. पञ्चप्रदीप २)

### संस्मरण, रेखाचित्र

१८. हमारे आराध्य ३)  
 १९. संस्मरण ३)  
 २०. रेखाचित्र ४)  
 २१. जैन जागरण के अग्रदूत ५)

### उर्दू शायरी

२२. शैरो-शायरी [द्वि० सं०] ८)  
 २३. शैरो सुखन [भाग १] ८)  
 २४. शैरो सुखन [भाग २] ३)  
 २५. शैरो सुखन [भाग ३] ३)  
 २६. शैरो सुखन [भाग ४] ३)  
 २७. शैरो सुखन [भाग ५] ३)

### राजनीति

२८. एशिया की राजनीति ६)  
 ऐतिहासिक  
 २९. खण्डहरों का वैभव ६)  
 ३०. खोज की पगडण्डियाँ ४)  
 ३१. चौलुक्य कुमारपाल ४)  
 ३२. कालिदास का भारत [भाग १] ४)  
 ३३. कालिदास का भारत [भाग २] ४)  
 ३४. हिन्दी जैनसाहित्य परिशीलन [भाग १] २॥)  
 ३५. हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन [भाग २] २॥)

### ज्योतिष

३६. भारतीय ज्योतिष ६)  
 ३७. केवलज्ञान प्रश्नचूडामणि ४)  
 ३८. करलक्षण [द्वि० सं०] ॥)

### नाटक

३९. रजतरश्मि २॥)  
 ४०. रेडियो-नाट्य-शिल्प २॥)  
 ४१. पचपन का फेर ३)  
 ४२. और खाई बढ़ती गई २॥)

### उपन्यास, सूक्तियाँ

४३. मुक्तिदूत ५)  
 ४४. तीसरा नेत्र २॥)  
 ४५. रक्तराग ३)  
 ४६. ज्ञान-गंगा [सूक्तियाँ] ६)

### निबंध, आलोचना

४७. जिन्दगी मुसकराई ४)  
 ४८. संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद ३)  
 ४९. शरत् के नारीपात्र ४॥)  
 ५०. क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ २॥)

### त्रिविध

५१. द्विवेदी-पत्रावली २॥)  
 ५२. ध्वनि और संगीत ४)  
 ५३. हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थान [द्वि० सं०] १)

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस—५



## हमारे सुरुचिपूर्ण नवीन प्रकाशन

### साहित्य साधना की पृष्ठभूमि—

अलोचना साहित्य में अनुपम देन : मूल्य ६) मात्र

ले० श्री बुद्धिनाथ भा 'कैरव' ।

पुस्तक के प्रति सम्मतियाँ

हजारी प्रसाद द्विवेदी—

बहुत अच्छी लगी है । यह स्रष्टा का विवेचन है ।

स्व० अमरनाथ भा—

विद्यार्थियों के ही नहीं, साहित्य-निर्माताओं के लिए भी हितकर सिद्ध होगी ।

शिवनाथ, शांति निकेतन—

ऐसे सैद्धांतिक समीक्षा के ग्रन्थ थोड़े हैं ।

रामनरेश त्रिपाठी—

विस्तृत साहित्य का पंचिस रूप में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करा देनेवाली इससे अच्छी पुस्तक मैंने अभी तक नहीं देखी थी ।

कविता कानन—ले० डा० रामखेलावन पाण्डेय—

मूल्य १।)

पाठकों की जानकारी और साहित्यिक अभिरुचि के संवर्धन के लिए विश्व के श्रेष्ठ लेखकों (कवियों के व्यक्तित्व, एवं कृतिरव) के सम्बन्ध में ऐसी पुस्तकों की बड़ी आवश्यकता है । 'आज'

कबीर—ले० श्री यमुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज'

मूल्य १।)

इस पुस्तक में कबीर के तेजस्वी व्यक्तित्व को प्रकाशित किया है । साथ ही कबीर के सिद्धान्तों एवं उपदेशों को भी कवि ने सहज एवं आकर्षक शैली में व्यक्त कर दिया है । 'आज'

पशुओं का अनुकृत इलाज—ले० श्री शोरङ्ग तिवारी— मूल्य १।।)

रक्त और रङ्ग—ले० बिहार के प्रेमचन्द श्री अनूपलाल मंडल  
एक सामाजिक उपन्यास—मूल्य ६)

राह का पत्थर—ले० उदीयमान उपन्यासकार विध्याचलप्रसाद गुप्त,  
मुगलकालीन ऐतिहासिक उपन्यास । मूल्य २।।)

ज्ञानपीठ लिमिटेड, पटना—४

और पुस्तकों के लिए बृहत् सूचीपत्र के लिए लिखें ।

## हमारी प्रकाशित प्रौढ़ तथा ग्राम साहित्य की पुस्तकें

१. गेहूँ की खेती	१॥)	२१. सारंधा	(काव्य) ५)
२. धान की खेती	१॥)	२२. धरती पर उतरो	" २॥)
३. आलू की खेती	१॥)	२३. जब राम राज्य आ जायेगा	,, १)
४. गन्ने की खेती	१॥)	२४. रूप तरंग	,, २)
५. कपास की खेती	१॥)	२५. वतन के गीत	,, ४)
६. मसाले की खेती	१॥)	२६. भोर के सपने	,, १॥)
७. सरल कृषिशास्त्र	३)	२७. कंचन घट	,, १॥)

—:०:—

—:०:—

८. चक्रवन्दी क्यों और कैसे ?	॥)	२८. महात्मा गांधी (जीवन चरित)	३)
९. हम सुखी कब होंगे	॥)	२९. पं० जवाहरलाल नेहरू	" ३)
१०. गाँव पंच और पंचायत	॥)	३०. डा० राजेन्द्रप्रसाद	,, ३)
११. आपकाज महाकाज	॥)	३१. लोकमान्य तिलक	,, ३)
१२. अपना हुलाज अपने हाथ	॥)	३२. लाला लाजपत राय	,, ३)
१३. स्वावलम्बन और समाज सेवा	॥)	३३. डा० सर राधाकृष्णन	,, ३)
१४. हम किनसे मिलें	॥)	३४. डा० राजगोपालाचार्य	,, ३)
१५. पशुओं का हुलाज	॥)		

—:०:—

—:०:—

१६. जीवन निर्माण	१॥)	३५. भिखारिणी	४)
१७. तीन क्रान्तिकारी शहीद	३)	३६. मेघ पुष्प	३॥)
१८. सरदार भगतसिंह	१)	३७. दोषी कौन ?	२)
१९. चन्द्रशेखर आजाद	१)	३८. पुरस्कार	१॥)
२०. श्री विनोदिनी	६)	३९. कल्लोल	३)
		४०. प्रदर्शनी	२॥)

—:०:—

विनोद पुस्तक मंदिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा

## गयाप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें

- साहित्यिक और आलोचनात्मक  
आधुनिक कविता की भाषा : वृजकिशोर  
चतुर्वेदी ६५
- हिन्दी के प्रतिनिधि कवि : प्रेमनारायण  
ट्यडन ४५
- हमारे गद्य निर्माता : प्रेमनारायण ट्यडन २५
- हिन्दी साहित्य की रूपरेखा : प्रेमनारायण  
ट्यडन २५
- हिन्दी साहित्य में निबन्ध : ब्रम्हदत्त शर्मा २॥५॥
- मेरे निबन्ध (जीवन और जगत) :  
गुलाबराय, एम० ए० ५५
- गांधीय मार्ग : गुलाबराय, एम० ए० २५
- जीवन पथ : गुलाबराय, एम० ए० १॥५॥
- आत्मनिर्माण : गुलाबराय, एम० ए० १॥५॥
- अंगरेजी साहित्य परिचय, : डॉ० दयाशंकर  
शर्मा ४५
- उर्दू साहित्य परिचय : हरिशंकर शर्मा ६५
- मराठी साहित्य का इतिहास : ना० बा०  
गोडबोले ३५
- हिन्दी का मान मन्दिर : डॉ० सत्येन्द्र २५
- हमारा स्वातंत्र्य संघर्ष : सुश्री प्रभा  
अग्रवाल १॥५॥
- उन्नत राष्ट्र : शिवधानसिंह १॥५॥
- हमारी भी कहानी है : प्रो० राधेश्वर गुरु २५
- मुझे आपसे कुछ कहना है : रावी २५
- शाहनामा : प्रो० रामचन्द्र  
श्रीवास्तव ५५
- भारत की नदियाँ : ब्रजराजदास २५
- नवाबी सनक : जयनाथ 'नलिन' ३५
- सांस्कृतिक प्रश्न : जगन्नाथप्रसाद  
मिलिन्द २॥५॥
- बिक्लो का नकछेदन : जगन्नाथप्रसाद  
मिलिन्द २५
- शिक्षण-साहित्य  
कक्षाध्यापन एवं पाठ-सूत्र निर्माण :  
बंशीधरसिंह तथा भूदेव शास्त्री ५५
- भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास :  
बंशीधरसिंह तथा भूदेव शास्त्री ४॥५॥
- बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त : मिलापचन्द्र  
दुबे ५५
- समवायी शिक्षण : मिलापचन्द्र दुबे ३५
- कथा-साहित्य  
अन्तर्प्रान्तीय भारती : भालचन्द्र जोशी १॥५॥
- अन्तर्प्रान्तीय कहानियाँ : रामचन्द्र  
श्रीवास्तव १५
- कथा कुसुमाञ्जली : जैनेन्द्रनाथ तथा  
गुलाबराय २५
- कथा-कुसुमाञ्जली : जैनेन्द्रनाथ शास्त्री १॥५॥

## कोष-साहित्य

अभिनव अँगरेजी-हिन्दी कोष : केदारनाथ  
भट्ट, एम० ए० ७।

अभिनव हिन्दी कोष : हरिशंकर शर्मा ८।  
हिन्दुस्तानी कोष : हरिशंकर शर्मा ६।

## नाट्य-साहित्य

जीवन यज्ञ : डॉ० सत्येन्द्र २।  
दुःख क्यों : सेठ गोविन्ददास २।।  
दो नाटक (दलित कुसुम और पतित सुमन)  
: सेठ गोविन्ददास २।।

छः एकांकी नाटक : रामचन्द्र श्रीवास्तव २।  
नाटक निकुंज : अध्यापक जगेन्द्र २।  
नाटक नवरत्न : हरदयालुसिंह २।  
भास ग्रन्थावलि : हरदयालुसिंह २।  
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस : निशम्भरनाथ  
उपाध्याय १।

गह्वर्ध्वज : लक्ष्मीनारायण मिश्र २।

## जीवनी-साहित्य

जीवन ज्योति : हरिशंकर शर्मा १।।  
जीवन झाँकी : हरिशंकर शर्मा २।  
मेवाड़ महिमा : हरिशंकर शर्मा १।।

दशकुमार चरित : हरिदत्त शास्त्री १।।

राष्ट्र निर्माता : जगदीशप्रसाद १।।

## काव्य-साहित्य

शंकर सर्वस्व : हरिशंकर शर्मा १२।  
संचित रामचन्द्रिका : जगन्नाथ तिवारी २।।

स्वप्न और सत्य : भगवन्तशरण जौहरी ३।  
तारों के गीत : महेन्द्र भटनागर ॥।।

मुक्तिका : जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द २।।

मीरा मन्दाकिनी : नरोत्तमदास स्वामी २।

## प्रौढ़-साहित्य

साक्षरता चार्ट : एल० जी० नैने २।।

पूज्य बापू और उनके शिष्य :

एल० जी० नैने ॥।।

हमारा इतिहास : एल० जी० नैने ॥।।

हमारा भारत : एल० जी० नैने ॥।।

हमारे पड़ोसी : एल० जी० नैने ॥।।

भावी भारत : एल० जी० नैने ॥।।

कांग्रेस की देश सेवा : एल० जी० नैने ॥।।

महाभारत की कहानियाँ : अध्यापक

जगेन्द्र ॥।।

चमकते महकते मोती : हरिशंकर शर्मा ॥।।

## गयाप्रसाद एण्ड सन्स

हाँस्पिटल रोड,  
आगरा

चौड़ा रास्ता  
जैपुर

४०।७८ परेड,  
कानपुर

पाटनकर बाजार  
ग्वालियर

● प्रथम खण्ड

१  
०  
५ ४ ३ २ १ ० ९ ८ ७ ६ ५ ४ ३ २ १ ०

# हमारा महत्वपूर्ण प्रकाशन

## वृन्दावनलाल वर्मा साहित्य

### उपन्यास

### नाटक

भांसी की रानी लक्ष्मीबाई	६)	भांसी की रानी	२)
मृगनयनी	५)	हँस-मयूर	२।)
कचनार	४।।)	राखी की लाज	१।)
अचल मेरा कोई	३।।।)	पूर्व की ओर	२।)
मुसाहिबजू	१।।)	खिलौने की खोज	१।)
सोना	३)	बीरबल	१।)
लगन	१।)	बांस की फांस	१।)
प्रेम की भेंट	१।)	फूलों की बोली	१।)
अमर बेल	५)	निस्तार	१)
टूटे कांटे	४।)	ललित विक्रम	१।।।)
अहिल्याबाई	२।)	मंगल सूत्र	१)
भांसी की रानी लक्ष्मीबाई (संक्षिप्त)	२।।)	काश्मीर का कांटा	१)
		लो, भाई ! पञ्चों !! लो !!!	।।।)
		पीले हाथ	।।।)
		जहाँदार शाह	।।।)
		सगुन	।।।)
		रैर	१)
		केवट	१।)
		नीलकण्ठ	१)
		देखा देखी	।।।)

### कहानियाँ

शरणागत	१।)		
कलाकार का दण्ड	१।।)		
दबे पाँव	(प्रेस में)		

## मयूर-प्रकाशन

मानिक-चौक, भाँसी या ४, दरियागंज, दिल्ली

## उपन्यास

अंचल	उलका	३॥॥	न्यू लिटरेचर
	चढ़ती धूप	४)	किताब महल
	नई इमारत	४॥॥	"
	मरु प्रदीप	३॥॥	साहित्य भवन लि०
अनूपलाल खडल	दर्द की तस्वीरें	२)	श्रीअजन्ता प्रेस
	बुझने न पाये	४)	"
	मीमांसा	२॥॥	"
	रक्त और रङ्ग	६)	ज्ञानपीठ लि०
	रूप-रेखा	१॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
	वे अभागो	५)	"
	साकी	१॥॥	"
	समाज की वेदी पर	१॥॥	"
	सविता	३)	"
अमृतराय	बीज	७॥॥	हंस प्रकाशन
अमृतलाल नागर	नवाब्री मसनद	२॥॥	किताब महल
	महाकाल	३)	भारती भण्डार
	संठ बाँकेलाल	१॥॥	किताब महल
अनूपकुमार	युग-पुरुष राम	४)	आरमाराम एण्ड सन्स
अनूप	शेखर (भाग १-२) प्रत्येक	५)	सरस्वती प्रेस
इन्द्र बसावड़ा	चन्दा	१॥॥=)	राजकमल प्रकाशन
इन्द्र विद्यावाचस्पति	अपराधी कौन ?	५)	राजपाल एण्ड सन्स
इलाचन्द्र जोशी	जहाज का पंछी	७)	राजकमल प्रकाशन
	निर्वासित	५)	भारती भण्डार
	पदों की रानी	२॥॥	"
	प्रेत और छाया	४॥॥	"
	मुक्ति-पथ	५)	हिन्दी भवन
	लज्जा	२)	भारती भण्डार

इलाचन्द्र जोशी	श्रेष्ठ विदेशी.उपन्यास	१॥)	रामनारायण खाल
	संन्यासी	६)	भारती भण्डार
उग्र	सुबह के भूले	५॥)	"
	जी जी जी	२॥)	आत्माराम पृथ्व संन्स
	शराबी	३॥)	"
उदयराम सिंह	अधूरी नारी	३॥)	अशोक प्रेस
	रोहिणी	१)	"
उदयशङ्कर भट्ट	नये मोड़	३॥)	राजकमल-प्रकाशन
	सागर, लहरें और मनुष्य	४॥)	"
उपेन्द्रनाथ अरक	गर्म राख	८)	नीलाभ प्रकाशन
	गिरती दीवारें	१०)	"
	चेतन	६॥)	"
	बड़ी-बड़ी आँखें	३॥)	"
	सितारों के खेल	३॥)	"
उषादेवी मित्रा	नष्ट नीड़	४)	मैशनर पब्लिशिंग हाउस
	पथचारी	२॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
	सोहिनी	३)	सरस्वती प्रेस
अंकार शरद	अंतिम बेला	२)	न्यू लिटरेचर
	आँचल का आसरा	१॥)	खड्डर प्रकाशन
	खून खराबी	१॥)	न्यू लिटरेचर
	दादा	२॥)	अशोक प्रेस
	नाता-रिश्ता	२॥)	न्यू लिटरेचर
श्रीमूप्रकाश श्रीवास्तव	लकीरें	२॥)	नीलाभ प्रकाशन
कंचनकला सक्करवाल	पुनरुद्धार	३)	आत्माराम पृथ्व संन्स
	मूक तपस्त्री	३॥)	हिन्दी भवन
कमल शुक्ल	काले नगर में	२॥)	ओरिएण्टल बुक डिपॉ
	धूल के बादल	४)	"
	पथ से दूर	२॥)	"
	मौलभी	६)	"
	राग और त्याग	५)	"
करतारसिंह दुग्गल	चीली दामन	३॥)	राजवाड पृथ्व संन्स
किरीए साहू	रेड लाइट	३)	किताब महल



किशोर साहू	वीर कुणाल	४)	किताब महल
कुँवरानी तारादेवी	जीवन दान	५)	राजपाल एण्ड सन्स
केशवचन्द्र वर्मा	काठ का उल्लू और कबूतर	४)	साहित्य भवन लि०
कौशिक	संघर्ष	४)	साहित्य निकेतन
कृष्णचन्द्र एम० ए०	उलटा वृद्ध	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	पराजय	४॥)	"
आर० कृष्ण मूर्ति	रेत का महल	४)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	चोर की प्रेमिका (चित्र)	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
कृष्णा सोबती	चला, (प्रेस में)		भारती भण्डार
कृष्णचन्द्र शर्मा भिस्नु	भँवरजाल	३॥)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
गंगाप्रसाद पाण्डेय	देखा सुना	३)	मोतीलाल बनारसीदास
गिरधर गोपाल	चाँदनी के खण्डहर	२)	साहित्य भवन लि०
गुरुदत्त	उड़मती घटायें	६)	ओरिएण्टल बुक डिपो
	गुंठन	५)	भारती साहित्य सदन
	देश की हत्या	५॥)	"
	प्रवंचना	५)	राजपाल एण्ड संस
	बहती रेत	५)	"
	भावुकता का मूल्य	५)	"
	मानव	५)	"
	मायाजाल	५)	ओरिएण्टल बुक डिपो
	लुढ़कते पत्थर	५॥)	"
	वाम मार्ग	७)	भारती साहित्य सदन
	विकृत छाया	४॥)	"
	विडम्बना	६)	"
	विलोम गति	५)	"
	विश्वासघात	५॥)	"
	प्रश्नचिह्न	२॥॥)	श्रीअज्ञन्ता प्रेस
गुरुदेवशरदा	ठन-ठन गोपाल	२॥)	किताब महल
गोपालराम गहमरी	चक्रकांत	३)	भारती भण्डार
गोविन्दवल्लभ पन्त	जल समाधि	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
	पर्णा	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
	प्रगति की राह	४॥)	राजकमल प्रकाशक

गोविन्दवल्लभ पन्त	फिल्म का फन्दा (प्रेस में)		आत्माराम एण्ड सन्स
षतुरसेन शास्त्री	मुक्ति के बंधन	४)	भारती भण्डार
कृविनाथ पाण्डेय	अपराजिता	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	अंधकार	३)	ज्ञानपीठ लि०
	अस्पताल में	३)	"
	इंद्रधनुष	३॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
	माँ की ममता	२॥)	"
	विचित्र बदला	२)	"
	सुरङ्ग में खून	२)	"
जगन्नाथप्रसाद	पुरुषों के पाप	२)	किताब महल
जगमोहननाथ अवस्थी	रक्त का बदला	१॥)	न्यू लिटरेचर
	सती वेश्या	४॥॥)	"
जगमोहनसिंह	श्यामा स्वप्न	२)	ना० प्र० सभा
जनार्दन मुक्तिदूत	अधूरा उपन्यास	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
जयशङ्करप्रसाद	हरावती	१॥)	भारती भण्डार
	कङ्काल	४)	"
	तितली	४)	"
जितेन्द्र	निकम्मा	२॥)	लहर प्रकाशन
जैनेन्द्रकुमार	कल्याणी	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	त्यागपत्र	१)	"
	परख	१॥)	"
	सुनीता	२॥)	"
तम्बी शिवशङ्कर पिल्ले	चुनौती	२॥)	आत्मागम एण्ड सन्स
तेजबहादुर चौधरी	आग और पानी	२)	नीलाभ प्रकाशन
दयाशङ्कर मिश्र	बुझते दीप	३॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
दुर्गाशङ्कर मेहता	अनबुझी प्यास	७॥)	साहित्य भवन लि०
देवदूत विद्यार्थी	पाँच बेंत	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
देवनारायण द्विवेदी	कर्तव्याघात	४)	ज्ञानमण्डल लि०
देवराज	बाहर भीतर	१॥॥)	राजकमल प्रकाशन
देवीदयाल सेन	मानव की परख	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
देवेन्द्र शर्मा	कमला	२)	साहित्य प्रकाशन
देवेन्द्र सत्यार्थी	कठपुतली	६)	राजकमल प्रकाशन

देवेन्द्र सत्यार्थी	रथ के पहिये	५॥॥	राजकमल प्रकाशन
देवेशदास	अधखिली कली	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
द्वारकाप्रसाद	गुनाह वेलज्जत	२॥॥	नीलाभ प्रकाशन
धर्मवीर भारती	गुनाहों का देवता	५)	साहित्य भवन लि०
	सूरज का सातवाँ घोड़ा	१॥॥	"
धर्मेन्द्र एम० ए०	तैमूर	२॥॥	किताब महल
	रजिया	१॥॥	"
	रूप और ईश्वर	२॥॥	"
	विश्वामित्र	२॥॥	"
नरेश मेहता	डूबते मस्तूल		आत्माराम एण्ड सन्स
नरोत्तम नागर	फूल और पतझर	५॥॥	साहित्य प्रकाशन
नागार्जुन	नई पौध	२॥॥	किताब महल
	बल चनमा	३)	"
	बाबा बटेसरनाथ	१॥॥=)	राजकमल प्रकाशन
	रतिनाथ की चाची	२॥॥	किताब महल
नित्यानन्द वास्त्यायन	केलागाड़ी	१॥॥	हिन्दी भवन
निरूपमादेवी	अन्नपूर्ण का मंदिर	१॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
प्रतापनारायण मिश्र	बयालिस	४)	ज्ञानमण्डल लि०
	देशभक्त और देशद्रोही	२)	"
प्रतापनारायण श्रीवास्तव	विसर्जन	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
प्रभाकर माचवे	द्राभा	२)	साहित्य भवन लि०
प्रेमचन्द्र	अहंकार	२॥॥	हंस प्रकाशन
	कर्मभूमि	६)	"
	कायाकल्प	७)	"
	रावन	४)	"
	रावन (संक्षिप्त)	२॥॥	"
	रावन	५)	"
	गोदान	८)	सरस्वती प्रेस
	गोदान (संक्षिप्त)	४)	"
	निर्मला	२॥॥	"
	निर्मला	२॥॥	हंस प्रकाशन
	प्रतिज्ञा	२)	"

प्रेमचन्द्र	प्रतिशा	२)	सरस्वती प्रेस
	प्रेमाश्रम	६)	"
	प्रेमाश्रम (संक्षिप्त)	४)	"
	मंगल सूत्र	२)	"
	मनोरमा (कायाकल्प का		"
	पाठ्य-संस्करण)	४)	"
	रंगभूमि	१२)	"
	वरदान	४)	"
	वरदान	२)	हंस प्रकाशन
	सेवासदन	४)	"
	सेवासदन	४)	सरस्वती प्रेस
	सेवासदन (संक्षिप्त)	३)	"
पृथ्वीनाथ शर्मा	विद्रूप	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
बनवारीलाल सेवक	ययाति	१)	रामनारायण लाल
बहुष्मा	जर्जर हथौड़े	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
बलभद्र ठाकुर	राधा-राजन	४॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
बलवन्त सिंह	उजाला	२॥॥)	लहर प्रकाशन
बालकृष्ण भट्ट	मूतन ब्रह्मचारी	॥=)	ज्ञानमयबुद्ध लि०
भगवतीचरण वर्मा	आखिरी दौंव	३॥॥)	भारती भण्डार
	चित्रलेखा	२)	"
	टेढ़े-मेढ़े रास्ते	७)	"
	तीन वर्ष	३॥॥)	"
भगवतीप्रसाद वाजपेयी	धरती की साँस	२)	रामनारायण लाल
	दो बहनें	३)	भारती भण्डार
	निर्यातन	२)	किताब महाल
	अर्थार्थ से आगे	६)	ओरिएण्टल बुक डिपो
भैरवप्रसाद गुप्त	गंगा व्या	१॥॥=)	राजकमल प्रकाशन
	मशात	३॥॥)	नीलाभ प्रकाशन
	शोले	२)	"
मन्मथनाथ गुप्त	जयदेव	१॥॥)	किताब महाल
	जिच्च	१॥॥)	"
	बहता पानी	३॥)	साहित्य भवन लि०

मम्मयनाथ गुप्त	सुधार	१॥१)	किताब महल
महाराज धनपुरी	अविरल आँसू	५॥	श्रीअजन्ता प्रेस
महेन्द्रनाथ	आदमी और सिक्के	१॥२)	राजकमल प्रकाशन
	रात अँधेरी है	४॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
मखिक महाचार्य	अमर प्रेम	२॥१)	श्रीअजन्ता प्रेस
मोहनलाल महतो बियोगी	बूचड़खाना	३॥	"
यशपाल	अमिता	५॥	विप्लव कार्यालय
	दादा कामरेड	३॥	"
	दिन्या	४॥	"
	देशद्रोही	५॥१)	"
	पक्का कदम	४॥	"
	पाटी कामरेड	२॥	"
	मनुष्य के रूप	६॥	"
यशदत्त शर्मा	इन्सान	४॥	आत्माशाम एचड सन्स
	इन्साफ	३॥	साहित्य प्रकाशन
	जौहरी बच्चा (प्रेस में)	५॥१)	"
	मुनिया की शादी	३॥	"
	निर्माण पथ	४॥	राजपाल एचड सन्स
	परिवार	५॥१)	साहित्य प्रकाशन
	बदलती राहें	३॥	"
	बाप बेटी	५॥१)	"
	मधु	३॥	"
	महल-मकान	३॥	"
यादवचन्द्र जैन	पत्थर-पानी	४॥२)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
रजनी पणिकर	प्यासे बादल	५॥	मोतीलाल बनारसीदास
रमेश	सरस्वती की आत्महत्या	६॥२)	श्रीअजन्ता प्रेस
रमेशचन्द्र 'प्रेम'	पाप की छाया	५॥१)	किताब महल
रमेश राव	अँधेरे की भूल	५॥२)	"
	अँधेरे के जुगनू	५॥३)	"
	उबाल	५॥४)	राजकमल प्रकाशन
	चीवर	५॥	किताब महल
	प्रतिदान	१॥१)	"

रांगेय राघव	बोलते खँ डहर	३)	किताब महल
	मुदों का टीला	७॥)	"
	विषाद मठ	३॥)	"
	सीधा-सादा रास्ता	६॥)	"
राजेन्द्र शर्मा	कायर	१॥१=)	राजकमल प्रकाशन
	हेमा	३)	"
राजेश गुप्त	साधना	१॥)	किताब महल
राजेश्वरप्रसाद सिंह	अभिनय	३)	*मोतीलाल बनारसीदास
	आदमी और जिन्दगी	५)	"
राधाकृष्ण	सनसनाते सपने	१॥१=)	राजकमल प्रकाशन
राधाकृष्णप्रसाद	हे मेरे देश	१॥)	श्री अजन्ता प्रेस
राधिकारमण्य प्रसाद सिंह	टूटा तारा	४)	अशोक प्रेस
	देव और दानव	३)	"
	नारी क्या—एक पहेली ?	३॥)	"
	पुरुष और नारी	४)	"
	राम रहीम	१०)	"
	संस्कार	३)	"
	सावनी समा	३)	"
	सूरदास	२॥॥)	"
	हबेली और भोपड़ी	२॥)	"
रामचन्द्र तिवारी	नवजीवन	३)	नवयुग सहित्य सदन
रामरतन भटनागर	अम्बपाली	२॥)	किताब महल
	जय वासुदेव	३)	"
रामसरन शर्मा	कँटीले तार	१)	संय निकेतन
रामसागर शास्त्री	कर्म साधना	४)	साहित्य प्रकाशन
रामवृक्ष बेनीपुरी	कैदी की पत्नी	१)	श्रीअजन्ता प्रेस
	पतितों के देश में	२)	भारती अण्डार
रामाचल पाण्डेय	चर्खा संघ	१=)	रामनारायण ज्ञान
रामानन्द सागर	और इंसान मर गया	३॥)	हंस प्रकाशन
रामाचतार त्यागी	समाधान	२)	आरमाराम एण्ड संस
राहुल त्रिक्लेश्यायन	जीने के लिए	४)	किताब महल
	राजस्थानी रनिवास	५)	"

राहुल सांकृत्यायन	विस्मृति के गर्भ में	२॥	किताब महल
	शैतान की आँख	२॥	"
	सिंह सेनापति	३॥	"
	सोने की ढाल	३	"
लज्जाराम (मेहता)	आदर्श हिंदू	१॥	ना० प्र० सभा
लक्ष्मण त्रिपाठी	बारक-छाया	२	आत्माराम एण्ड सन्स
लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी	श्रीमती विश्वास	४	साहित्य प्रकाशन
लक्ष्मीनारायण लाल	काले फूल का पौदा	२॥	भारती भण्डार
	बया का घांसला और साँप	३॥	नीलाभ प्रकाशन
व्रजनन्दन सहाय	लाल चीन	१॥	ना० प्र० सभा
विजयकुमार पुजारी	आत्मदान	३	आत्माराम एण्ड सन्स
विन्ध्याचल प्रसाद	राह का पत्थर	२॥	ज्ञानपीठ लि०
	लहरों के बीच	२॥	अजन्ता प्रेस
विभूतिभूषण मुखोपाध्याय	नीलम की अँगूठी	४	ग्रन्थकार
	देवलोक	४	साहित्यरत्न माला कार्यालय
विष्णुप्रभाकर	निशिकांत	५	आत्माराम एण्ड सन्स
	स्वप्नमयी	१॥=	राजकमल प्रकाशन
वी० पी० वाजपेयी	घटनाचक्र	१॥	न्यू लिटरेचर
वीरेन्द्रसिंह यदुवंशी	प्रबल परीक्षा	२॥	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
वृन्दावनलाल वर्मा	अचल मेरा कोई	३॥	मयूर प्रकाशन
	अमरबेल	५	"
	अहिल्या बाई	२॥	"
	कचनार	४॥	"
	कभी न कभी	२॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
	फाँसी की रानी	६	मयूर प्रकाशन
	फाँसानी (संचित)	२॥	"
	टूटे क. ट	४॥	"
	प्रेम की भेंट	१॥	"
	भुवन विक्रम	३॥	"
	मुसाहिब जू	१॥	"
	मृगनयनी	५	"
	लगन	१॥	"

बृन्दावनलाल वर्मा	सोना	३)	मयूर प्रकाशन
शान्तिनारायण	महारानो फाँसी	४)	राजपाल एण्ड सन्स
शिवचन्द्र शर्मा	कूल किनारा	॥१)	किताब महल
	नया आदमी	३॥१)	न्यू लिटरेचर
शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र'	बहती गङ्गा	१॥१=)	राजकमल प्रकाशन
शिवराम कारान्त	धरती की ओर	५)	"
शिवसागर मिश्र	चाँद के धब्बे	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	नींव की मिट्टी	३)	"
शीला शर्मा	एक था	२)	राजकमल प्रकाशन
श्रीचन्द्र अग्निहोत्री	धुआँ और लपटें	३)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
	हवेली की ईंट	३॥१)	साहित्य प्रकाशन
श्रीराम शर्मा 'राम'	जीवन दान	१॥१=)	राजकमल प्रकाशन
शेवडे	निशा गीत	३), २१)	नीलाभ प्रकाशन
	मृगजल	५)	"
सत्यप्रकाश संगर	कली मुस्कराई	३)	राजकमल प्रकाशन
सद्गुरुशरण अवस्थी	भ्रमिक-पथिक	२)	रामनारायण लाल
सन्तोषनारायण नौटियाल	तोस दिन	३॥१)	आत्माराम एण्ड सन्स
सिद्धेश्वर अवस्थी	नीलकण्ठ	३)	पद्मजा प्रकाशक
सियारामशरण गुप्त	अन्तिम-आकांक्षा	२)	साहित्य सदन
	गोद	११)	"
	नारी	२॥१)	"
सीताचरण दीक्षित	हृदय-मंथन	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
सुरेश्वर पाठक विद्यालङ्कार	बदलती दुनिया	२॥१)	ज्ञानपीठ लि०
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'	निरुपमा	१॥१)	भारती भण्डार
	प्रभावती	३)	किताब महल
	बिल्लेसुर बकरिहा	१॥१)	"
सूर्या कमलानी	अपराधों को छाया में	१)	किताब महल
	आस्तीन का साँप	१)	"
	कठपुतली का रहस्य	१)	"
	खून का प्यासा	१)	"
	खूनी कौन	१)	"
	खूनी चकर	१)	"



सूर्या कमलानी	जाली वसीयत	१)	किताब महल
	नागिन	१)	"
	पीताम्बर का खून	१)	"
	प्रेम का चक्र	१)	"
	बैङ्क में डाका	१)	"
	मौत के मुँह में	१)	"
	वासना का जहर	१)	"
	हीरे की चोरी	१)	"
हजारीप्रसाद द्विवेदी	वाण भट्ट की आत्मकथा	४)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
हरिनारायण आप्टे	चाणक्य और चन्द्रगुप्त	४)	राजपाल एण्ड सन्स
हरिशंकर मेहरोत्रा	अंधकार का अन्त	१॥)	न्यू लिटरेचर
हर्षनाथ	कर्भू और जगनी	४॥)	साहित्य प्रकाशन
हंसराज 'रहबर'	परेड-ग्राउन्ड	१॥)	आस्मारांम एण्ड सन्स
हितवल्लभ गौतम	प्रदीप	५)	साहित्य प्रकाशन
चेमचन्द्र 'सुमन'	हड़ताल	४॥)	राजकमल प्रकाशन
	महरा पानी	१॥॥)	न्यू लिटरेचर

## अनूदित उपन्यास

अजीमबेग चगताई	कुलबूट	१॥)	किताब महल
	श्रीमतीजी	२॥)	"
	आधा इन्सान	२)	नीलाभ प्रकाशन
अठ्ठास	डॉ० कोटनीस की अमर कहानी	१)	सुषमा साहित्य मंदिर
अलकजेन्डर क्यूप्रिन	गाड़ी वालों का कटरा	५)	सरस्वती प्रेस
अस्त्रावस्की	अग्नि दीक्षा	४)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
आनन्द कौसल्यायन (अनु०)	पच्चीसवाँ घंटा	६)	भारती-भंडार
आस्करवाइल्ड	अपनी छाया	५)	राजपाल एण्ड सन्स

इग्नैजियो सिलोनी	फाँटामारा	२॥॥	सरस्वती प्रेस
इलियट (जार्ज)	सुखदास	॥॥॥	"
इलाचन्द्र जोशी (अनु०)	सूदखोर की पत्नी	२॥॥	अशोक-प्रेस
उपेन्द्रनाथ अशक (अनु०)	ये आदमी ये चूहे	३)	नीलाभ प्रकाशन
	रंगसाज	२)	"
	हिज एकसीलेंसी	२॥॥	"
एमिल ज़ोला	नाना	३)	किताब महल
	नाना की माँ	३॥॥	"
एस० पी० खत्री (अनु०)	मुक्ति की राह	६)	साहित्य भवन लि०
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी	किसका अपराध	३)	किताब महल
	गुजरात का नाथ	४॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	जय सोमनाथ	५)	राजकमल प्रकाशन
	पाटण की प्रभुता	३)	किताब महल
	पाटन का प्रभुत्व	३)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	पृथ्वीवल्लभ	३)	किताब महल
	भगवान कौटिल्य	३)	"
	भगवान परशुराम	६॥॥	राजकमल प्रकाशन
	राजाधिराज	६)	किताब महल
	राजाधिराज	४॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	लोपामुद्रा	५)	राजकमल प्रकाशन
	लोमहर्षिणी	४॥॥	"
	शिशु और सखी	२)	किताब महल
	स्वप्नदृष्टा	४)	"
	स्वप्नदृष्टा	४)	राजकमल प्रकाशन
के० एम० पण्डित	कल्याणमल	३॥॥	"
	संघर्ष	३)	राजपाल एण्ड सन्स
खलील जिब्रान	टूटे हुए पर	१॥॥	राजकमल प्रकाशन
	पागल	१)	नवयुग साहित्य सदन
गस्ताव फ्लाबेयर	अधूरा स्वप्न	६)	राजपाल एण्ड सन्स
गालिना निकोला येवा	फसल	५)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
गेटे	सुबह-शाम	२॥॥	साहित्य प्रकाशन
गोर्की	मा	५)	सरस्वती प्रेस

जार्ज सैरड	जादूगरनी	४)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
जुले वार्ने	राजदूत	४)	"
जूलियस फ्र्यूचिक	फाँसी के तख्ते से	११)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
भक्तेरचन्द मेघाणी	सोरठ तेरा बहता पानी	३)	राजकमल प्रकाशन
टास्स्टाय	पुनर्जीवन	६॥)	ज्ञानमंडल लि०
ताजवर सामरी	एक था शहर	६)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
दस्ताएवेस्की	अपराध और दण्ड	४)	किताब महल
	मूर्खराज	१०)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
पर्लबक	अन्नपूर्णा	३)	न्यू लिटरेचर
पायर लागर क्विस्त	बराबास	२॥)	किताब महल
पाल बर्जे	नारी का रूप	२॥)	लहर प्रकाशन
पुरिकन	जिप्सी	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
प्रेमचन्द (अनु०)	फिसानए-आज़ाद	१०)	सरस्वती प्रेस
फ़्लाबर्ट	मदाम बोवैरी	३)	किताब महल
फ्रांज बार्फ़ेल	दिव्य जीवन	३)	"
बालज़क	खंडहर	५)	रामपाल एण्ड सन्स
भवानी भट्टाचार्य	कजली	४॥)	राजकमल प्रकाशन
महावीर अधिकारी (अनु०)	सिद्धार्थ	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
मुपासाँ	पेरिस का रगीला	३)	किताब महल
मुल्कराज आनन्द	एक था राजा	७॥)	राजकमल प्रकाशन
	कुली	६)	भारती भण्डार
मोराविया (अ०)	अतृप्त वासनाएँ	२)	किताब महल
यशपाल (अनु०)	जनानी ड्योढ़ी	७॥)	विप्लव कार्यालय
रतननाथ सरशार	कामिनी	५)	सरस्वती प्रेस
	पर्वत की धैर	३)	"
	पो कहाँ तथा हुशश	३)	"
रमणलाल बसन्तलाल			
देसाई	कोकिला	४)	"
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	आँख की किरकिरी	३)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	नष्ट नीड़	११)	"
	मिलन	३)	शुषमा साहित्य मन्दिर
रामचन्द्र वर्मा (अनु०)	करुणा	३॥)	ना० प्र० सभा

रामचन्द्र वर्मा (अनु०)	देव-लोक	४)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
रामचन्द्र शुक्ल (अनु०)	शशाङ्क	४)	ना० प्र० सभा
लियन हार्ड प्रैंक	कार्ल और अन्ना	१॥)	सरस्वती प्रेस
लुहर्स्	आह क्यू	२)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
लूईजिवातोलिनि	साइकिल चोर	३)	किताब महल
वनहूल	तिनकै का सहारा	१)	सुषमा साहित्य मन्दिर
वरेन बास	रँगल्ट	४)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
वास्टर स्काट	तावीज़	१॥)	साहित्य प्रकाशन
विष्णयक सदाशिव			
सुन्दरकर	जाई-जुही	१)	सरस्वती प्रेस
विष्णुसुख खेसजस	बूचढ़खाना	॥)	"
शरच्चन्द्र चटर्जी	गृहदाह	३)	किताब महल
	तीन उपन्यास	२॥)	"
	दत्ता	१॥॥)	"
	देहाती दुनिया	१॥)	"
	परिणीता	॥)	"
	विराज बहू,	१॥)	किताब महल
	शरत्साहित्य (३५ भाग)		
	प्रत्येक १॥)		हिन्दी ग्रन्थ ररनाकर
	पहला भाग (रामेर सुमति आदि कहानियाँ तथा लघुउपन्यास)	१॥)	"
	दूसरा भाग (एक कहानी तथा दो लघु उपन्यास)	१॥)	"
	तीसरा भाग (दो कहानियाँ और चंद्रनाथ उपन्यास)	१॥)	"
	३, ६, ७ और बाईसवाँ भाग (श्रीकान्त, उपन्यास)	६)	"
	पाँचवाँ भाग (चार कहानियाँ और ब्राह्मण की बेटी उपन्यास)	१॥)	"
	आठवाँ भाग (बिन्दो का लज्जा		

आदि सात कहानियाँ) १॥)	१	
नवाँ भाग (पोड़शी नाटक और निष्कृति कहानी) १॥)		”
दसवाँ भाग (देवदास और बड़ी दीदी उपन्यास) १॥)		”
ग्यारहवाँ भाग (पंडितजी और मकली बहिन उपन्यास) १॥)		”
बारहवाँ भाग (रमा नाटक तथा परिणीता लघु उपन्यास) १॥)		”
तेरहवाँ-चौदहवाँ भाग (पथ के दावेदार उपन्यास) ३)		”
पन्द्रहवाँ भाग (नारी का मूल्य विस्तृत निबन्ध तथा तीन कहानियाँ) १॥)		”
सोलह-सत्रहवाँ भाग (गृहदाह उपन्यास) ३)		”
अठारहवाँ भाग (दत्ता उपन्यास) १॥)		”
उन्नीसवाँ भाग (ग्रामीण-समाज उपन्यास) १॥)		”
बीसवाँ-इक्कीसवाँ भाग (शेष प्रश्न उपन्यास) ३)		”
तेईस-चौबीसवाँ भाग (विप्रदास उपन्यास) ३)		”
पचीसवाँ भाग (शरत् पत्रावली- तीस साहित्यिक पत्र) १॥)		”
छब्बीसवाँ भाग (शरत् की पाँच अपूर्ण रचनाएँ) १॥)		”
२७, २८ तथा उन्तीसवाँ भाग (चरित्रहीन, उपन्यास) ४॥)		”
तीसवाँ भाग (बिराज बहू और बचपन की कहानियाँ) १॥)		”

शरत्चन्द्र चटर्जी	शरत्-निबंधावली (उच्चकोटि के २३ निबंध) १॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	बत्तीस-तैंतीसवाँ भाग (देना पावना और नयाविधान उपन्यास) ३)	"
	चौतीस-पैंतीसवाँ भाग (शेष परिचय) ३)	"
शंभुनाथ वाजपेयी (अनु)	असीम ४)	ना० प्र० सभा
	पापाण कथा २॥)	"
शिहयेन	वेद वृत्तों की छाया में १)	राजकमल प्रकाशन
शोभाचन्द्र जोशी	बुद्धिहीन १॥)	हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर
शौकत थानवी	खुदा न खास्ता २॥)	लहर प्रकाशन
	समुराल १॥॥)	"
स्टीफन ज्विग	बुज्रदिल ६)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
	राज-नेता ६)	साहित्य प्रकाशन
सादोवीनू (मि०)	धरती के लाल १॥)	"
साने गुरुजी	श्यामू की माँ ३)	किताब महल
सामरसेट माम	पतिता ५)	साहित्य प्रकाशन
	मन के बन्धन ५)	"
	ममता के बन्धन ३)	"
हाल केन	कँटीले तार १॥)	सरस्वती प्रेस
हावर्ड फास्ट	मुक्ति मार्ग ६)	साहित्य प्रकाशन
हिकमतुल्ला खॉ	मिलन ३॥)	नीलाभ प्रकाशन
	जीवन पथ ३)	साहित्य प्रकाशन
	रजिया की बेटी ७)	"

## कहानी-संग्रह

अन्नपूर्णा नन्द	मन मयूर	४)	रामनारायण लाल
अनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव	आत्मघात	१)	हि० सा० सम्मेलन
अब्बास	अवध की शाम	२॥॥)	नीलाभ प्रकाशन
	मेरा बेटा मेरा दुश्मन	३॥॥)	"
अमृतराय	इतिहास	२॥॥)	हंस प्रकाशन
	जीवन के पहलू	२)	"
	तिरङ्गे कफ़न	२॥॥)	"
	नूतन आलोक	२॥॥)	"
	लाल धरती	२॥॥)	"
अमृतलाल नागर	तुलाराम शास्त्री	१॥॥)	भारती भण्डार
अरूण	अमृत और विष	२॥॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	मृत्यु में जीवन	१)	"
अविनाश	परधाइयाँ	१॥॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
अहमद नदीम कासिमी	मेरा देश	२)	साहित्य भवन लि०
अज्ञेय	अमर वल्लरी और अन्य		"
	कहानियाँ	२॥॥)	सरस्वती प्रेस
इकबालबहादुर श्रीवास्तव	सिंदूर बिंदी	२॥॥)	किताब महल
इलाचन्द्र जोशी	महापुरुषों की प्रेम कथायें	२॥॥)	लहर प्रकाशन
उग्र	कला का पुरस्कार	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक	मेरी दुनिया	२॥॥॥)	नीलाभ प्रकाशन
उपेन्द्रनाथ अशक	काले साहब	३)	"
	छींटे	५)	"
	जुदाई की शाम का गीत	३॥॥॥)	
उषादेवी मित्रा	मेघमल्लार	२)	सरस्वती प्रेस
	रात की रानी	२)	श्रीअजन्ता प्रेस
	सान्ध्य पूरवी	१॥॥)	रामनारायण लाल
एम० के० दर	केसर के फूल	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	सप्त सरोज (प्रेस में)		"

श्रीकार शरद्	कच्चो नींद	१।)	न्यू लिटरेचर
	लंका महाराजिन	३।)	"
	हमारा गाँधी वापस करो	१।)	लहर प्रकाशन
कपिल	सूरतें और सीरतें	१।)	श्रीधरजन्ता प्रेस
कमल जोशी	चार के चार	२।।)	राजकमल प्रकाशन
कमला देवी चौधरी	उन्माद	२।।)	आत्माराम एण्ड सन्स
	बेल-पत्र	१।)	"
	पिकनिक	२।।)	सरस्वती प्रेस
	यात्रा	३।)	आत्माराम एण्ड सन्स
कमलेश्वर	कस्बे का आदमी	२।)	लहर प्रकाशन
कुलभूषण	पगडंडी और परछाइयाँ	३।)	राजपाल एण्ड सन्स
कौशल्या तथा अरक	दो धारा	३।)	नीलाभ प्रकाशन
	बैंगन का पौधा	३।)	"
	पिंजरा	३।)	"
कृष्णानन्दन सिनहा	नृत्य का बुलावा	१।।)	अशोक प्रेस
कृष्णचन्द्र	अन्नदाता	३।)	राजपाल एण्ड सन्स
	अन्धा छत्रपति	३।)	"
	काला सूरज	२।।)	"
	काश्मीर की कहानियाँ	३।)	"
	गरजन की एक शाम	३।)	"
	पानी का पेड़	२।।)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
	पूरे चाँद की रात	३।)	राजपाल एण्ड सन्स
	फूल और पत्थर	२।।।)	राजकमल प्रकाशन
	भूमिदान	३।)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
	युक्लिप्टिस की डाली	२।)	"
	स्वराज्य के पचास वर्ष बाद	३।)	राजपाल एण्ड सन्स
	सं.मा	३।)	"
	हम बहशी हैं	१।।)	हंस प्रकाशन
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी	गुलेरीजी की		"
	अमर कहानियाँ	।।।)	सरस्वती प्रेस
चन्द्रप्रभा द्विवेदी	नगर के पथ पर	१।।।)	किताब महल
छविनाथ पाण्डेय	मृत्यु के मुँह में	१।=)	ज्ञानपीठ लि०



अयशंकर प्रसाद	आकाशदीप	३)	भारती भण्डार
	श्रींषी	२)	"
	इन्द्रजाल	२॥)	"
	छाया	२)	"
	प्रतिध्वनि	१)	"
जैनेन्द्रकुमार	वातायन	२॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
तेजरानी पाठक	एकादशी	१॥)	सुपमा साहित्य मन्दिर
देवेशदास	रजवाड़ा (सचित्र)	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
नगेन्द्र वर्मा	बड़ा और छोटा आदमी	१)	ज्ञानपीठ लिमिटेड
नर्मदाप्रसाद खरे	नीराजना	१॥)	न्यू लिटरेचर
नर्बदाप्रसाद	कथा-कलश	१॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
पञ्चालाल गर्ग	विधाता की भूल	२)	किताब महल
परदेशी	चम्पा के फूल	२॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
पहाड़ी	हिरन की आँखें	२)	न्यू लिटरेचर
प्रेमचन्द्र	अलगयोफा	॥)	सरस्वती प्रेस
	कफ़न	२)	हंस प्रकाशन
	कफ़न और शेष रचनाएँ	२)	सरस्वती प्रेस
	गल्प समुच्चय	३)	हंस प्रकाशन
	गल्प समुच्चय	३)	सरस्वती प्रेस
	ग्राम्य जीवन की कहानियाँ	२)	"
	"	२)	हंस प्रकाशन
	"	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	दो बहनें	॥)	सरस्वती प्रेस
	नवनिधि	१॥)	"
	नवनिधि	१॥)	हंस प्रकाशन
	नारी जीवन की कहानियाँ	२॥)	सरस्वती प्रेस
	पाँच फूल	१)	हंस प्रकाशन
	पाँच फूल	१)	सरस्वती प्रेस
	प्रेमचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ		
	कहानियाँ	२॥)	"
	प्रेम-तीर्थ	२॥)	"
	प्रेम-द्वादशी	१॥)	"

प्रेमचन्द्र	प्रेम-द्वादशी	२)	हंस प्रकाशन
	प्रेम पचीसी	३)	"
	प्रेम पचीसी	३)	सरस्वती प्रेस
	प्रेम पीयूष	२)	"
	प्रेम पूर्णिमा	२।।।)	"
	प्रेम प्रसून	२।।)	"
	मान सरोवर (८ भाग)	२४)	"
	मान सरोवर (८ भाग)	२४)	हंस प्रकाशन
	सप्त सरोज	।।।)	सरस्वती प्रेस
	सप्त सुमन	१)	हंस प्रकाशन
	सप्त सुमन	१)	सरस्वती प्रेस
	समर यात्रा	२)	"
	समर यात्रा	१।।)	हंस प्रकाशन
पृथ्वीनाथ शर्मा	उदय अस्त	२।)	हिन्दी भवन
बलदेवप्रसाद मिश्र	उलूकतन्त्र	२=)	ज्ञानमंडल लि०
	शव-साधन	१।।=)	"
बलवन्त सिंह	पञ्जाब की कहानियाँ	३)	लहर प्रकाशन
भगवतशरण उपाध्याय	खून के छीटे इतिहास के		
	पत्नों पर	२।।)	हंस प्रकाशन
	गर्जन	२)	किताब महल
	संघर्ष	२)	"
भगवतीचरण वर्मा	इन्सटालमेंट	२)	भारती भण्डार
	दो बाँके	२)	"
भगवतीप्रसाद वाजपेयी	उपहार	१)	रामनारायण लाल
'भनोट'	बलराज	१।।)	अशोक प्रेस
महावीर अधिकारी	जीवन के मोड़	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
महेन्द्रनाथ	चाँदी के तार	३)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
मालती शर्मा	मालती-माला	।।)	ना० प्र० सभा
मार्कण्डेय	महुए का पेड़	२)	लहर प्रकाशन
मोहन सिनहा	मंगल पथ	१।।।)	सुषमा साहित्य मंदिर
मोहनसिंह सेंगर	खून के धब्बे	२)	किताब महल
	जीवन का सत्य	२।।।)	"

मोहनसिंह सेंगर	नरक का न्याय	२॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	स्कैंडल	२॥॥	किताब महल
मोहनलाल महतो वियोगी	प्रतिमा	२॥॥॥	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
यमुनादत्त वैष्णव	अस्थि-पिंजर	२॥॥	नवयुग साहित्य सदन
यशपाल	अभिशप्त	२)	विप्लव कार्यालय
	उत्तमी की माँ	२)	"
	उत्तराधिकारी	२)	"
	कारावास	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	चित्र का शीर्षक	२॥॥	विप्लव कार्यालय
	तर्क का तूफान	२॥॥	"
	तुमने क्यों कहा था मैं सुन्दर हूँ	२)	"
	धर्मयुद्ध	२)	"
	पिजड़े की उड़ान	२॥॥	"
	फूलो का कुर्ता	२)	"
	भस्मावृत चिन्गारी	२)	"
	वो दुनिया	२)	"
	ज्ञानदान	२॥॥	"
यशोविमलानन्द	इन्सान के रूप	१॥॥	मञ्चूर प्रकाशन
	रेखाएँ	१॥॥	"
योगेन्द्रनाथ सिनहा	पहाड़ की पुकार	२)	अशोक प्रेस
रघुवंश	छायातप	२॥॥	साहित्य भवन लि०
रमण	निर्माण के चित्र	१॥॥	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	रवीन्द्र-कथा	२)	राजपाल एण्ड सन्स
	रवीन्द्र कथा कुंज	१॥॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	रवीन्द्र-द्वादशी	२)	राजपाल एण्ड सन्स
रामेय राघव	अंगारे न बुझे	२॥॥	किताब महल
	ईसान पैदा हुआ	२॥॥	"
	साम्राज्य का वैभ्र	२)	सरस्वती प्रेस
राजनाथ राय	घर और बाहर	३)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
राजा राधिकारमण			
सिंह प्रसाद	गांधी टोपी	२)	अशोक प्रेस
	तरंग	१॥॥॥	"

राजा राधिकारमण

सिंह प्रसाद

राजाराम श्रीवास्तव

राजेन्द्र शर्मा

राजेन्द्रसिंह गौड़

राधाकृष्णप्रसाद

रामनारायण उपाध्याय

रामप्रताप बहादुर

रामप्रताप शास्त्री

रामवृद्ध बेनीपुरी

रायकृष्ण दास

राहुल सांकृत्यायन

लीलावती मुंशी

ब्रजमोहन गुप्त

बाबुस्पति पाठक

विनोदशंकर ध्यास

वीरेन्द्र मेंहदोरत्ता

वृन्दावनलाल वर्मा

शफीकुर्रहमान

शमशेरबहादुर सिंह

शम्भूनाथ सबसेना

शिवचन्द्र प्रताप

शिवनारायण

शिवरानी प्रेमचन्द्र

शिवसहाय चतुर्वेदी

शीला शर्मा

शोभाचन्द्र जोशी

पूरब और पश्चिम

जीवन कथ

परिधि

मन की मौज

समानान्तर रेखाएँ

अनजाने-जाने-पहचाने

आँसू और पसीना

उपनिषदों की कहानियाँ

(२भाग) प्रत्येक

लाल तारा

अनाख्या

सुधांशु

बहुरंगी मधुपुरी

सतमी के बच्चे

जीवन के अंचल से

स्वप्न और सत्य

द्वादशी

प्रदीप

पचास कहानियाँ

शिमले की क्रोम

कलाकार का दण्ड

शरणागत

शैतान

प्लॉट का मोर्चा

कब्रों की दुनिया में

बोलती तस्वीरें

रोटी का टुकड़ा

नारी हृदय

गौने की विदा

टूटी चूड़ियाँ

एकलव्य

३॥॥

॥॥

२॥

२॥॥

२॥॥

२॥

२॥

२॥॥

२॥

१॥॥

॥॥

३॥

१॥

४॥॥

३॥॥

२॥

१॥॥

३॥

२॥

१॥

१॥

१॥॥

१॥॥

१॥॥

१॥॥

१॥

१॥॥

२॥

१॥॥

१॥॥

अशोक प्रेस

रामनारायण लाह

राजकमल प्रकाशन

साहित्य भवन लि०

श्रीधजन्ता प्रेस

सुचमा साहित्य मंदिर

साहित्य भवन लि०

”

”

श्रीधजन्ता प्रेस

भारती भण्डार

”

किताब महल

”

राजकमल प्रकाशन

भारती भण्डार

”

”

”

नीलाभ प्रकाशन

मयूर प्रकाशन

मयूर प्रकाशन

छहर प्रकाशन

न्यू लिटरेचर

मयूर प्रकाशन

ज्ञानपीठ लि०

किताब महल

ईस प्रकाशन

श्रीधजन्ता प्रेस

राजकमल प्रकाशन

हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर



श्रीभाषण्द्र जोशी	सप्तार्थि-लोक	२॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
श्रीराम शर्मा	विषाद	३॥	सरस्वती प्रेस
संजीवनचन्द्र चट्टोपाध्याय	भाग्यचक्र	१=॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
सत्यजीवन वर्मा	प्रायश्चित्त	२॥	साहित्य भवन त्रि०
सत्यदेव परिव्राजक	देव चतुर्दशी	१॥॥	ना० प्र० सभा
सत्यनारायण	पगला फुरना	१॥॥	अशोक प्रेस
सत्यप्रकाश संगर	नया मार्ग	२॥॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
सत्यवती मल्लिक	वैशाख की रात	१॥॥	मोतीलाल बनारसीदास
सन्तोषनारायण नौटिकाल	चवली वाले	१॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
सन्धानम	आठ सेर चावल	२॥	रामनारायण लाल
सम्प्रादतहसन मण्टो	मण्टो की कहानियाँ	२॥॥	साहित्य प्रकाशन
सिंभारामशरण गुप्त	मानुषी	१॥	साहित्य सदन
सुदर्शन	चार कहानियाँ	३॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	तीर्थ यात्रा	३॥	सरस्वती प्रेस
	परिवर्तन	॥॥॥	”
	सुदर्शन-सुमन	३॥॥	राजपाल एण्ड सन्स
सुभद्राकुमारी चौहान	बिखरे मोती	२॥॥	हंस प्रकाशन
	सीधे-सादे चित्र	२॥=॥	सुषमा साहित्य मंदिर
सुमिप्रानन्दन पन्त	पाँच कहानियाँ	१॥॥	भारती भण्डार
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराळा	चतुरी चमार	१॥॥	किताब महल
	सुकुल की बीबी	१॥	भारती भण्डार
हरिशंकर	स्नेह दान	१॥॥	किताब महल
हरिशंकर परसाई	तब की बात और थी	१॥॥	सुषमा साहित्य मंदिर
	हँसते हैं, रोते हैं	१॥॥	”
होमबती देवी	स्वप्नभंग	२॥	आत्माराम एण्ड सन्स
विचित्र	तूफान	२॥॥	ज्ञानमण्डल लि०
	सप्तदशी	२॥	सस्ता साहित्य मंडल

# कहानी संकलन

अखिलेशचन्द्र चट्टोपाध्याय (सं०)	गल्प संचय	१॥	हि० सा० सम्मेलन
जगन्नाथ अग्रवाल तथा अरक (सं०)	कथा-कुंज	३॥=)	मोतीलाल बनारसीदास
जगन्नाथप्रसाद शर्मा (सं०)	हिंदी की अमर कहानियाँ	१॥॥	सरस्वती प्रेस
त्रिगुणायत (सं०)	हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ	३॥॥	साहित्य निकेतन
धर्मचन्द्र सन्त (सं०)	चारु-चयनिका	३॥	नवयुग साहित्य सदन
प्रेमचन्द्र (सं०)	हिंदी की आदर्श कहानियाँ	१॥॥	हंस प्रकाशन
	हिन्दी की आदर्श कहानियाँ	१॥॥	सरस्वती प्रेस
भगवतीप्रसाद (सं०) बाजपेयी	प्रतिनिधि कहानियाँ	३॥	मोतीलाल बनारसीदास
	प्रतिनिधि कहानियाँ	१॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	हिन्दी की प्रतिनिधि कहानियाँ	१॥॥	"
रघुबीर सिंह (सं०)	कहानी: नई पुरानी	२॥	राजकमल प्रकाशन
रायकृष्ण दास			
तथा पद्मनारायण (सं०)	नई कहानियाँ	१॥॥	ना० प्र० सभा
वाचस्पति पाठक (सं०)	इक्कीस कहानियाँ	३॥	भारती भण्डार
	पुरस्कार तथा अन्य कहानियाँ	२॥=)	मोतीलाल बनारसीदास
शिवपूजन सहाय (सं०)	सारिका	१॥॥	अशोक प्रेस
श्रीकृष्ण लाल (सं०)	हिंदी कहानियाँ	२॥	साहित्य भवन लि०
सुदर्शन (सं०)	गल्प-मंजरी	३॥	मोतीलाल बनारसीदास
सूर्यकांत (सं०)	सुमन संचय	२॥॥॥	हिन्दी भवन
विविध (सं०)	उड़ते जुगनू	॥॥	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	कहानी-रत्न	१॥॥	"
	गल्प-निकुंज	३॥॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस

विविध (सं०)	गल्प-संसार-माला (हिंदी) १॥॥	सरस्वती प्रेस
	गल्प-संसार-माला १॥॥	"
	नया-कहानी-संग्रह (३ भाग)	"
	क्रमशः, I=), III), III)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	हिंदी की प्रमुख	
	कहानियाँ १॥॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस

## विदेशी कहानियाँ

अरुण (अनु०)	एन्टन चेखोव १॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	मैक्सिम गोर्की ३॥	"
कृष्णानंदन सिनहा (अनु०)	हरदम आग २॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
गोर्की	शेलकश १॥	साहित्य सदन
गोपीकृष्ण गोपेश (अनु०)	पूँजीपति २॥	साहित्य भवन लि०
जूलियस फूचिक	फॉसी के तख्ते से २॥॥॥	हंस प्रकाशन
टार्लसटाय	प्रेम में भगवान् २॥	सस्ता साहित्य मण्डल
धर्मवीर भारती (अनु०)	आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ २॥	साहित्य भवन लि०
मोपासाँ	प्रायश्चित १॥॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	मानव हृदय की कहानियाँ २॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
व्यथित हृदय (अनु०)	टार्लसटाय की कहानियाँ ॥=)	रामनारायण लाल
स्टीफन ज्विग	शतरंज का खेल २॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर

## हास्य तथा व्यंग्य

अरुण एम० ए०	गप्पों का खजाना १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
अलाबर्ट-कृष्ण-अली	ऊट-पटाङ्ग २॥	बनारोक प्रेस
इन्द्रायज्ञ अली ताज	चचा छकन १॥॥	हंस प्रकाशन

जगन्नाथप्रसाद मिलिंद	बिल्लो का नकछेदन	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
नत्थराम सराफ	परिहास-पुष्प	॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
नरसिंह चिन्तामणि केलकर	हास्य-रस	१॥)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
'नानाजी'	छत्तीस	॥=)	सुषमा साहित्य मन्दिर
प्रभाकर माचवे	खरगोश के सींग	३)	नीलाभ प्रकाशन
भ० आनन्द कौसल्यायन	बहानेबाजी	३)	"
यशपाल	चक्रर-क्लब	२)	विप्लव कार्यालय
	बात-बात में बात	२॥)	"
	न्याय का संघर्ष	२)	"
शिवपूजन सहाय	दो घड़ों	॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
शेखरे	तीसरी भूख	३)	नीलाभ प्रकाशन
सरयू पंडा गौड़	कहकहा	१)	श्रीअजन्ता प्रेस
	ससुराल की होली	२॥)	"
	हँसो हँसाओ	१॥)	"

## नाटक

अनन्दीप्रसाद श्रीवास्तव	आत्म-त्याग	१)	हि० सा० सम्मेलन
अनूपलाल मथल्ल	पंचामृत	१॥)	ज्ञानपीठ लि०
अमरनाथ	दगदान	१॥)	मोतीलाल बनारसीदास
अमृतलाल नागर	नवाबी मसनद	२॥)	किताब महल
अवध उपाध्याय (सं०)	दुर्बल बंधु	॥=)	रामनारायण लाल
	विद्या सुन्दर	॥)	"
	सत्यहरिश्चन्द्र नाटक	१)	हि० सा० सम्मेलन
आई० सी० नन्दा	शामूशाह	१॥)	ओरिएण्टल बुकशिपो
उग्र	महात्मा ईसा	२)	भारती भण्डार
उग्रमोहन का	नवयुग का प्रभात	२)	श्रीअजन्ता प्रेस
उद्येशंकर भट्ट	एकला चलो रे	१)	राजकमल प्रकाशन
	कालिदास	२)	हंस प्रकाशन



उदयशंकर भट्ट	क्रान्तिकारी	१॥)	हंस प्रकाशन
	विक्रमादित्य	॥=)	हिन्दी भवन
	विद्रोहिणी अम्बा	१॥)	राजकमल प्रकाशन
	विश्वामित्र और दो भाव-		
	नाट्य	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
	शक विजय	१॥)	"
	सगर विजय	२)	राजकमल प्रकाशन
उपेन्द्रनाथ 'अशक'	अंजो दीदी	२॥॥)	नीलाभ प्रकाशन
	अंधी गली	३)	"
	अलग-अलग रास्ते	२॥॥)	"
	कैद और उड़ान	२॥॥)	"
	छठा बेटा	२॥)	"
	जय पराजय	३॥)	"
	पैतरे	३॥)	"
	स्वर्ग की फलक	१॥)	"
कंचनलता सम्बरवाल	आदित्यसेन गुप्त	१॥)	हिन्दी भवन
क० माणिकला त्र मुंशी	ध्रुवस्वामिनी	२)	किताब महल
	ब्रह्मचर्याश्रम	१)	"
	वाह रे मैं वाह	४)	राजकमल प्रकाशन
कृष्णलाल श्रीधराणी	बरगद	१॥)	"
कामताप्रसाद गुरु	सुदर्शन	॥=)	रामनारायण लाल
केशवचन्द्र वर्मा	रस का सिरका	१॥)	भारती भण्डार
	श्रम देवता	२)	"
गोविन्ददास सेठ	कुलीनता	१॥॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	गरीबी या अमीरी	२)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	दो नाटक (दलित कुसुम,		
	पतित कुसुम)	१॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	महत्त्व किसे	१॥)	साहित्य भवन लि०
	विकास	॥॥)	हि० सा० सम्मेलन
	शशिगुप्त	१॥॥)	रामनारायण लाल
	स्नेह या स्वर्ग	१॥)	किताब महल
	सेवा-पथ	१)	हिन्दी भवन

चतुरसेन शास्त्री	पग-ध्वनि	१॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
जगदीशचन्द्र माथुर	कोणार्क	३)	भारती भण्डार
जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द'	प्रताप-प्रतिज्ञा	१)	हिन्दी भवन
	समर्पण	१॥॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
जगमोहननाथ अक्स्थी	पश्चाताप	॥॥)	न्यू लिटरेचर
जगदेव मिश्र	रेशमी गाँठें	१)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
जयशङ्कर प्रसाद	अज्ञातशत्रु	१॥)	भारती भण्डार
	एक घूँट	१)	"
	कामना	१॥)	"
	चंद्रगुप्त	३)	"
	जनमेजय का नागयज्ञ	१॥)	"
	ध्रुवस्वामिनी	॥॥)	"
	विशाख	१॥)	"
	राज्यश्री	१)	"
	स्कंदगुप्त	१॥)	"
<b>जीवनशङ्कर याज्ञिक</b>			
(सं०) तथा केदारनाथ भट्ट सत्य-हरिश्चंद्र नाटक		१)	रामनारायण लाल
दयानाथ झा	कर्म-पथ	१॥)	हिन्दी भवन
दशरथ झा	सम्राट समुद्रगुप्त	२॥)	राजपाल एण्ड सन्स
द्विजेन्द्रलाल राय	श्रहल्या	१॥)	हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर
	उस पार	१॥॥)	"
	चंद्रगुप्त	१॥)	"
	दुर्गादास	१॥)	"
	नूरजहाँ	१॥॥)	"
	भारत-रमणी	१॥)	"
	भीष्म	१॥॥)	"
	महाराणा प्रताप	२॥)	"
	मेवाड़-पतन	१=)	"
	शाहजहाँ	१॥)	"
	सीता	१॥)	"
	सूम के घर धूम	१=)	"
	सिंहल-विजय	२)	"

देवदत्त 'अटल'	शांति-दूत	१॥	आत्माराम एण्ड सन्स
देवराज 'दिनेश'	मानव-प्रताप	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
देवेन्द्रनाथ शर्मा	पारिजात-मञ्जरी	१॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
देवेन्द्र बिसुनपुरी	सृष्टि का अंत	१=)	सरस्वती प्रेस
धनञ्जय भट्ट 'सरल' (स०)	भट्ट-नाटकावली	१॥)	ना० प्र० सभा
नित्यानन्द वात्स्यायन	मुकुट	१॥)	हिन्दी भवन
प्रेमचन्द्र	कर्बला	४)	सरस्वती प्रेस
	चन्द्रहार ('गवन' का रूपान्तर)	१॥)	"
	प्रेम की वेदी	॥)	"
	प्रेम की वेदी	॥)	हंस प्रकाशन
	संग्राम	२)	सरस्वती प्रेस
	होरी ('गोदान' का रूपान्तर)	१॥)	"
	होरी ('गोदान' का रूपान्तर)	१॥)	हंस प्रकाशन
पृथ्वीनाथ शर्मा	अपराधी	॥)	हिन्दी भवन
	उर्मिला	१)	आत्माराम एण्ड सन्स
	साध	॥)	हिन्दी भवन
बालकृष्ण भट्ट	दमयंती-स्वर्गंवर	॥)	हि० सा० सम्मेलन
ब्रजकिशोर नारायण	वर्धमान महावीर	१॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
भगवतीचरण वर्मा	रुपया तुम्हें खा गया	१॥)	मोतीलाल बनारसीदास
	वासवदत्ता का चित्रालेख	३)	भारती भण्डार
भगवतीप्रसाद वाजपेयी	छलना	२॥)	राजकमल प्रकाशन
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	मुद्राराक्षस (अनु०)	२)	हिन्दी भवन
मुरारीलाल शर्मा तथा			
बनारसीदास 'विरही' (सं०)	परीक्षा नाटक	॥)	रामनारायण लाल
मैथिलीशरण गुप्त	तिलोत्तमा	१॥)	साहित्य सदन
मोहनलाल महतो			
'वियोगी'	कसाई	२)	ज्ञानपीठ लि०
	वे दिन	॥)	रामनारायण लाल
रघुनन्दन शास्त्री	दृश्य-कुसुमाकर	१॥)	मोतीलाल बनारसीदास

रमण	संस्कृति का झलक	१।।	श्रीअजन्ता प्रेस
रंगीय राघव	रामानुज	१।।	किताब महल
राधाकृष्ण दास	महाराणा प्रतापसिंह	।।	ना० प्र० सभा
राधिकारमणप्रसादसिंह	अपनापराया	२।	अशोक प्रेस
	धर्म की धुरी	२।	”
रामकुमार वर्मा	कौमुदी महोत्सव	१।।	साहित्य भवन लि०
	ध्रुवतारिका	१।	राजकमल प्रकाशन
	त्रिजयपर्व	२।	रामनारायण लाल
	शिवाजी	२।	साहित्य भवन लि०
	सत्य का स्वप्न	२।।	किताब महल
रामवृक्ष बेनीपुरी	सिंहल-त्रिजय	१।।	न्यू लिटरेचर
रासविहारी लाल	जय	२।	श्रीअजन्ता प्रेस
राहुल सांकृत्यायन	तीन नाटक	१।।।	किताब महल
लक्ष्मणसिंह (अनु०)	शकुन्तला नाटक	१।।	हि० सा० सम्मेलन
लक्ष्मीनारायण मिश्र	गरुडध्वज	२।	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	दशाश्वमेध	१।	हिन्दी भवन
	नारद की वीणा	२।	किताब महल
	मुक्ति का रहस्य	२।	साहित्य भवन लि०
	राजयोग	१।	भारती भण्डार
	वत्सराज	१।।।	हिन्दी भवन
	वितस्ता की लहरें	१।।	आत्माराम एण्ड सन्स
	वैशाली में वसंत	२।	रामनारायण लाल
	सिन्दूर की होली	१।	भारती भण्डार
लक्ष्मीनारायण लाल	अंधा कुश्नाँ	२।।	”
लीलावती मुंशी	कुमारदेवी	१।	किताब महल
ब्रजरत्न दास (सं०)	नहुष नाटक	१।=	ना० प्र० सभा०
	भारतेन्दु ग्रन्थावली (पहला खण्ड)	८।	”
	भारतेन्दु नाटकावली (दूसरा भाग)	३।	रामनारायण लाल
	मुद्रा-राक्षस	१।।।	”
	सत्यहरिश्चन्द्र	।=	ना० प्र० सभा

व्योहार राजेन्द्रसिंह	मेघदूत	१)	सुषमा साहित्य मन्दिर
व्योहार राजेन्द्रसिंह	वर्षाभंगल	११)	सुषमा साहित्य मन्दिर
वरेरकर (मामा)	अपूर्व बंगाल	११)	आत्माराम एण्ड सन्स
विश्वम्भरसहाय व्याकुत्र	बुद्धदेव	२)	भारती भण्डार
बिष्णु प्रभाकर	समाधि	३)	ओरिएण्टल बुकडिपो
वी० मुखर्जी 'गुंजन'	शक्ति-पूजा	११)	आत्माराम एण्ड सन्स
वीरेन्द्रकुमार गुप्त	सुभद्रा-परिणय	२)	„
वीरेन्द्रकुमार शुक्ल (सं०)	चंद्रावली नाटिका	११)	रामनारायण लाल
बैकुण्ठनाथ दुग्गल	नारी	२)	राजपाल एण्ड सन्स
	हर्षवर्द्धन	११)	आत्माराम एण्ड सन्स
वृन्दावनलाल वर्मा	कनेर	१)	मयूर प्रकाशन
	काश्मीर का काँटा	१)	„
	केवट	११)	„
	खिलौने की खोज	११)	„
	जहाँदारशाह	१११)	„
	फ़ाँसी की रानी	२)	„
	निस्तार	१)	„
	नीलकण्ठ	११)	„
	पूर्व की ओर	२१)	„
	पीले हाथ	१११)	„
	फूलो की बोली	११)	„
	बाँस की फाँस	१)	„
	बोरबल	११)	„
	मंगल-सूत्र	१)	„
	राखी की लाज	११)	„
	ललित विक्रम	११११)	„
	लो भाई ! पञ्चों !! लो !!!	११११)	„
	सगुन	१११)	„
	हंस-मयूर	२१)	„
शरत्	कुंदमाला	११)	श्रीअजन्ता प्रेस
शरत्चन्द्र चटर्जी	रमा	१११)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	षोडशी	१११)	„

श्रीकृष्णबाल (सं०)	श्रीनिवास-ग्रंथावली	६)	ना० प्र० सभा
शौकत थानवी	सुनी सुनाई	२॥॥)	न्यू लिटरेचर
सत्यजीवन वर्मा	प्रेम की पराकाष्ठा	२॥॥)	साहित्य भवन लि०
सत्यव्रत भिनहा (सं०)	भारत दुर्दशा	॥॥)	रामनारायण लाल
सन्त गोकुलचन्द	मोरा	१॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	हिरौल	१॥)	”
खियारामशरण गुप्त	उन्मुक्त (गीति नाट्य)	१॥॥)	साहित्य सदन
	पुण्यपर्व	१॥॥)	”
सीताचरण दीक्षित	समाज के स्तम्भ	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
सीताराम गुप्त	मोर साहब	१॥)	किताब महल
सुदर्शन	अंजना	२॥॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	आनरेरी मजिस्ट्रेट	॥॥)	सरस्वती प्रेस
सुमित्रानन्दन पन्त	ज्योत्सना	१॥॥)	भारती भण्डार
	रजत-शिखर	५)	”
सूर्यभान (प्रिंसपल)	नाट्य-भानु	२॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
हरिकृष्ण प्रेमी	आहुति	१)	हिन्दी भवन
	उद्धार	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	कीर्ति-स्तम्भ	३॥॥)	राजपाल एण्ड सन्स
	छाया	१)	आत्माराम एण्ड सन्स
	प्रकाश-स्तम्भ	२)	हिन्दी भवन
	प्रतिशोध	१॥॥)	”
	रत्नावंधन	१-)	”
	विषपान	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	शतरंज के खिलाड़ी	१॥॥)	”
	शपथ	२॥॥)	”
	शिवासाधना	२)	हिन्दी भवन
	स्वप्न-भंग	१॥॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
हरिचन्द्र खन्ना	अमरबेल	३)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
हरिशंकर अग्रवाल (सं०)	नीलदेवी	॥)	रामनारायण लाल
हंसकुमार तिबारी	पुनरावृत्ति	१॥॥)	ज्ञानपीठ लि०

# एकांकी

अरुण	रेल के डिब्बे	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
उदयनारायण तिवारी तथा (सं०) वाचस्पति पाठक	नये एकांकी नाटक	३)	मोतीलाल बनारसीदास
उदयशङ्कर भट्ट	आदिम-युग	४॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	जीवन और संघर्ष	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	नया समाज	१॥)	राजकमल प्रकाशन
	पर्दे के पीछे	२॥)	"
	स्रो का हृदय	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
	सप्तसरिता (अप्राप्य)		ओरिएण्टल बुकडिपो
	समस्या का अन्त	३)	राजकमल प्रकाशन
उपेन्द्रनाथ अशक	आदि माग	५)	नीलाभ प्रकाशन
	चरवाहे	३)	"
	देवताओं की छाया में	२॥॥)	"
	नये रंग-एकांकी	३)	"
	पक्कागाना	३)	"
	प्रतिनिधि एकांकी (सं०)	३)	"
	पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ	३॥॥)	"
एस० पी० खत्री	सात एकांकी	२॥)	साहित्य भवन लि०
कृष्णचन्द्र	नये गुलाम	२॥)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	सराय के बाहर	३)	राजपाल एण्ड सन्स
गोविन्ददास (सेठ)	अष्टदल	१॥)	रामनारायण लाल
गोविन्दवल्लभ पन्त	विषकन्या (प्रेस में)		आत्माराम एण्ड सन्स
जयनाथ 'नलिन'	नवाबो सनक	३॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	एकांकी-समुच्चय (सं०)	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
जी० एल० लूथरा	एकांकी-सुषमा	२॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
जे० सी० माथुर	ओ मेरे सपने	३)	नीलाभ प्रकाशन
धर्मवीर भारती	नदी प्यासी थी	३)	किताब महल
प्रभाकर माधवे	रीढ़ की हड्डी	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल

भगवतीचरण वर्मा	बुभुता दीपक	२)	भारती भण्डार
मानव	लहर और चट्टान	२॥)	किताब महल
मार्कण्डेय	पत्थर और परछाइयाँ	२॥)	राजकमल प्रकाशन
यशपाल	नशे नशे की बात	२॥)	विप्लव कार्यालय
रामकुमार वर्मा	चार ऐतिहासिक एकांकी	१॥)	साहित्य भवन लि०
	दीप-दान	३)	भारती-भण्डार
	रम्य-नास	१)	रामनारायण लाल
	रेशमो टाई	२॥)	"
	आठ एकांकी नाटक	२)	हिन्दी-भवन
	रिम-फ्लिम	३॥)	किताब महल
	सरस एकांकी नाटक	१॥)	हिन्दी भवन
रामदीन पाण्डेय	जोवन-करण	१)	ज्ञानपीठ लि०
रामशरण शर्मा	सफर की साथिन	१॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
लक्ष्मीनारायण मिश्र	मनु तथा अन्य एकांकी	"	"
विष्णु प्रभाकर	अशोक तथा अन्य एकांकी	"	"
	नाटक	२)	रामनारायण लाल
श्यामलाल	ऐतिहासिक-दृश्य	१॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
शिवदानसिंह चौहान (स०)	युगछाया	२॥)	राजकमल प्रकाशन
सन्त गोकुलचन्द्र (स०)	आधुनिक एकांकी	३)	ओरिएण्टल बुकडिपो
सीताचरण दीक्षित	आनंद के राजपथ (प्रस में)	"	आत्माराम एण्ड सन्स
हरिकृष्ण प्रेमी	बादलों के पार	३)	"
	नाट्य-कुञ्ज (रक्षा बंधन तथा	"	"
	प्रताप-प्रतिज्ञा)	॥)	हिन्दी भवन
	दृश्य-कुञ्ज (तीन नाटकों का	"	"
	रूपान्तर)	१)	"

## विदेशी नाटक

गाल्सवर्दी (अनु० प्रमचन्द्र)	चांदी की डिबिया	२॥)	हिंदुस्तानी एकेडेमी
	घोखा-भड़ी	२॥)	"



गाल्सवर्दी (अनु० प्रेमचन्द) न्याय	३)	हिंदुस्तानी एकेडेमी
हड़ताल	२।)	"
टाल्सटाय	१।।)	सस्ता साहित्य मण्डल
जेसिंग	३)	हिंदुस्तानी एकेडेमी
	२।)	"
शेक्सपियर	१)	रामनारायण लाल
	।।।)	"
	।३)	"
	।।=)	"
		"
	।।।)	"
	।।।)	"
	।।=)	"
	।=)	"
	।=)	"
	।।)	"
	।।)	"
विविध (सं०)	।=)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	१।।)	"
	।।।=)	"
	१)	"

## काव्य नवीन : प्रबन्ध

अनूप शर्मा	सिद्धार्थ	४)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
अयोध्यासिंह उपाध्याय			
ह रिश्रौध	पवित्र पर्व	।।=)	रामनारायण लाल
उपेन्द्रनाथ अरक	चाँदनी रात और अजगर	३।)	नीलाभ प्रकाशन

उपेन्द्रनाथ अरक	बरगद की बेटों	३)	नीलाभ पकाशन
केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'	कर्ण	१॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
	कैकेयी	३)	"
गालिब	दोवाने गालिब	२॥)	लहर प्रकाशन
गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश	प्रयाण	१॥)	रामनारायण लाल
गोकुलचन्द्र शर्मा	गाँधी-गौरव	१)	नवयुग साहित्य सदन
गुरु गोविन्दसिंह	गोविन्द-रामायण	४)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र	नव-भारत	॥॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
गोपालनाथ दया (अनु०)	सती कणकी	॥)	हि० सा० सम्मेलन
जयशंकर प्रसाद	आँसू	१)	भारती भण्डार
	कामायनी	३॥)	"
	महाराणा का महत्व	॥)	"
जोश मलीहाबादी	बगावत के गीत	१)	सुषमा साहित्य मन्दिर
धर्मवीर भारती	अंधा-युग (काव्यनाटक)	२॥)	किताब महल
नरेन्द्र शर्मा	कदलीवन	३)	"
	कामिनी	१)	"
	प्रभात फेरी	२॥)	"
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	विनोबा-स्तवन	१॥)	साहित्य सदन
सुरलीधर दीक्षित	झाँसी की रणचण्डी	२॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
मुंशी अजमेरी	गोकुलदास	१=)	साहित्य सदन
	चित्रांगदा	॥॥)	"
	मधुकरशाह	१=)	"
	हेमला सत्ता	॥)	"
मैथिलीशरण गुप्त	आजत	१॥)	"
	अनघ	१॥)	"
	काबा और कर्बला	१॥)	"
	किसान	॥)	"
	कृष्णाल-गीत	१॥)	"
	गुरुकुल	३)	"
	गुरु तेगबहादुर	१=)	"
	चन्द्रहास	१॥)	"
	जयद्रथ-वध	॥॥)	"

मैथिलीशरण गुप्त	जय भारत	७)	साहित्य सदन
	द्रापर	३)	"
	नहुप	॥=)	"
	पञ्चवटी	॥॥)	"
	पत्रावली	।=)	"
	प्रदक्षिणा (पाठ्य सं०)	॥=)	"
	प्रदक्षिणा (विशिष्ट सं०)	१)	"
	पृथ्वी-पुत्र	॥॥)	"
	भारत-भारती	२)	"
	भूमि-भाग	॥)	"
	यशोधरा	१॥)	"
	युद्ध	॥॥)	"
	रङ्ग में भंग	।=)	"
	वक्र-संहार	॥)	"
	वन-वैभव	॥)	"
	विकट-भट	≡)	"
	विश्व-वेदना	॥)	"
	वैतालिक	।=)	"
	शक्ति	।=)	"
	शकुन्तला	॥)	"
	साकेत	५)	"
	सिद्धराज	१॥)	"
	सैरन्धी	॥)	"
	हिडिम्बा	॥॥)	"
	हिन्दू	२)	"
यमुनाप्रसाद चौधरी	कबीर	१॥)	ज्ञान पीठ लि०
रंगेय राघव	मेधावी	३)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
राजेश्वर गुरु	दुर्गावती	॥॥)	सुपमा साहित्य मन्दिर
राजेश्वरप्रसाद नारायण- सिंह	अम्बपाली	३॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	राधा-कृष्ण	२॥)	"
रामकुमार वर्मा	जौहर	१॥)	हिन्दी भवन

रामगोपाल शर्मा रुद्र	द्रोण	१॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
रामचन्द्र शुक्ल	बुद्ध-चरित	२॥॥	ना० प्र० सभा
रामचरित उपाध्याय	देव-सभा	१-॥	”
रामदयाल पांडे	अशोक	१॥॥	ज्ञानपीठ लि०
रामधारीसिंह दिनकर	कुरुक्षेत्र	३॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
	बापू	१॥॥	”
	रश्मि-रथी	५॥	”
लक्ष्मीनारायणसिंह 'ईश'	लङ्कादहन	१॥॥	ना० प्र० सभा
ब्रजकिशोर नारायण	नारायणी	१॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
विद्याधर महाजन	गांधी-चरित-मानस	५॥=॥	हिन्दी भवन
श्यामनारायण पाण्डेय	जय हनुमान	१॥॥	रामनारायण लाल
शेषमणि शर्मा	कैकेयी	१॥॥	”
सियारामशरण गुप्त	अनाथ	१=॥	साहित्य सदन
	आत्मोत्सर्ग	॥=॥	”
	जयहिन्द	१॥	”
	नकुल	१॥॥	”
	नोआखाली में	॥॥	”
	बापू	॥॥	”
	मौर्य-विजय	१=॥	”
	मृगमयी	२॥॥	”
सुभद्राकुमारी चौहान	फांसी की रानी	१-॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
सूर्यकान्त त्रिपाठी निगला	तुलसीदास	१॥॥	भारती भण्डार
हरदयालुसिंह वर्मा	रावण महाकाव्य	५॥	आत्माराम एण्ड सन्स

## काव्य नवीन : गीत तथा मुक्तक

अंचल	वर्षान्त के बादल	३॥	साहित्य भवन लि०
अजितकुमार तथा			
अवस्थी (सं०)	कविताएँ संकलन १९५४	२॥॥॥	साहित्य निक्षेप

अनूप शर्मा	शर्वाणी	७॥	भारती भण्डार
	सुमनाञ्जलि	२॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
अमृतलाल चतुर्वेदी	श्याम संदेशी	३	साहित्य भवन लि०
अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	आधुनिक कवि (भाग ५)	२॥	हिन्दी सा० सम्मेलन
	मर्मन्पर्श	८॥	राजपाल एण्ड सन्स
अज्ञेय	इत्यलम	४	सरस्वती प्रेस
	चिन्ता	४	"
	बावरा अहेरी	३	"
अज्ञेय (स०)	पुष्करिणी	२॥	साहित्य सदन
आनन्दप्रसाद	काँकी	१	साहित्य भवन लि०
आरसीप्रसाद सिंह	प्रेम-गीत	२	श्रीअजन्ता प्रेस
इन्द्रनाथ मदान (सं०)	काव्य धारा	३॥	आत्माराम एण्ड सन्स
उपेन्द्रनाथ अशक	दीप जलंगा	३॥	नीलाभ प्रकाशन
कपिल	ईंट और पत्थर	१	ज्ञानपीठ लि०
केदारनाथ अग्रवाल	लोक और आलोक	२	लहर प्रकाशन
केदारनाथ मिश्र प्रभात	तप्त-ग्रह	१॥	श्रीअजन्ता प्रेस
	स्वर्णोदय	१॥	ज्ञानपीठ लि०
कृष्णकुमार विद्यार्थी	उच्छ्वास	१॥	अशोक प्रेस
गंगाप्रसाद पाण्डेय	नवीना	२॥	रामनारायण लाल
गिरधर गोपाल	अग्निमा	२॥	न्यू लिटरेचर
गोपालप्रसाद व्यास	कदम-कदम बढ़ाये जा	१॥	आत्माराम एण्ड सन्स
गोपालशरणसिंह	आधुनिक कवि (भाग ४)	२॥	हि० सा० सम्मेलन
	सागरिका	३॥	भारती भण्डार
जगन्नाथप्रसाद 'मिर्ज़िद'	बलिपथ के गीत	३	आत्माराम एण्ड सन्स
	मुक्तिका	२॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
जगमोहननाथ अवस्थी	अमर बापू	१॥	न्यू लिटरेचर
जयशंकर प्रसाद	करुणालय	॥	भारती भण्डार
	कानन कुसुम	२	"
	करना	१	"
	प्रसाद-संगीत	२	"
	प्रेम-पथिक	१	"

जयशंकर प्रसाद	लहर	१॥॥	भारती भण्डार
तरल	मेघमाला	२॥॥	साहित्य निकेतन
तरुण भाई	पृथ्वी-वंदन	१॥॥	हिन्दी भवन
देवराज	धरती और स्वर्ग	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
देवीदयाल चतुर्थेदी 'मस्त'	प्राणोत्सर्ग	१॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
धर्मवीर भारती	ठण्डा लोहा	३॥॥	साहित्य भवन लि०
नर्मदेश्वर सहाय	शतरूपा	२॥॥	अशोक प्रेस
नर्वदाप्रसाद खरे	स्वर-पाथेय	२॥॥	रामनारायण लाल
नारायणप्रसाद जैन (सं०)	उर्दू शायरी	५॥॥	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
नीरज	दर्द दिया है	५॥॥	आत्माराम एंड सन्स
	दो गीत : मृत्युगीत और		
	जीवन गीत	१॥॥	साहित्य निकेतन
पारसनाथसिंह (सं०)	विनोद और व्यंग	४॥॥	भारती भण्डार
प्रेमघन	प्रेमघन-सर्वस्व (द्वितीय भाग)	६॥॥	हि० सा० सम्मेलन
बच्चन	प्रारम्भिक रचनाएँ (भाग १)	१॥॥	भारती भण्डार
	प्रारम्भिक रचनाएँ (भाग २)	१॥॥	"
	प्रारम्भिक रचनाएँ (भाग ३)	१॥॥	"
	सोपान	५॥॥	"
	हलाहल	२॥॥	"
बच्चीलाल गुप्त	विश्वभारती	१॥॥	मयूर प्रकाशन
बाबुराम पालीवाल	चेनना	१॥॥	राजकमल प्रकाशन
बालकृष्ण राव	मधु-संचय	२॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	अपलक	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
	क्वासि	३॥॥	"
बैरागी	बदली की रात	३॥॥	नीलाभ प्रकाशन
भगवदत्त 'शिथु'	रस-सागर	२॥॥	भारती भण्डार
भगवतदयाल वर्मा (अनु०)	उमर खय्याम की रुबाइयाँ	॥॥॥	रामनारायण लाल
भगतशरण जौहरी	स्वप्न और सत्य	३॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
भगवतीचरण वर्मा	त्रिपथगा	२॥॥	भारती भण्डार
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	भारतेन्दु-ग्रन्थावली (द्वितीय		"
	खण्ड)	६॥॥	ना० प्र० सभा०
महादेवी वर्मा	आधुनिक कवि (भाग १)	२॥॥	हि० सा० सम्मेलन

महादेवी वर्मा	दीपशिखा ४)	भारती भण्डार
	नीहार २)	साहित्य भवन लि०
	प्रभा (प्रेक्ष में)	भारती भण्डार
	यामा १५)	"
	रश्मि ३)	साहित्य भवन लि०
	सान्ध्य गीत २॥)	भारती भण्डार
माखनलाल चतुर्वेदी	माता ४॥)	भारती भण्डार
	हिम तरंगिनी ४॥)	"
महेन्द्र भटनागर	तारों के गीत १)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मैथिलीशरण गुप्त	अर्जन और विसर्जन १=)	साहित्य सदन
	अञ्जलि और अर्घ्य ॥॥)	"
	भंकार १॥)	"
	प्लासी का युद्ध (अनु०) २)	"
	मैघनाद-वध " ६)	"
	रुबाइयात उमर खैय्याम " १)	"
	वीरगाना " २)	"
	स्वप्न वासवदत्ता " १)	"
यत्सेन्द्रकुमार (अनु०)	शेली (सुनी हुई कविताएँ) २॥)	भारत प्रकाशन मन्दिर
रमानाथ अबस्थी	रात और शहनाई २)	लहर प्रकाशन
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	गीताञ्जलि ३)	राजपाल एण्ड सन्स
	गीताञ्जलि ८)	सुषमा साहित्य मन्दिर
	गीताञ्जलि (साधारण सं०) २॥)	"
रांगेय राघव	पिघलते पत्थर २)	सरस्वती प्रेस
राजाराम श्रीवास्तव	अर्चना १॥)	न्यू लिटरेचर
राजेन्द्रप्रसादसिंह	भूमिका ५)	भारती भण्डार
राजेन्द्र शर्मा	प्रतिपदा ॥॥)	"
राजेश्वरप्रसाद नारायण		
सिंह	अमृत-प्रभा ॥=)	आत्माराम एण्ड सन्स
रामकुमार वर्मा	अञ्जलि १)	साहित्य भवन
	आधुनिक कवि (भाग ३) २॥)	हि० सा० सम्मेलन
	चित्ररेखा १॥)	"
रामचन्द्र श्रीवास्तव (अनु०)	शाहनामा ५)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स

रामधारीसिंह 'दिनकर'	इतिहास के आँसू	३)	श्रीअजन्ता प्रेस
	द्वंद्वगीत	१॥॥)	"
	दिल्ली नामा	॥॥)	"
	धूप और धुआँ	२॥॥)	"
	धूप-छाँह	१॥)	"
	नीम के पत्ते	॥॥॥)	"
	नील-कुसुम	७)	"
	रसवन्ती	२॥॥)	"
	रेणुका	२॥॥)	"
	सामधेनी	२॥॥)	"
	हुँकार	२)	"
रामशङ्कर शुक्ल रसाल	मधुविदु	१)	श्रीअजन्ता प्रेस
रामसिंहासन सहाय 'मधुर'	शैवाल	३)	हि० सा० सम्मेलन
रामेश्वरदयाल	चलो-चलो	॥॥॥)	मयूर प्रकाशन
रायकृष्ण दास	ब्रज-रज	॥॥)	भारती भण्डार
व्योहार राजेन्द्रसिंह	मौन के स्वर	॥॥॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
	भावुक	॥॥)	भारती भण्डार
वारणासि राममूर्ति 'रेणु'	आंध्रदेश के कबीर		
	श्री वेमना (अनु०)	१॥॥)	हि० सा० सम्मेलन
विद्यावती 'कोकिल'	सुहागिन	२)	भारती भण्डार
घिनोदानन्द ठाकुर	धारा	१॥॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
वियोगी 'हरि'	वीर सतसई	१॥॥)	साहित्य भवन लि०
शंकर शैलेन्द्र	न्याता और चुनौती	१)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
शम्भूदेवी अक्वथी	युग सन्देश	१॥॥)	न्यू लिटरेचर
शम्भूनाथ 'शेष'	सुवैला	२)	राजकमल प्रकाशन
शम्भूनाथसिंह	दिवालोक	२)	"
श्यामानन्द सहाय 'सेवक'	शतरूपा	२)	अशोक प्रेस
शान्ति सिंहल	अलका	२॥॥॥)	भारती साहित्य सदन
शिवदानसिंह चौहान तथा			
(सं०) गोपालकृष्ण कौल	काव्य-धारा	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
शिवबहादुरसिंह	शिक्षिनी	१॥॥)	साहित्य निकेतन
शिवमंगलसिंह 'सुमन'	जीवन के गान	३)	सरस्वती प्रेस





शिवमंगलसिंह 'सुमन'	पर आखें नहीं भरें	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
	विश्वास बढ़ता ही गया	३॥	सरस्वती प्रेस
	हिल्लोल	२॥	"
शील	उदय-पथ	१॥	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	एक पग	१॥	न्यू लिटरेचर
शेरजंग	एक और अनेक क्षण	३॥	सरस्वती प्रेस
सत्त्ववती शर्मा	प्रसूत-सुमन	१॥	आत्माराम बुक सन्स
सियारामशरण गुप्त	आर्द्रा	१॥	साहित्य सदन
	दैनिकी	॥=॥	"
	पाथेय	१॥	"
	विवाद	१=॥	"
सुभद्राकुमारी चौहान	मुकुल	२॥॥	हंस-प्रकाशन
सुमित्रानन्दन पन्त	अतिमा	१॥	भारती भण्डार
	आधुनिक कवि (भाग २)	२॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	उत्तरा	५॥	भारती भण्डार
	खादो के फूल	५॥	"
	ग्रंथि	॥॥	"
	ग्राम्या	२॥॥	"
	गुंजन	२॥॥	"
	पल्लव	४॥	"
	पल्लविनी	५॥	"
	मधुञ्जाल	५॥	"
	युग-पथ	५॥	"
	युग-वाणी	२॥॥	"
	वीणा-ग्रंथि	३॥	"
	स्वर्ण-किरण	४॥	"
	स्वर्ण-धूलि	५॥	"
सुमित्रानन्दन पन्त तथा			
अन्य (सं०)	कवि-भारती	१५॥	साहित्य सदन
सुरेन्द्रदेव बालूपुरी	दूणीर	॥॥॥	सरस्वती प्रेस
सुरेन्द्रपालसिंह	नयेस्वर	१॥	राजकमल प्रकाशन
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' अर्चना		२॥॥	भारती भण्डार

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' अनामिका	५)	भारती भण्डार
अपरा	३॥)	,,
आराधना	२॥)	,,
कुकुरमुत्ता	॥=)	,,
गीतिका	१॥)	,,
सोहनलाल द्विवेदी	प्रभाती	२॥)
हरिकृष्ण प्रेमी	आखों में	२॥)
	रूप-दर्शन (सचित्र)	६)
	वन्दना के बोल	२॥)
		साहित्य भवन लि०
		आत्माराम एण्ड सन्स
		,,
		,,

## काव्य प्राचीन : ग्रन्थावलियाँ तथा सम्पादित ग्रन्थ

अमीरसिंह (सं०)	रसखान और घनानंद	१॥)	ना० प्र० सभा
अयोध्यासिंह उपाध्याय			
'हरिऔध'(सं०)	कबीर वचनावली	१॥)	,,
उदयनारायण			
तिवारी (सं०)	वीरकाव्य	६)	भारती भण्डार
कुँजविहारी तथा			
नरोत्तम अग्रवाल(सं०)	सुदामा चरित	॥)	रामनारायण लाल
कन्हैयालाल सहल (सं०)	द्रौपदी विनय अथवा		
	करुण बहत्तरी	॥॥)	भारती भण्डार
कृष्णविहारी मिश्र (सं०)	नटनागर विनोद	१॥)	ना० प्र० सभा
	मोहन विनोद	१॥)	,,
कृष्णशंकर शुक्ल (सं०)	वेलि कृष्ण-राक्षसणी री		
	(सटीक)	६)	साहित्य निकेतन
गणेशप्रसाद द्विवेदी (सं०)	हिंदी प्रेमगाथा काव्य संग्रह	६)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	हिंदी संत काव्य संग्रह	५)	,,
गणेशप्रसाद द्विवेदी तथा			
उदयनारायण तिवारी (सं०)	हिंदी वीरकाव्य संग्रह (यंत्रस्थ)		हिन्दुस्तानी एकेडेमी

जगन्नाथदास 'रत्नाकर' (सं०)	विहारी-रत्नाकर	८)	ग्रन्थकार
	सूरसागर	७)	ना० प्र० सभा
	हम्मीर हठ	॥८)	"
	हरिश्चन्द्र काव्य	१८)	"
जगमोहन वर्मा (सं०)	चित्रावली	१॥१)	ना० प्र० सभा
जनार्दन मिश्र (सं०)	विद्यापति	१॥१)	रामनारायण लाल
जानकीनाथ मनोज (सं०)	देव-शब्दरसायन	२॥१)	हि० सा० सम्मेलन
तिगुणायत (सं०)	विद्यापति का अमर काव्य	१॥१८)	साहित्य निकेतन
द्वारकाप्रसाद शर्मा	रामचरित मानस (सटीक तथा		
चतुर्वेदी (सं०)	सचित्र)	६)	रामनारायण लाल
	रामचरित मानस (गुटका)	१)	"
दीनदयाल 'गिरि'	अन्योक्ति-कल्पद्रुम	॥१)	ना० प्र० सभा
देवचन्द्र विशारद (सं०)	भूषण-ग्रंथावली	५)	हिन्दी भवन
धर्मचन्द्र (सं०)	शिवाबावनी	॥१)	"
धीरेन्द्र वर्मा (सं०)	सूरसागर-सार	४॥१)	साहित्य भवन लि०
नन्ददुलारे वाजपेयी (सं०)	सूरसागर (२भाग) प्रत्येक	१०)	ना० प्र० सभा
नर्मदेश्वर चतुर्वेदी (सं०)	संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी		
	रचनाएँ	२॥१)	साहित्य भवन लि०
प्रफुल्लचन्द शोभा 'मुक्त'			
(सं०)	मानस-मंजरी (सटीक)	॥१)	रामनारायण लाल
प्रभाकरेश्वर उपाध्याय			
तथा दिनेशनारायण			
उपाध्याय (सं०)	प्रेमघन सर्वस्व (भाग १)	६)	हि० सा० सम्मेलन
पीताम्बरदत्त बड़धवाल			
(सं०)	रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ	२॥१)	ना० प्र० सभा
	गोरखबानी (सटीक)	६)	हि० सा० सम्मेलन
बरजोरसिंह 'सरल' (सं०)	शिवाबावनी और		
	छत्रसाल-दशक	॥१)	रामनारायण लाल
बाबूराम सक्सेना (सं०)	कीर्तिलता	१॥१)	ना० प्र० सभा
भगवानदीन 'दीन' (सं०)	केशव-कौमुदी		
	(रामचन्द्रिका)	२॥१)	रामनारायण लाल
	केशव-पंचरत्न	१॥१)	"

भगवानदीन 'दीन' (सं०)	रामचन्द्रिका	१॥	ना० प्र० सभा
	हिम्मत बहादुर विरुदावली ॥)		"
तथा आदित्यप्रसादसिंह			
(सं०)	दृष्टि तरंगिणी ('गरि')	॥	रामनारायण लाल
तथा मोहनवल्लभ पंत (सं०)	अन्योक्ति कल्पद्रुम	२)	"
	सूर-पं परत्न	२॥)	"
तथा विश्वनाथ चौबे स०)	विनयपत्रिका	३॥)	"
तथा विश्वनाथप्रसाद मिश्र			
(सं०)	कवितावली (सटीक)	२)	"
महताबचन्द्र खारैड़ (सं०)	रघुनाथ रूपक गीतारो	२)	ना० प्र० सभा
माताप्रसाद गुप्त (सं०)	कवितावली	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
	तुलसी संग्रह	१॥)	"
	पार्वती-मंगल	॥)	"
मिश्रबन्धु (सं०)	भूषण-ग्रंथावली	२)	ना० प्र० सभा
मीराबाई	मीरा-मन्दाकिनी	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मोहनलाल विष्णुलाल	पृथ्वीराज रासो (२२		
पंड्या आदि (सं०)	खण्ड) प्रत्येक ४॥)		ना० प्र० सभा
मुंशीराम (सं०)	कबीर वचनामृत	३)	पद्मजा प्रकाशन
	प्रथमजा	१)	"
	सूर-शतक	२)	"
रामकर्ण (सं०)	राज-रूपक	५)	ना० प्र० सभा
तथा अन्य (सं०)	बाँकीदास-ग्रंथावली (३ खण्ड)		
	क्रमशः ॥), १), १)		"
रामकुमार वर्मा (सं०)	वृहद् संत-कवीर	८)	साहित्य भवन लि०
रामकुमार वर्मा (सं०)	संक्षिप्त संत-कवीर	२)	साहित्य भवन लि०
रामचन्द्र शुक्ल (सं०)	जायसी ग्रन्थावली	५)	ना० प्र० सभा
तथा चन्द्रबली पाण्डेय			
(सं०)	अनुराग बाँसुरी	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
तथा अन्य (सं०)	तुलसी ग्रन्थावली	४॥)	ना० प्र० सभा
रामनरेश त्रिपाठी (सं०)	रामचरित मानस (सटीक)	१४)	राजपाल एण्ड सन्स
रामसिंह तथा पारीक (सं०)	वैल कृष्ण-रुक्मिणी री	१५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
तथा नरोत्तम स्वामी (सं०)	ढोला मारूरा दूहा	६॥)	ना० प्र० सभा

प्रजरत्नदास (सं०)	नन्ददास ग्रन्थावली	५)	ना० प्र० सभा
	भूषण-ग्रन्थावली	२)	रामनारायण लाल
	रहिमन-विलास	२)	"
	संक्षिप्त राम स्वर्यंवर	१॥)	ना० प्र० सभा
वामदेव शर्मा (सं०)	कवितावली	२)	रामनारायण लाल
	गीतावली	२)	"
	जानकी-मङ्गल	१=)	"
	दोहावली	१)	"
	पार्वती-मङ्गल	७)	"
	बरवै-रामायण	३=)	"
	रामललानहछू	१)	"
	रामाज्ञाप्रश्न	१॥)	"
	श्रीकृष्ण गीतावली	१=)	"
	वैराग्य-संदीपनी	१)	"
वासुदेवशरण भद्रवाल (सं०)	पद्मावत (संजीवनी व्याख्या)	१५)	साहित्य सदन
विचारदास महन्त (सं०)	बीजक (सर्ट.क)	२॥)	रामनारायण लाल
विजयानन्द त्रिपाठी (सं०)	रामचरितमानस (सव्याख्या)	३०)	मोतीलाल बनारसीदास
वियोगी हरि (सं०)	अयोध्याकाण्ड (मानस काण्ड)	१)	सस्ता साहित्य मण्डल
	ब्रजमाधुरीमार	४)	हि० सा० सम्मेलन
वियोगी हरि (सं०)	बिहारी-संग्रह	१=)	हि० सा० सम्मेलन
	सन्त सुधा सार (वृहद् संग्रह)	११)	सस्ता साहित्य मण्डल
विश्वनाथ गौड़ (सं०)	पृथ्वीराज रासो :		
	पद्मावती समय (सर्ट.क)	१॥)	साहित्य निकेतन
विश्वनाथप्रसाद मिश्र (सं०)	केशव-ग्रन्थावली (भाग १-२) प्रत्येक	५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	केशव-ग्रन्थावली (भाग ३) प्रेस में		"
विश्वनाथ मेहरोत्रा (सं०)	भँवरगाँव (नंददास)	१)	रामनारायण लाल
शम्भुनारायण चौबे (सं०)	राम चरितमानस	७)	ना० प्र० सभा

शंभुप्रसाद बहुगुना (सं०)	धनग्रानंद	४॥)	साहित्य भवन लि०
श्यामसुन्दर दास (सं०)	अयोध्याकाण्ड (रामायण)	१)	ना० प्र० सभा
	कबीर-ग्रंथावली	४)	"
	दीनदयाल गिरि-ग्रंथावली	१)	"
	रत्नाकर (२ भाग)	१॥)	"
	सतसई-सप्तक	१२)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	हम्मीररासो	२॥)	ना० प्र० सभा
तथा ब्रजरत्नदास (सं०)	खुसरो की हिन्दी कविता	॥)	"
सत्यजीवन वर्मा (सं०)	चित्रावली	१॥)	रामनारायण लाल
	नयन	॥)	"
	बोसलदेव रासो	२)	ना० प्र० सभा
	मुरली-माधुरी	॥)	सरस्वती प्रेस
सावलदास (सं०)	रामायण के अमूल्य रत्न	=)	रामनारायण लाल
सीताराम (सं०)	महात्मा अक्षरअनन्य कृत		
	प्रेमदीपिका	१)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	कबीर-संग्रह	१)	हि० सा० सम्मेलन
सीताराम चतुर्वेदी (सं०)	मीराँबाई की पदावली	३)	"
	सूफी काव्य संग्रह	३)	"
सूर्यमह (सं०)	वीर सतसई	५)	भारती भण्डार
हजारीप्रसाद द्विवेदी (सं०)	संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो	३॥)	साहित्य भवन लि०
हरिनारायण शर्मा			
पुरोहित (सं०)	सुंदर-सार	१॥)	ना० प्र० सभा
हरिशङ्कर शर्मा (सं०)	शङ्कर-सर्वस्व	१२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	वेलि क्रिसन-रुकमणीरी		
	(मूल-पाठ)	१=)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी

# निबन्ध

अवध उपाध्याय	हिन्दी साहित्य	1=)	रामनारायण लाल
इन्द्र	सामयिक निबंध	२।)	हिन्दी भवन
कमला गर्ग	विहारी-वैभव	१।)	आत्माराम एण्ड सन्स
कन्हैयालाल सहल	आलोचना के पथ पर	४।)	"
	दृष्टिकोण	१॥।)	"
	समीक्षापण	३।)	"
काका कालेलकर	लोक-जीवन	३।।)	सस्ता साहित्य भण्डल
कुट्टिचातन	सबरंग	२।)	सरस्वती प्रेस
केदारनाथ मिश्र 'प्रभात'	सत्यं, शिवं, सुन्दरम्	॥=)	ज्ञानपीठ लि०
कृष्णचन्द्र	काँटे	३।)	राजपाल एण्ड सन्स
कृष्ण शर्मा तथा देवीशरण			
रस्तोगी	तुलनात्मक अध्ययन	२।।।)	आत्माराम एण्ड सन्स
गङ्गाप्रसाद पांडेय	काव्य-कलना	१।)	रामनारायण लाल
	साहित्य-संतरण	२।)	"
गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश'			
तथा बृजभूषण शुक्ल (सं०)	सम्मेलन-निबंधमाला	१।।।)	हि० सा० सम्मेलन
गुरुदयाल मल्लिक	दिल की बात	३।)	साहित्य भवन लि०
गुलाबराय	प्रबंध-प्रभाकर	४।।)	हिन्दी भवन लि०
	मेरे निबंध	५।)	साहित्य प्रकाशन
गोकुलचन्द्र सन्त	आदर्श निबंधमाला	२।।।)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	नवनिबंध निचय	२।।।)	"
गोपालप्रसाद व्यास	मैंने कहा	३।)	आत्माराम एण्ड सन्स
घ० बिबला	रूप और स्वरूप	॥=)	सस्ता साहित्य भण्डल
चंद्रधर शर्मा गुलेरी	गुलेरी-ग्रंथ	१।।।)	ना० प्र० सभा
जगन्नाथप्रसाद 'मिर्ज़ाद'	सांस्कृतिक प्रश्न	२।।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
जबराहूर प्रसाद	काव्य और कला तथा अन्य		
	निबंध	१।।।)	भारती भण्डार

उद्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल' सम्मेलन निबंध-माला(सं०) २]	हि० सा० सम्मेलन
जैवेन्द्र (सं०)	राजकमल प्रकाशन
टाक्सटाय	सस्ता साहित्य मण्डल
	"
	"
देवीदत्त शुक्ल तथा	
धनञ्जय भट्ट	मट्ट-निबंधावली (भाग १) १॥)
	हि० सा० सम्मेलन
	"
	मट्ट-निबंधावली (भाग २) १॥)
देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' अभिषेक	२]
	सरस्वती प्रेस
धीरेन्द्र वर्मा	परिषद्-निबन्धावली
	२]
	रामनारायण लाल
	साहित्य भवन लि०
नगेन्द्र	विचार-धारा
	३॥)
	विचार और विश्लेषण
	५]
	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
पद्मलाल पुत्रालाल बरुशी पद्मवन	१]
	रामनारायण लाल
	प्रदीप
	३]
	सुषमा सहित्य मन्दिर
	साहित्य भवन लि०
परशुराम चतुर्वेदी	प्रबंध-पारिजात
	१॥)
प्रभाकर माचवे	मध्यकालीन प्रेम साधना
	३]
	"
प्रभाकरेश्वर उपाध्याय तथा	सन्तुलन
	४]
	आत्माराम एण्ड सन्स
दिनेशनारायण उपाध्याय (द्वितीय भाग)	१०]
	"
	हि० सा० सम्मेलन
प्रेमचन्द्र	कुछ विचार
	२]
	सरस्वती प्रेस
बंकिमचन्द्र चटर्जी	बंकिम-निबन्धावली
	१॥)
	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
बनारसीदास चतुर्वेदी	साहित्य और जीवन
	२]
	सस्ता साहित्य मण्डल
बाबूकृष्ण भट्ट	मट्ट-निबन्धावली (२ भाग)
	१॥), १॥)
	ना० प्र० सभा
भगवतीचरण वर्मा	हमारी उलफन
	१॥)
	भारती भण्डार
भारतभूषण थागी	निबन्ध-पारिजात
	२॥)
	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मन्मथनाथ गुप्त	प्रगतिवाद की रूपरेखा
	७]
	आत्माराम एण्ड सन्स
महादेवी वर्मा	शृङ्खला की कड़ियाँ
	३॥)
	भारती भण्डार
	ज्ञादा (प्रिस में)
महावीरप्रसाद द्विवेदी	समालोचना-समुच्चय
	१॥)
	रामनारायण लाल
मौलाना अबुल कलाम	इन्सानियत मौत के
आजाद	दरवाजे पर
	१]
	"





यशपाल	देखा, सोचा, समझा	२॥)	विष्णुव कार्यालय
यशपाल जैन (सं०)	पंचदशी	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
यज्ञदत्त शर्मा	प्रबन्ध-सागर	५॥)	"
रघुवीरसिंह	जीवन-कण	३)	राजकमल प्रकाशन
	जीवन-धूलि	१॥)	"
	शेष स्मृतियाँ	४)	"
रविशंकर शुक्ल	हिन्दी वालो सावधान	२॥)	ना० प्र० सभा
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	साहित्य	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
रंगेय राघव	भारतीय चिन्तन	२॥)	किताब महल,
	संगम और संघर्ष	२॥)	'
राजेन्द्रप्रसाद	साहित्य, शिक्षा और संस्कृति	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
रामकृष्ण शुक्ल	कला और सौंदर्य	३॥)	"
रामखेलावन पांडेय	कविता-कानन	१॥)	ज्ञानपीठ लि०
रामधारीसिंह दिनकर	अर्द्धनारीश्वर	६)	श्रीभजन्ता प्रेस
	मिट्टी की ओर	४)	"
	रेती के फूल	२)	"
	हमारी सांस्कृतिक एकता	१॥॥)	"
रामचतनसिंह	निबंध-प्रदीप	४)	किताब महल
रामरतन भटनागर	निबंध-प्रबोध	२)	'
	प्रबंध-प्रभाकर	२॥)	"
	प्रबंध-पूर्णिमा	३)	रामनारायण लाल
रामधृष्ट बेनीपुरी	नई नारी	१॥)	न्यू लिटरेशर
	मशाल	१॥)	किताब महल
	हवा पर	१॥)	"
राहुल सांकृत्यायन	धुमकड-शास्त्र	३)	राजकमल प्रकाशन
	दिमागी गुलामी	॥॥)	"
	साहित्य-निबंधावली	३॥॥)	"
ललिताप्रसाद सुकुल	साहित्य-जिज्ञासा	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
ब्रजराजदास (सं०)	भारतेन्दु-ग्रंथावली (तृतीय खण्ड)	६)	ना० प्र० सभा
ब्रजलाल गोस्वामी	निबंध लहरी		ओरिएण्टल बुकडिपो
	प्रबंध-पुष्कर		"

वासुदेवशरण	कल्पवृक्ष	२)	सस्ता साहित्य मण्डल
विनयमोहन शर्मा	साहित्यावलोकन	३)	साहित्य भवन लि०
वियोगी हरि	साहित्य-विहार	१॥)	"
विद्यानिवास मिश्र	कदम की फूली डाल	३)	न्यू लिटरेचर
	छितवन का छाँह	२॥)	सरस्वती प्रेस
रयामसुन्दर दास	हिन्दी निबन्ध माला (२ भाग)		
	प्रत्येक	१॥)	ना० प्र० सभा
शरत्चन्द्र चटर्जी	शरत्-निबन्धावली	१॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	शरत्-पत्रावली	१॥)	"
शांतिप्रिय द्विवेदी	सामयिकी	३॥)	ज्ञानमण्डल लि०
शिवदानमिह चौहान	साहित्यानुशीलन	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
सद्गुरुशरण अत्रस्थो	विचार-विमर्ष	१॥)	रामनारायण लाल
सियारामशरण गुप्त	भूठसच	२)	साहित्य सदन
सुनीतिकुमार चटर्जी	ऋतम्भरा	२॥)	साहित्य भवन लि०
हजारीप्रसाद द्विवेदी	अशोक के फूल	३)	सस्ता साहित्य मण्डल
	कल्पलता	२॥)	ज्ञानमण्डल लि०
	निबन्ध-संग्रह	५)	साहित्य भवन लि०
	मध्यकालीन धर्म साधना	३)	"
	विचार और वितर्क	३)	"
चेमचन्द्र 'सुमन'	राष्ट्रभाषा हिन्दी	३)	राजकमल प्रकाशन
	निबन्ध-रत्न	१॥)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	प्रबन्ध-भास्कर	५)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	साहित्य-परिचय	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	साहित्य-शिक्षा	२)	"

## गद्यकाव्य

दिनेशानंदिनी डाकमिया	उनमन	३)	साहित्य भवन लि०
	दुपहरिया के फूल	१।)	सुबमा साहित्य मन्दिर
	निर्झर और पाषाण	१।।)	साहित्य भवन लि०
	शबनम	१।।।)	”
रघुबीरसिंह	जीवन-धूलि	१।।।)	राजकमल प्रकाशन
रामकुमार वर्मा	हिम-हास	१।।।)	”
रायकृष्णदास	साधना	१)	भारती भण्डार
वियोगी हरि	प्रार्थना	।।)	सस्ता साहित्य मण्डल
	श्रद्धा-करण	१)	”

## रेखाचित्र

महादेवी वर्मा	अतीत के चलचित्र	२)	भारती भण्डार
	स्मृति की रेखाएँ	१।।)	”
खीलावती मुंशी	रेखाचित्र	३।)	किताब महल
बिबिध	रेखाचित्र	१)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति

## संस्मरण, पत्र तथा यात्रा विवरण

धर्मतराय	सुबह के रंग (चीन के संस्मरण)	२)	हंस प्रकाशन
रुण	महापुरुषों के संस्मरण	३)	आत्मराम पब्लिशर्स

अज्ञेय	अरे आयावर रहेगा याद	६)	सरस्वती प्रेस
	एक टायर की रामकहानी	१)	"
कृष्णचन्द्र	सुबह होती है	३)	राजकमल प्रकाशन
कृष्णा मेहता	काश्मीर पर हमला	२)	सस्ता साहित्य मण्डल
कैलाशनाथ काटजू	में भूल नहीं सकता	२॥)	"
गुरुदत्त	अन्तिम यात्रा	१)	भारती साहित्य सदन
जगदीशचन्द्र जैन	चीनी जनता के बीच	४)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
जगन्मोहन वर्मा (अनु०)	चीनी यात्री सुंग युन का यात्रा विवरण	१)	ना० प्र० सभा
देवेशदास	यूरोप	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
धर्मपाल	हिमालय पर विजय	२॥)	राजपाल एण्ड सन्स
पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'	में इनसे मिला (भाग १)	२॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	में इनसे मिला (भाग २)	३॥)	"
परमात्माशरण तथा			
रायकृष्णदास	काशी-प्रदर्शन	१)	ना० प्र० सभा
प्रबोधकुमार सान्याल	महाप्रस्थान के पथ पर	३)	सरस्वती प्रेस
बनारसीदास चतुर्वेदी (सं०)	पद्मसिंह शर्मा के पत्र	८)	आत्माराम एण्ड सन्स
बलराम दुबे	बद्री-केदारनाथ	१=)	रामनारायण खाल
बालकृष्ण	विकट पथ के राही	३)	राजपाल एण्ड सन्स
भगवतशरण उपाध्याय	कलकत्ता से पेकिङ्ग	३॥)	"
भदन्त आनन्द			
कौसल्यायन	आज का जापान	२॥)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
भिष्णु धर्मरक्षित	लंका यात्रा	१॥)	किताब महल
म० पोद्दार	हिमालय की गोद में	२)	सस्ता साहित्य मण्डल
महादेवी वर्मा	पथ के साथी (साहित्यिकों के संस्मरण)	प्रेस में	भारती भण्डार
मावलंकर	मानवता के फरने	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
मुकुटबिहारी	बहिन के पत्र	(प्रेस में)	आत्माराम एण्ड सन्स
बशपाल	सिंहावलोकन (भाग १)	४॥)	विप्लव कार्यालय
	सिंहावलोकन (भाग २)	५॥)	"
	सिंहावलोकन (भाग ३)	४॥)	"

यशपाल	लोहे का दावार के दोनों श्रोर	७)	विप्लव कर्णालय
यशपाल जैन	जय अमरनाथ	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
राजवस्त्रभ ओष्का	बदलते दृश्य	६)	हिन्दी भवन
रा० र० स्नाडिलकर	हालैड में पचीस दिन	३)	ज्ञानमण्डल लि०
राहुल सांकृत्यायन	मेरी योरोप यात्रा	१॥॥)	किताब महल
	राहुल-यात्रावली		"
	(भाग १)	३)	"
	घुमकड़ शास्त्र	३॥)	राजकमल प्रकाशन
विराज	जङ्गल की बातें	१॥)	राजपाल एण्ड सन्स
	जङ्गल के रहस्य	१॥)	"
	प्राणों की बाजी	२॥॥)	"
	वनराज के राज में	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
शिवरानी देवी	प्रेमचन्द : घर में	७॥॥)	"
श्रीनिधि	शिवालिक की घाटियों में	५)	"
सत्यवती मल्लिक	अमिट रेखायें	३)	सस्ता साहित्य मण्डल
सत्येन्द्रनाथ मजूमदार	अँखों देखा रूस	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
स्वामी प्राणवानन्द	कैलास-मानसरोवर	१०)	हि० सा० सम्मेलन
स्वामी सहजानन्द	किसान सभा के संस्मरण	३॥॥)	न्यू लिटरेचर
सिमोनोफ्र	इन्कलाबी चीन	२)	हंस प्रकाशन
सुनीलचन्द्रभट्टाचार्य	मानसरोवर और कैलाश	१॥॥)	ना० प्र० सभा
सोहनलाल	अतीत-स्मृतियाँ	१॥=)	ओरिएण्टल बुकडिपो
हरिभाऊ उपाध्याय	पुरण-संस्मरण	१॥॥)	नवयुग साहित्य संदन
शेमचन्द्र 'सुमन'	जीवन-स्मृतियाँ	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
बिबिध	पाँचवें पुत्र को बापू के आशीर्वाद	८)	सस्ता साहित्य मण्डल
	हिमालय के उस पार	१=)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस

## अभिनन्दन तथा स्मारक ग्रंथ

गौ० ही० ओझा (सं०)	कोशोत्सव स्मारक ग्रन्थ	३)	ना० प्र० सभा०
देवेन्द्र सत्यार्थी (सं०)	मुन्शी अभिनन्दन ग्रन्थ	१५)	”
नरेन्द्रदेव (सं०)	सम्पूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रन्थ	१५)	ना० प्र० सभा
प्रेमनारायण माथुर (सं०)	गाँधी ग्रन्थ	५)	रामनारायण छाल
राधाकृष्णन (सं०)	गाँधी अभिनन्दन ग्रन्थ	४)	सस्ता साहित्य मण्डल
डॉ० श्रीकृष्णलाल तथा			
करुणापति त्रिपाठी (सं०)	हीरक जयंती ग्रन्थ	१०)	ना० प्र० सभा

## आत्मकथा तथा जीवनी

इन्द्र	संसार के महान युग-प्रवर्तक २॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
इन्द्र विद्यावाचस्पति	हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति ॥)	”
ए० मी० सीअव	माओत्से-तुंग (बालपन और तारुण्य) १॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
एस० मनोहरलाल तथा भगवतीप्रसाद पांथरी	युगपुरुष : महात्मा गाँधी (२ भाग) क्रमशः ५), ६॥)	सरस्वती प्रेस
कन्हैयालाल माणिक- लाल मुंशी	आधे रात्ते ४॥) स्वप्नसिद्धि की खोज में ५) सीधी चढ़ान ४॥)	राजकमल प्रकाशन ” ”
केशव प्रसाद सिंह (अनु०)	महात्मा रीसेप मेजिनी ॥)	ना० प्र० सभा
गोपालप्रसाद व्यास	गाँधी चरित ॥॥) हमारे राष्ट्रपिता २)	आत्माराम एण्ड सन्स ”
जगन्मोहन वर्मा	राणा जंगबहादुर १॥)	ना० प्र० सभा
जयगोपाल (कविराज)	दुर्गादास राठौर २॥)	राजपाल एण्ड सन्स

जयगोपाल (कविराज)	हरिसिंह नलवा	२॥)	राजपाल एण्ड सन्स
जवाहरलाल नेहरू	मेरी कहानी	८)	सस्ता साहित्य मण्डल
	मेरी कहानी (संक्षिप्त)	२॥)	”
टास्सटाय	मेरी मुक्ति की कहानी	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
ठाकुरसिंह	भगतसिंह (व्यक्तित्व और विचार)	॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी	भीष्म पितामह	१॥=)	ना० प्र० सभा
देवेन्द्र सत्यार्थी	चाँद सूरज के बीरन	५)	राजकमल प्रकाशन
ध्रुवदास	भक्तनामावली	॥=)	ना० प्र० सभा
नाथूराम शर्मा (अनु०)	जान स्टुअर्ट मिल	१)	”
ब्रजरत्नदास	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (संक्षिप्त)	२)	”
बलदेव उपाध्याय	शङ्कराचार्य	७॥)	”
बलदेवप्रसाद शुक्ल	देश-दीपक	२)	हिन्दी भवन
ब्रह्मवती नारंग	महान भारतीय (सचित्र)	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
भाई परमानन्द	वीर वैयास	२)	राजपाल एण्ड सन्स
भूदेव शर्मा	सनयातसेन	१)	हि० सा० सम्मेलन
भीमराव गोपाल देशपांडे	लोकमान्य तिलक	३)	राजकमल प्रकाशन
भीमसेन	वीर मराठे	२॥)	राजपाल एण्ड सन्स
	शिवाजी	२)	”
माखनलाल गुप्त गर्ग	शाही दृश्य	१॥)	ना० प्र० सभा
मो० क० गाँधी	आत्मकथा	५)	सस्ता साहित्य मण्डल
	आत्मकथा (संक्षिप्त)	१॥)	”
राजेरवरप्रसाद नारायण सिंह	रूसी क्रान्ति के अप्रदूत (सचित्र)	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
राधामोहन गोकुलजी	नेपोलियन बोनापार्ट	१॥)	ना० प्र० सभा
रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे	अब्राहम लिंकन	॥=)	ज्ञानमण्डल लि०
रामचन्द्र वर्मा (अनु०)	अकबरी दरवार (तीन भाग) क्रमशः ३), ४), २)		ना० प्र० सभा
रामनारायण मिश्र	महादेव गोविन्द रानाडे	१॥)	”
राहुल सांकृत्यायन	मेरी जीवन-यात्रा	८)	किताब महल

राहुल सांकृत्यायन	स्तालिन (एक जीवनी)	३]	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	सरदार पृथ्वीसिंह	३॥]	ज्ञानमण्डल लि०
	लेनिन (एक जीवनी)	३]	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
लुई फिशर	गाँधी की कहानी	४]	सस्ता साहित्य मण्डल
विनोद	प्रणवीर प्रताप	२]	राजपाल एण्ड सन्स
बी० पी० वाजपेयी	आशुकि मोहन	५॥]	न्यू लिटरेचर
वीरेन्द्रनारायण	कला की कुटिया में	१॥]	ज्ञानपीठ लि०
	विज्ञान के पथ पर	१॥]	"
बेणीप्रसाद	गुरु गोविंदसिंह	१॥]	ना० प्र० सभा
श्रीराम वर्मा	लोकमान्य तिलक	१]	आत्माराम एण्ड सन्स
सत्यकाम विद्यालंकार	राष्ट्र-पुरुष	३]	राजपाल एण्ड सन्स
सन्त गोकुलचन्द्र	आदर्श-चरितावली	२॥]	ओरिएण्टल बुकडिपो
सन्तराम	भारत के महापुरुष	१॥]	हिन्दी भवन
	रणजीत चरित	१॥]	"
सुदर्शनसिंह	श्रीकृष्ण चरित	१०]	मोतीलाल बनारसीदास
हरिभाऊ उपाध्याय	श्रेयार्थी जमनालाल जी	६॥]	सस्ता साहित्य मण्डल
	श्रेयार्थी जमनालाल बजाज		
	(मञ्जित)	२]	"
	साधना के पथ पर	३॥]	नवयुग साहित्य सदन
हरिरामचन्द्र दिवेकर	संत तुकाराम	३]	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
विविध	एक आदर्श महिला	१]	सस्ता साहित्य मण्डल
	भारत के महापुरुष	२॥]	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	भारत के स्त्रीरत्न		
	(तीन भाग)	६]	सस्ता साहित्य मण्डल

## प्राचीन हिंदी गद्य के नमूने

ईशाअल्ला ख़ाँ	रानी केतकी की कहानी	१-]	ना० प्र० सभा०
खल्लूखल	प्रेमसागर	३॥]	"



लख्मूलाल	प्रेमसागर	३)	रामनारायण लाल
सदल मिश्र	नासिकेतोपाख्यान	१-)	"

## आलोचना : सिद्धान्त तथा समीक्षा-ग्रन्थ

अंचल	हिन्दी साहित्य अनुशील ३१)	हिन्दी भवन
	हिन्दी साहित्य परिचय २)	हि० सा० सम्मेलन
अमरनाथ कपूर	साहित्य विवेचना १॥)	किताब महल
अमरनाथ गुप्त	हिन्दी गद्य निर्माता १)	रामनारायण लाल
अमृतराय	नयी समीक्षा ४॥)	हंस प्रकाशन
अमृता प्रीतम	पंजाबी और उसका साहित्य (प्रेस में)	राजकमल प्रकाशन
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	हिन्दी पर फ़ारसी का प्रभाव १।=)	हि० सा० सम्मेलन
अरुण	साहित्य में सत्य तथा तथ्य	आत्माराम एण्ड सन्स
अशोककुमार सिंह	उद्भवशतक परिशीलन १॥)	"
अज्ञेय	त्रिशंकु ३)	सरस्वती प्रेस
आलोचना-पुस्तक-माला	पाश्चात्य आलोचना की अवाचीन प्रवृत्तियाँ ३)	राजकमल प्रकाशन
	हिन्दी आलोचना की अर्वाचीन प्रवृत्तियाँ २)	"
	हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ २)	"
	हिन्दी के गौरव-ग्रन्थ २)	"
	हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ २)	"
इन्द्रनाथ मदान	प्रेमचन्द्र : एक विवेचन ३।)	राजकमल प्रकाशन
	प्रेमचन्द्र: चिन्तन और कला ५)	सरस्वती प्रेस
	शरच्चन्द्र (चिन्तन व कला) २॥)	हिन्दी भवन

इन्द्रनाथ मदान	हिन्दी कलाकार	५॥॥	हिन्दी भवन
	हिन्दी काव्यकार	३॥॥	”
इलाचन्द्र जोशी	विवेचना	४)	हि० सा० सम्मेलन
	साहित्य चिन्तन	२॥॥	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
उपेन्द्रनाथ अरक	उर्दू काव्य की एक नई धारा	२॥॥	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	रेखाएँ और चित्र	४)	नीलाभ प्रकाशन
उमेश मिश्र	विद्यापति ठाकुर	१॥॥	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
एस० पी० खत्री	आलोचना इतिहास तथा सिद्धान्त	११)	राजकमल प्रकाशन
	काव्य की परख	२)	भारती भण्डार
	नाटक की परख	४)	साहित्य-भवन लि०
ओमप्रकाश	भावना और समीक्षा	४)	भारत प्रकाशन मन्दिर
कन्हैयालाल सहल	साकेत के नवम-सर्ग का काव्य वैभव	२॥॥	साहित्य-सदन
कपिलदेव प्रसाद	मूल्यांकन	३)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
किरणकुमारी गुप्त	हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण	६)	हि० सा० सम्मेलन
किशोरीलाल जी गुप्त	‘प्रसाद’ का विकासत्मक अध्ययन	३॥॥	साहित्यरत्न माला कार्यालय
कृष्णकुमार सिनहा	आधुनिक कवि पन्त	४)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
कृष्णचन्द्र वर्मा	उद्धवशतक मीमांसा	४)	किताब महल
कृष्णदेव उपाध्याय	भोजपुरी और उसका साहित्य (प्रेस में)		राजकमल प्रकाशन
कृष्णदेवप्रसाद गौड़	आधुनिक हिन्दी साहित्य परिचायिका	१॥३॥	हिन्दी भवन
कृष्णनन्दन पंत तथा यज्ञदत्त शर्मा	आलोचना के सिद्धान्त	२॥॥	राजपाल एण्ड सन्स
गंगानाथ झा	कवि-रहस्य	२)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
गंगाप्रसाद पांडेय	कामायनी : एक परिचय निबन्धिनी	२)	रामनारायण लाल
	हिन्दी कथा साहित्य	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
		३)	भारती भण्डार

गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश'	महाकवि 'हरिऔध'	४)	रामनारायण लाल
गुर्ती सुब्रह्मण्य	समीक्षकप्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल	५)	"
गुलाबराय	हिन्दी साहित्य समीक्षा	२॥)	हि० सा० सम्मेलन
	अध्ययन और आस्वाद	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
	काव्य के रूप	५)	"
	साहित्य समीक्षा	१॥॥)	"
	सिद्धान्त और अध्ययन	६)	"
गुलाबराय तथा	हिन्दी काव्य विमर्श	३॥)	"
विजयेन्द्र स्नातक	आलोचक रामचन्द्र शुक्ल	६)	"
गोपालकृष्ण कौल	नाटककार 'अरक'	७), ६)	नीलाभ प्रकाशन
गोपीकृष्ण 'गोपेश'	विदेशों के महाकाव्य	६॥)	साहित्य भवन लि०
गोपीनाथ 'अमन'	उर्दू और उसका साहित्य	२)	राजकमल प्रकाशन
गोपीनाथ शर्मा	काव्य लोक	१)	किताब महल
	राधिकारमणसिंह : व्यक्तित्व		
	और कला	२॥)	लहर प्रकाशन
	दिन्ही साहित्य का विकास	१॥॥)	"
गोविंदराम	साहित्य-विचार	२॥)	राजपाल एण्ड सन्स
चतुरसेन शास्त्री	हिन्दी साहित्य का परिचय	३)	"
चन्द्रबली पांडेय	एकता	३)	हि० सा० सम्मेलन
	कालिदास	७॥)	मोतीलाल बनारसीदास
	तुलसी की जीवन-भूमि	३)	ना० प्र० सभा०
	विचार-विमर्श	३॥)	हि० सा० सम्मेलन
	शासन में नागरी	१॥)	"
चन्द्रशेखर पांडे	रसखान और उनका काव्य	॥)	"
जगदीशनारायण दीक्षित	प्रसाद के नाटकीय पात्र	५)	साहित्य निकेतन
जगन्नाथदास 'रत्नाकर'	कविवर बिहारी	६)	ग्रंथकार
जगन्नाथप्रसाद मिश्र	साहित्य विवेचन	२॥)	श्रीअजन्ता प्रेस
जगन्नाथप्रसाद शर्मा	हिन्दी गद्य शैली का विकास	२॥)	ना० प्र० सभा
जयचन्द्र विद्यालङ्कार	भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न	१)	हिन्दी भवन
जयनाथ 'नखिल'	हिन्दी नाटककार	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
	हिन्दी निबंधकार	६)	"
कथनारायण	उपन्यास के मूल तत्व	१)	श्रीअजन्ता प्रेस

ज्ञानकीवल्लभ शास्त्री	चिन्ताधारा ३) स्थायी साहित्य तथा सामयिक साहित्य (प्रेस में)	श्रीअजन्ता प्रेस अशोक प्रेस
जी० सुन्दर रेड्डी टीकमसिंह तोमर	साहित्य और समाज १) हिंदी वीरकाव्य (१६००- १८०० ई०) १२)	मयूर प्रकाशन हिन्दुस्तानी एकेडेमी
त्रिगुणायत त्रिलोकीनाथ दीक्षित	कबीर की विचारधारा ७) अवधी और उसका साहित्य २) प्रेमचन्द्र २॥॥ भाषा-भारती २॥॥ संत-दर्शन ४), ४॥॥ साहित्य-समीक्षा १=) सुंदर-दर्शन ५)	साहित्य निकेतन राजकमल प्रकाशन साहित्य निकेतन किताब महल साहित्य निकेतन रामनारायण लाल किताब महल
दिनेशनारायण उपाध्याय दीनदयाल गुप्त	हमारी नाट्य परम्परा १) अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय (भाग १-२) २०)	रामनारायण लाल हि० सा० सम्मेलन
दुष्यन्तकुमार तथा कमलेश्वर	चेतन : एक अध्ययन २॥॥	नीलाभ प्रकाशन
देवदत्त शास्त्री	भारतीय वाङ्मय की भूमिका २॥॥	किताब महल
देवराज	आधुनिक समीक्षा ४॥॥	राजपाल एण्ड सन्स
देवराज उपाध्याय	रोमांटिक-साहित्य-शास्त्र ३॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
देवेन्द्रनाथ शर्मा	साहित्य-समीक्षा २॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
धर्मचन्द्र सन्त	हिंदी गद्य का आविर्भाव और विकास २॥॥ हिंदी साहित्य का विकास एक दृष्टि में १)	ओरिएण्टल बुकडिपो
धर्मवीर भारती	प्रगतिवाद : एक समीक्षा ३॥॥	साहित्य भवन लि०
धर्मेंद्र ब्रह्मचारी	महाकवि 'हरिऔध' का प्रिय-प्रवास १)	रामनारायण लाल
नन्ददुलारे बाजपेयी	आधुनिक साहित्य ७) छायावाद और रहस्यवाद १॥॥	भारती भण्डार रामनारायण लाल

नन्ददुलारे वाजपेयी	जयशङ्कर प्रसाद ३)	भारती भण्डार
	प्रेमचन्द्र : साहित्यिक विवेचन २=)	हिन्दी भवन
	महाकवि सूरदास ४)	आत्माराम एण्ड सन्स
मल्लनीमोहन सान्याल	भक्तशिरोमणि महाकवि सूरदास १॥)	रामनारायण लाल
नामवर सिंह	आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ १॥)	किताब महल
	छायावाद ४)	सरस्वती प्रेस
पदुमलाल पुल्लाल बरूषो	हिन्दी कथा साहित्य ७)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
परशुराम चतुर्वेदी	कबीर-साहित्य की परख ५)	भारती भण्डार
	भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा ३॥)	राजकमल प्रकाशन
	मानस की राम कथा ३॥)	किताब महल
	संत काव्य ६)	"
	हिन्दी काव्यधारा में प्रेम-प्रवाह ३॥)	"
प्रकाशचन्द्र गुप्त	नया हिन्दी साहित्य : एक भूमिका २॥)	सरस्वती प्रेस
	हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा २॥)	किताब महल
प्रतिपाल सिंह	बीरुवीं शताब्दी के महाकाव्य ८॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
प्रभातकुमार मुखोपाध्याय तथा		
भूपेन्द्रनाथ वन्धोपाध्याय	हिन्दी दशमिक वर्गीकरण २)	हि० सा० सम्मेलन
पुरुषोत्तमदास भार्गव	रामचन्द्रिका २॥)	किताब महल
पुरुषोत्तमलाल	आदर्श और यथार्थ २॥)	ना० प्र० सभा
पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव	कबीर साहित्य का अध्ययन ४॥)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
पूर्ण सोम सुन्दरम्	तमिल और उसका साहित्य २)	राजकमल प्रकाशन
प्रेमचन्द्र	साहित्य का उद्देश्य ४)	सरस्वती प्रेस
	साहित्य का उद्देश्य ४)	हंस प्रकाशन
प्रेमनारायण टंडन	प्रसादजी के तीन नाटक १)	रामनारायण लाल

प्रेमनारायण शुक्ल	प्रेमचन्द्र : गोदान समीक्षा १-)	पद्मजा प्रकाशन
	भारतेन्दु की नाट्य कला ३)	"
	हिन्दी साहित्य में विविध वाद ६)	"
प्रेमशङ्कर	प्रसाद का काव्य १०)	भारती भण्डार
फूलचन्द्र पांडेय	चन्द्रगुप्त २॥)	किताब महल
	पंत : आधुनिक कवि ३॥)	"
ब्रजविलास श्रीवास्तव	पृथ्वीराजरासो की कथानक रूढ़ियाँ ३)	राजकमल प्रकाशन
बलदेवप्रसाद शुक्ल	गुंजन का अनुशीलन ६)	हिन्दी भवन
बलदेव मिश्र	तुलसी-दर्शन ५)	हि० सा० सम्मेन
बुद्धिनाथ झा 'कैरव'	साहित्य साधना की पृष्ठभूमि ६)	ज्ञानपीठ लि०
बृजकिशोर चतुर्वेदी	आधुनिक कविता की भाषा ६)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
भगीरथप्रसाद दीक्षित	महाकवि भूषण २॥)	साहित्य भवन लि०
भगीरथ मिश्र	तुलसी रसायन २॥)	"
	हिंदी रीति साहित्य (प्रेस में)	राजकमल प्रकाशन
भोलानाथ तिवारी	महाकवि देव २॥)	किताब महल
मन्मथनाथ गुप्त	बँगला के आधुनिक कवि १॥)	"
	शरत्चन्द्र ३)	किताब महल
महावीर अधिकारी	प्रसाद : जीवन, कला और कृतित्व ६॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	दिनकर की काव्य साधना २॥)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
मुरलीधर श्रीवास्तव	ध्रुवस्वामिनी: एक अध्ययन १॥)	रामनारायणलाल
	बिहार के गद्य-निर्माता (प्रेस में)	अशोक प्रेस
मुंशीराम शर्मा	भारतीय साधना और सूर साहित्य ८)	पद्मजा प्रकाशन
	सूरसौरभ ५-)	"
मूंगाराम त्रिपाठी	शकुन्तला दर्शन १॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
मोतीराम मेनारिया	डिगल में वीररस ३)	हि० सा० सम्मेन
मोहनलाल जिज्ञासु	कहानी और कहानीकार ३)	आत्माराम एण्ड सन्स
पद्मदेव	पन्त का युग और काव्य ५)	किताब महल
	कबीर साहित्य और	
ब्रह्मदत्त शर्मा	सिद्धान्त २॥)	आत्माराम एण्ड सन्स

यज्ञदत्त शर्मा	जायसी : साहित्य और सिद्धान्त २॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	तुलसी : साहित्य और सिद्धान्त २॥॥	"
	यूर : साहित्य और सिद्धान्त २॥॥	"
रघुंश	प्रकृत और काव्य (संस्कृत) २॥॥	साहित्य भवन लि०
	प्रकृति और काव्य (हिन्दी) ६॥॥	"
रजनीकान्त शास्त्री	मानस-मीमांसा ४)	किताब महल
	वैदिक-साहित्य परिशीलन ३)	"
रवीन्द्र सहाय	हिन्दी काव्य पर आङ्ग्ल प्रभाव ६)	पद्मजा प्रकाशन
रांगेय राघव	गारखनाथ (प्रथम मं)	आत्माराम एण्ड सन्स
राजपति दीक्षित	तुलसीदास और उनका काव्य ७)	ज्ञानमण्डल लि०
राजबहादुर लमगोड़ा	त्रिपुर साहित्य में रामचरित- मानस १॥॥	रामनारायण लाल
राजेन्द्रसिंह गौड़	सन कबीर दर्शन २)	साहित्य भवन लि०
	हमारे कवि ३)	"
	हमारे लेखक ४)	"
राजेश्वरप्रसाद अर्गल	प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक २॥॥	"
रामअवध द्विवेदी	हिन्द साहित्य के विकास की रूपरेखा ४)	भारती भण्डार
रामकुमार वर्मा	कबीर का रहस्यवाद ३॥॥	साहित्य भवन लि०
	साहित्य-समालोचना १॥॥	हिन्दी भवन
रामखेलावन पाण्डेय	काव्य और कल्पना ३॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
रामचन्द्र द्विवेदी	तुलसी-साहित्य-रत्नाकर ४)	ज्ञानमण्डल लि०
रामचन्द्र शुक्ल	गोस्वामी तुलसीदास १॥॥	ना० प्र० सभा
	त्रिवेणी १॥॥	"
रामनरेश त्रिपाठी	तुलसी और उनका काव्य ७)	राजपाल एण्ड सन्स
रामनरेश वर्मा	वक्रोक्ति और अभिव्यञ्जना ४)	ज्ञानमण्डल लि०

रामबहोरी शुक्ल	तुलसी	३)	हिन्दी भवन
रामयतनसिंह 'भ्रमर'	एकांकी-कला	२॥)	किताब महल
रामरतन भटनागर	कबीर	२॥)	"
	कबीर-साहित्य की भूमिका	२॥)	रामनारायण लाल
	कवि निराला	२॥)	किताब महल
	कवि प्रसाद	२)	"
	कामायनी	२॥)	"
	केशवदास	२॥)	"
	छायावाद	२॥)	"
	जायसी	२॥)	"
	तुलसीदास	२॥)	"
	तुलसी-साहित्य की भूमिका	२)	रामनारायण लाल
	नंददास	२॥)	किताब महल
	प्रसाद की विचारधारा	४)	रामनारायण लाल
	प्रेमचन्द्र	२॥)	किताब महल
	बिहारी	२।)	"
	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	२॥)	किताब महल
	मैथिलीशरण गुप्त	२॥)	"
	रहस्यवाद	२॥)	"
	विद्यापति	२॥)	"
	साहित्य-सर्मज्ञा	२॥)	"
	सूरदास	२॥)	"
	हिन्दी भारती	४)	रामनारायण लाल
	हिन्दी साहित्य	५)	किताब महल
तथा वाचस्पति त्रिपाठी	सूर-साहित्य की भूमिका	२)	रामनारायण लाल
रामबिलास शर्मा	प्रगति और परम्परा	२।)	किताब महल
	भाषा, साहित्य और		
	संस्कृति	४॥।)	"
	संस्कृति और साहित्य	३॥)	"
रामशंकर जैतजी			
तथा देवर्षि सनाढ्य	मध्यकाल के पाँच श्रेष्ठ कवि	१।)	भारत प्रकाशन मन्डिर
रामेश्वरलाल खखेलवाल	कविता में प्रकृति-चित्रण	४)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस



राहुल सांकृत्यायन लक्ष्मीनारायण लाल	हिन्दी काव्यधारा हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास १०)	८) नेशनल पब्लिशिंग हाउस साहित्य भवन लि० ”
लक्ष्मीसागर वाण्येय लीलाधर गुप्त	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र २।।) पाश्चात्य समालोचना के सिद्धान्त ६)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी ओरिएण्टल बुकडिपो रामनारायण लाल आत्माराम एण्ड सन्स भारती भण्डार ना० प्र० सभा
ब्रजेश्वर वर्मा व्यथितहृदय व्योहार राजेन्द्रसिंह वारणासि राममूर्ति रेणु वासुदेव	सूर-मीमांसा ४।), ३) कहानी-कला और कलाकार २) आलोचना के सिद्धान्त ४) आदान-प्रदान २) गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना ४)	ज्ञान मण्डल लि० किताब महल हिन्दुस्तानी एकेडेमी आत्माराम एण्ड सन्स नेशनल पब्लिशिंग हाउस ”
वासुदेव नन्दन विपिनकुमार त्रिवेदी विमलकुमार जैन	हिन्दी कहानी और कहानीकार ३।।) पंत की काव्य-चेतना में गुंजन ३) चंद्रवरदाई और उनका काव्य ८) सूफ़ीमत और हिन्दी साहित्य ८) हिन्दी-साहित्य-रत्नाकर ५) हिन्दी-साहित्य-रत्नाकर (दूसरा भाग) ५)	” रामनारायण लाल हिन्दी भवन किताब महल ” ”
विश्वनाथप्रसाद आदि विश्वम्भर 'मानव'	भारतेन्दु और उनके नाटक १।) खड़ी बोली के गौरवग्रंथ २।।) महादेवी २।।) सुमित्रानंदन पंत ५) हमारे कवि १)	रामनारायण लाल हिन्दी भवन किताब महल ” ”
वीरेन्द्रकुमार शूक्ल वेदमित्र प्रती	भारतेन्दु का नाट्य-साहित्य ५) कृष्ण-काव्य की रूपरेखा ३।।) रूपक-विकास २।।)	रामनारायण लाल ओरिएण्टल बुकडिपो साहित्यरत्न माला कार्यालय
शचीरानी गुर्दू (सं०)	प्रेमचन्द और गोर्की ६) महादेवी वर्मा ६)	राजकमल प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स
शचीरानी गुर्दू (सं०)	सुमित्रानंदन पंत ६) हिंदी के प्रालोचक ८)	आत्माराम एण्ड सन्स ”

शमशेरबहादुर सिंह	दोआब २)	सरस्वती प्रेस
श्यामनन्दन प्रसाद	गुप्तजी की कृतियाँ २।)	किताब महल
श्याम परमार	मालवी और उसका साहित्य २)	राजकमल प्रकाशन
श्यामसुन्दरदास		
तथा बड़थवाल	तुलसी ४)	ना० प्र० सभा
शांतिप्रिय द्विवेदी	ज्योति-विहग ५)	हि० सा० सम्मेलन
शिवचन्द्र नागर	महादेवी : विचार और व्यक्तिता ३)	किताब महल
शिवदानसिंह चौहान	साहित्य का समन्यायें (प्रेम में)	आत्माराम एण्ड सन्स
	सारित्यानुशीलन ६)	"
शिवनन्दनप्रसाद	हिंदी साहित्य की प्रेरणाएँ और प्रवृत्तियाँ ४)	"
शिवनाथ	अनुशीलन १।)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
	सामासिका २।)	हि० सा० सम्मेलन
	हिंदी नाटकों का विकास २।)	किताब महल
शिवप्रसादसिंह	कीर्तिलता और अरवहट्ट भाषा ५)	"
श्रीकृष्णलाल	मीराँवाई १।)	साहित्य भवन लि०
श्रीहरि	हिंदी का सामान्य ज्ञान २)	हि० सा० सम्मेलन
	हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर ५।।)	किताब महल
शैलकुमारी	आधुनिक हिंदी काव्य में नारी भावना ७)	"
सच्चिदानन्द तिवारी	आधुनिक गीति-काव्य २।)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
सत्यनारायणसिंह	तुलसी और उनका काव्य ।।।)	किताब महल
सत्येन्द्र	हिंदी का मान-मंदिर २)	आत्माराम एण्ड सन्स
संतराम विचित्र	सिद्धान्त और समीक्षा २।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
सरनामसिंह शर्मा	हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव ५)	राजकमल प्रकाशन
सावित्री.सिनहा	मध्यकालीन हिंदी कवियांत्रियाँ ८)	रामनारायण लाल
सिद्धनाथ कुमार	ध्रुवस्वामिनी २।।)	आत्माराम एण्ड सन्स
सिद्धनाथ तिवारी	निर्गुण काव्य दर्शन ५)	किताब महल
सीताराम चतुर्वेदी	मुंशोजी और उनकी प्रतिभा ३)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
		राजकमल प्रकाशन

सुधीन्द्र	हिन्दी कविता में युगान्तर	८)	आत्माराम एण्ड सन्स
सुमन और मल्लिक	साहित्य विवेचन	७)	"
	साहित्य विवेचन के सिद्धान्त	३)	"
सूर्यकान्त	साहित्य-मीमांसा	४)	हिन्दी भवन
हजारीप्रसाद द्विवेदी	कवीर	४।।)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	नाथ संप्रदाय	५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	साहित्य का साथी	१।।)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	सूर साहित्य	३)	हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर
हनुमच्छास्त्री 'अयाचित'	तेलगु और उसका साहित्य	२)	राजकमल प्रकाशन
हरदेव बाहरी	प्राकृत और उसका साहित्य	२)	"
हरवंशलाल शर्मा	सूर और उनका साहित्य	७)	भारत प्रकाशन मन्दिर
	सूर-काव्य की आलोचना	३)	"
हरस्वरूप माथुर	कथाकार जयशंकर प्रसाद	२)	साहित्य निकेतन
	कर्मभूमि समीक्षा	१।।।)	"
	मृगनयनी समीक्षा	१।।)	"
हरिश्चन्द्र खन्ना	रेडियो-नाटक	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
हंसकुमार तिवारी	बंगला और उसका साहित्य	२)	राजकमल प्रकाशन
हंसराज 'रहबर'	प्रेमचन्द : जीवन, कला और		
	कृतित्व	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
हीरालाल तिवारी	हिंदी काव्य दर्शन	६।)	साहित्यरत्न माला कार्यालय

## साहित्य का इतिहास

अमृता प्रीतम	पंजाबी और उसका साहित्य		राजकमल प्रकाशन
	(प्रेस में)		"
उदयनारायण तिवारी	हिंदी भाषा और साहित्य	३)	हि० सा० सम्मेलन
एस० पी० खत्री	अंग्रेजी साहित्य का इतिहास	३)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
कृष्णलाल शरसोदे 'हंस'	मराठी साहित्य का इतिहास	१०)	ना० प्र० सभा
कन्हैयालाल पोद्दार	संस्कृत साहित्य का विकास	४)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
गर्गाँद-साक्षी, (अनु०)	हिंदुई साहित्य का विकास	७)	

गोपीनाथ 'अमन'	उर्दू और उसका साहित्य २)	राजकमल प्रकाशन
ध्रुवधर शर्मा गुलेरी	पुरानी हिन्दी २)	ना० प्र० सभा
त्रिलोकीनारायण दीक्षित	श्रवधी और उसका साहित्य २)	राजकमल प्रकाशन
दयाशंकर शर्मा	अंग्रेजी साहित्य परिचय ४)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
दशरथ ओझा	हिंदी नाटक : उद्भव और विकास ६)	राजपाल एण्ड सन्स
देवीशरण रस्तोगी	हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ६)	"
धीरेन्द्र वर्मा	अष्टछाप १॥)	रामनारायण लाल
ना० बा० गोडबोले	मराठी साहित्य परिचय ३)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
परशुराम चतुर्वेदी	उत्तरी भारत की संत परम्परा १२)	भारती भण्डार
पूर्ण सोम सुंदरम्	तमिल और उसका साहित्य २)	राजकमल प्रकाशन
बलदेव उपाध्याय	भागवत सम्प्रदाय ६)	ना० प्र० सभा
भरतसिंह उपाध्याय	पालि साहित्य का इतिहास १०)	हि० सा० सम्मेलन
भोलानाथ शर्मा (अनु०)	बंगला साहित्य की कथा १॥)	"
रामभवध द्विवेदी	हिन्दी साहित्य के विकास की रूपरेखा ४)	भारती भण्डार
रामकुमार वर्मा	हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास १०)	रामनारायण लाल
	हिन्दी साहित्य का इतिहास ४)	"
तथा त्रिलोकी नारायण दीक्षित	हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास २)	"
रामचन्द्र शुक्ल	हिन्दी साहित्य का इतिहास ७)	ना० प्र० सभा
रामजी उपाध्याय	भारत का प्राचीन साहित्य ॥)	रामनारायण लाल
रामबाबू सक्सेना	उर्दू साहित्य का इतिहास (भाग २) ७॥)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
रामरतन भटनागर	हिन्दी साहित्य की कहानी ३॥)	राजपाल एण्ड सन्स
विजयेन्द्र स्नातक तथा	हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति ३)	आत्माराम एण्ड सन्स
शेमचन्द्र 'सुमन'	अर्द्धशताब्दी इतिहास २॥)	ना० प्र० सभा
वेदवत शास्त्री		

श्याम परमार श्यामसुन्दरदास	मालवी और उसका साहित्य २) हस्त लिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण ३) *हस्त लिखित हिन्दी पुस्तकों का ५० वर्षीय विवरण ॥॥) *हस्त लिखित हिन्दी पुस्तकों के त्रैमासिक खोज विवरण (१६२६ से १६३६ तक) क्रमशः २१), १५), ११), ११) हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष ३) हिन्दी गद्य साहित्य २॥)	राजकमल प्रकाशन ना० प्र० सभा ” ” ” ”
शिवदानसिंह चौहान तथा विजय चौहान श्रीकृष्णलाल तथा करुणापति त्रिपाठी सोमनाथ गुप्त	हीरक जयंती ग्रंथ १०) हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास ४) हिन्दी साहित्य की भूमिका ३॥) बंगला और उसका साहित्य २) तेलगु और उसका साहित्य २) प्राकृत और उसका साहित्य २) उर्दू साहित्य परिचय ६) भारतीय वाङ्मय (संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश) भारतीय वाङ्मय (हिन्दी तथा उर्दू) १॥) भारतीय वाङ्मय (बंगला, उड़िया, असमिया) २)	राजकमल प्रकाशन ” ना० प्र० सभा हिन्दी भवन हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर राजकमल प्रकाशन ” ” गयाप्रसाद पण्डित सन्स राष्ट्रभाषा प्र० समिति ” ”
हजारीप्रसाद द्विवेदी हंसकुमार तिवारी हनुमच्छात्री 'अयाचित' हरदेव बाहरी हरिशङ्कर शर्मा		

# लोकसाहित्य

आदर्शकुमारी यशपाल	ब्रज की लोक कथाएँ १)	आत्माराम एण्ड सन्स
के० राजशेषगिरि राव	आंध्र की लोककथाएँ १॥)	"
कृष्णदेव उपाध्याय (सं०)	भोजपुरी लोकगीत (भाग १) ५)	हि० सा० सम्मेलन
	भोजपुरी ग्रामगीत (भाग २) ११)	"
कृष्णलाल 'हंस'	निमाड़ीकी लोककथाएँ (१) १॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
	निमाड़ीकी लोककथाएँ (२) १॥)	"
गोपालकृष्ण कौल	अवध की लोककथाएँ १॥)	"
गोविन्द 'चातक'	गढ़वाल की लोककथाएँ १॥)	"
	नेपाल की लोककथाएँ १॥)	"
चन्द्रकुमार	छत्तीसगढ़ की लोककथाएँ १॥)	"
जगन्नाथ शर्मा	अरब की लोककथाएँ १॥)	"
	जर्मनी की लोककथाएँ १॥)	"
दुर्गाशङ्करप्रसाद सिंह	भोजपुरी लोकगीतों में	
	कवण रस ६)	हि० सा० सम्मेलन
देवेन्द्र सत्यार्थी	धरती गातो है (अप्राप्य)	राजकमल प्रकाशन
	धीरे बहो गंगा ६)	"
	बाजत आवे ढोल ७)	"
नन्दलाल चत्ता	काश्मीर की लोककथाएँ	
	(भाग १) १)	आत्माराम एण्ड सन्स
	काश्मीर की लोककथाएँ	
	(भाग २) १॥)	"
	मनोरंजक लोककथाएँ	
	(भाग १) १)	"
	मनोरंजक लोककथाएँ	
	(भाग २) १)	"
	लोककथाएँ ॥)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
पंढी तथा बेदी	पञ्जाब की लोककथाएँ १)	आत्माराम एण्ड सन्स
प्रभाकर माधवे	महाभारत की लोककथाएँ १॥)	"

प्यारेलाल बेदिल	उज्जैन की लोककथाएँ १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
प्रवासीलाल वर्मा	देश-विदेश की लोककथाएँ १॥	”
	सौराष्ट्र की लोककथाएँ १॥	”
पुरुषोत्तम मेनारिया	राजस्थान की लोककथाएँ १॥	”
मन्मथनाथ गुप्त	फ्रांस की लोककथाएँ १॥	”
	बंगाल की लोककथाएँ १॥	”
महेन्द्रप्रसाद मित्तल	चीन की लोककथाएँ १॥	”
राघवाचार्य	मधुकण (मैथिली) ॥	श्रीअजन्ता प्रेस
राजाराम शास्त्री	हरियाणा की लोककथाएँ १॥	”
रामहृकबाल सिंह	मैथिली लोकगीत ४॥	हि० सा० सम्मेलन
रामनरेश त्रिपाठी	ग्राम साहित्य (भाग १) ४	आत्माराम एण्ड सन्स
	ग्राम साहित्य ६	”
	घाघ और भडुरी १॥	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
रामबाबू वर्मा	देश-विदेश की लोककथाएँ १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
श्याम परमार	भारतीय लोक साहित्य ३॥	राजकमल प्रकाशन
	मालवी लोककथाएँ १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
शिवमूर्तिसिंह वस्त्र	श्रवध की लोककथाएँ (२) १॥	”
	श्रवध की लोककथाएँ (३) १॥	”
शिवसहाय चतुर्वेदी	पाषाण नगरी ३॥	राजकमल प्रकाशन
श्रीकान्त व्यास	काश्मीर की लोककथाएँ १॥	किताब महल
	कुमाऊँ की लोककथाएँ १॥	”
	गुजरात की लोककथाएँ १॥	”
	पंजाब की लोककथाएँ १॥	”
	बंगाल की लोककथाएँ १॥	”
	बुंदेलखण्ड की लोककथाएँ १॥	”
श्रीचन्द्र जैन	बुंदेलखण्ड की लोककथाएँ १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	विन्ध्य प्रदेश के लोकगीत ॥=॥	राजपाल एण्ड सन्स
तथा श्रीवास्तव	विन्ध्य-भूमि के लोकगीत १	आत्माराम एण्ड सन्स
सन्तराम वस्त्र	हिमाचल की लोककथाएँ १॥	आत्माराम एण्ड सन्स
सावित्री देवी वर्मा	उत्तरभारत की लोककथाएँ (१) १॥	”

सावित्री देवी वर्मा

उत्तर-भारत की

लोक कथाएँ (२) १॥

आत्माराम एण्ड सन्स

उत्तर-भारत की

लोक कथाएँ (३) १॥

,,

सूर्यकरण पत्रीक

राजस्थानी लोकगीत १॥

हि० सा० सम्मेलन

हरिमोहन झा

खट्टर ककाक तरंग

(मैथिली) १॥

श्रीधजन्ता प्रेस

हंसराज 'रहबर'

चीन की लोककथाएँ १॥

आत्माराम एण्ड सन्स

रूस की लोककथाएँ १॥

,

हमारी लोककथाएँ (१) १॥

,,

हमारी लोककथाएँ (२) १॥

,,

विविध

थेरी गाथाएँ १॥

सस्ता साहित्य मण्डल

हमारी कथाएँ १॥

,,

## संस्कृत-वाङ्मय

आनन्द (अनु०)

हितोपदेश २॥

राजपाल एण्ड सन्स

आर० भट्ट (सं०)

अभिज्ञान शाकुंतल १॥

रामनारायण लाल

इन्द्र विद्यावाचस्पति

किरातार्जुनीय (अनु०) २॥

राजपाल एण्ड सन्स

रघुवंश ३॥

,,

एस० एन० व्यास

संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण २॥

ओरिएण्टल बुकडिपो

कपिलदेव द्विवेदी (सं०)

प्रतिभा नाटकम् ३॥

रामनारायण लाल

गंगाधर इन्दूकर (अनु०)

नागानन्द ॥=

हि० सा० सम्मेलन

प्रियदर्शिका ॥=

,,

रत्नावली ॥=

,,

चण्डीप्रसाद 'हृदयेष'

रघुवंश, द्वितीय तथा त्रयोदश

सर्ग प्रत्येक १॥, शेष १॥

रामनारायण लाल

चन्द्रबली पांडेय

शूद्रक : राजा और कवि ४॥

मोतीलाल बनारसीदास

चन्द्रशेखर शास्त्री (सं०)

नीति-रत्न-माला ॥=

रामनारायण लाल



चूडामणि शास्त्री	संस्कृत-सुधा	१॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
तरणीश का (स०)	भोज-प्रबन्ध	२)	रामनारायण लाल
निरञ्जनदेव शर्मा (अनु०)	दशकुमार चरित	५॥)	राजकमल प्रकाशन
प्रभुदयाल अग्निहोत्री (अनु०)	मृच्छ कटिक (मिट्टी की गाड़ी)	२॥)	सुपमा साहित्य मन्दिर
बालमुकुन्द गुप्त (स०)	वैराग्य शतकम्	१)	रामनारायण लाल
भगवतशरण उपाध्याय	कादम्बरी	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	भास के तीन नाटक	२)	"
भगवानदीन 'दीन' (अनु०)	मालविकाग्नि-मित्र भाषा	॥)	रामनारायण लाल
महेन्द्रप्रताप शास्त्री (स०)	कुमार-संभव	१)	"
मुरलीधर दीक्षित तथा चौबे	किरातार्जुनीय	२॥)	सुपमा साहित्य मन्दिर
मोतीचन्द (अनु०)	पञ्चतन्त्र	४॥)	राजकमल प्रकाशन
रामकृष्ण शुक्ल (टीका)	विश्रुत चरितम्	१॥)	रामनारायण लाल
रामचन्द्र शुक्ल (स०)	उरुभङ्गम्	॥)	"
रामप्रताप त्रिपाठी (अनु०)	शिशुपाल वध	८)	हि० सा० सम्मेलन
रामप्रियदेव भट्ट (टीका)	शिशुपाल वधम्	१॥॥)	रामनारायण लाल
लक्ष्मणसिंह (अनु०)	शकुंतला नाटक	१॥)	"
वासुदेवशरण अग्रवाल	मेघदूत (मूल सहित)	४)	राजकमल प्रकाशन
विनयमोहन शर्मा (अनु०)	गोत-गोविंद (सचित्र पद्यानुवाद)	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
विराज	अभिज्ञान शाकुंतल	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	कुमार सम्भव	३)	"
वी० पी० शर्मा (स०)	नीति शतकम्	२)	रामनारायण लाल
	नीति शतकम्	॥॥)	"
	स्वप्न वासवदत्तम्	२॥)	"
शांतिकुमार (अनु०)	वाल्मीकि रामायण	२॥)	नवयुग साहित्य सदन
सत्यकाम विद्यालंकार	पंचतंत्र	३॥)	राजपाल एण्ड सन्स
	मेघदूत	२)	"
सत्यजीवन वर्मा (स०)	काव्य कलानिधि अर्थात् हिन्दी नैषध चरित	३॥)	हि० सा० सम्मेलन
साधुराम (अनु०)	नागानन्दम्	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
	मेघ-दूत (पूर्वमेघ)	२॥)	"

सीताराम (लाला)	महावीर-चरित्र भाषा ॥॥	रामनारायण लाल
	मालती-माधव भाषा ॥=	"
	मुच्छ्र-कटिक भाषा ॥=	"
हरदयालुसिंह (अनु०)	प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, ॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	भास के तीन नाटक ॥=	"
	स्वप्नवासवदत्ता ॥॥	"
हरिदत्त शास्त्री (अनु०)	दशकुमार चरित (संचित) १॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
श्रीपीरवरनाथ भट्ट	कादम्बरी ५)	भारती भण्डार
	दशरूपक—हिन्दी टीका, व्याख्या सहित ५॥॥ ६)	" साहित्य निकेतन

## भाषाविज्ञान

उदयनारायण तिवारी	हिन्दी भाषा का उद्भव और विकास ११)	भारती भण्डार
एल० पी० वेरिसतोरी	पुरानी राजस्थानी ४)	ना० प्र० सभा
कपिलदेव द्विवेदी	अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन १२)	हिंदुस्तानी एकेडेमी
कृष्णचन्द्र शर्मा तथा देवीशरण रस्तोगी	भाषाविज्ञान-दर्शन १॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
गनपत वर्मा	हिन्दी राष्ट्रभाषा २)	रामनारायण लाल
गोपाललाल खन्ना	हिन्दी का सरल भाषा- विज्ञान २॥)	ना० प्र० सभा
गौ० ही० ओझा तथा केशव मिश्र	नागरी अक्षर और अक्षर ॥=)	हि० सा० सम्मेलन
धीरेन्द्र वर्मा डॉ०	ग्रामीण हिन्दी १॥॥	साहित्य भवन लि०
	ब्रजभाषा ६)	हिंदुस्तानी एकेडेमी
	हिन्दी भाषा और लिपि १)	"
	हिन्दी भाषा का इतिहास ८)	"

नलिनी मोहन सान्याल	बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति और विकास ॥१)	रामनारायण लाल
नामवर सिंह	हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग ५)	साहित्य भवन लि० हिंदुस्तानी एकेडेमी
पद्मसिंह शर्मा	हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी २॥१)	हि० सा० सम्मेलन
बाबूराम सक्सेना	दक्खिनी हिंदी ३)	किताब महल
भोलानाथ तिवारी	सामान्य भाषाविज्ञान ६)	राजकमल प्रकाशन
	भाषाविज्ञान ५)	हि० सा० सम्मेलन
	शब्दों का जीवन २)	ना० प्र० सभा
भोतोलाल मेनारिया	राजस्थानी भाषा और साहित्य ६)	हिन्दी भवन
राममूर्ति मेहरोत्रा	भाषाविज्ञान-सार २)	राजकमल प्रकाशन
शिवनाथ	हिंदी कारकों का विकास २॥१)	किताब महल
सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या	भारत की भाषायें और भाषा सम्बन्धी समस्याएँ ३)	हिन्दी भवन
	भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी ६)	राजकमल प्रकाशन
स्वर्णलता अग्रवाल	हिन्दी भाषा और लिपि ॥१)	किताब महल

## व्याकरण, रचना तथा मुहावरे

एम० के० सरकार तथा गोकुलचन्द्र सन्त	व्याकरण प्रदीप (बी० ए० संस्करण) ५॥१)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	व्याकरण प्रदीप (मैट्रिक संस्करण) २॥१)	ना० प्र० सभा
कामताप्रसाद गुरु	प्रथम हिन्दी व्याकरण ॥१)	हि० सा० सम्मेलन
	संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण १॥१)	किताब महल
	हिन्दी व्याकरण ७)	राजकमल प्रकाशन
किशोरीदास वाजपेयी	लेखन-कला १॥१)	किताब महल

कृष्णलाल वर्मा	सरल हिन्दी व्याकरण रचना बोध १॥=)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
चन्द्रमौलि सुकुल	रचना तथा व्याकरण १॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
जगमोहन वर्मा	आर्ष प्राकृत व्याकरण ॥)	ना० प्र० सभा
जीवननाथ तथा धर्मपाल	सुगम हिंदी व्याकरण १॥॥) १॥॥॥)	राजपाल एण्ड सन्स
धर्मचन्द्र सन्त	नवीन लोकोक्तियाँ और मुहावरे १॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
धीरेन्द्र वर्मा	ब्रजभाषा का व्याकरण २॥॥)	रामनारायण लाल
बाबूराम सक्सेना	ब्रजभाषा व्याकरण १॥॥)	”
यज्ञदत्त शर्मा	संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका ५)	रामनाथण लाल
रामचन्द्र वर्मा	आदर्श पत्र लेखन ७॥॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
रामनरेश त्रिपाठी	अच्छी हिन्दी ३)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
शिवपूजन सहाय	हिन्दी प्रयोग १॥॥)	”
सन्तगोकुलचन्द्र	हिन्दी मुहावरे १)	आत्माराम एण्ड सन्स
	व्याकरण दर्पण २)	अशोक प्रेस
	आदर्श हिंदी व्याकरण २)	”
	आदर्श हिन्दी व्याकरण तथा रचना २॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	नवीन लोकोक्तियाँ और मुहावरे १॥॥)	नवयुग साहित्य सदन
तथा गणपत राय	मैनुअल आफ् संस्कृत ग्रामर (मिडिल संस्करण) १)	ओरिएण्टल बुकडिपो
हरिदत्त शास्त्री तथा	रचना-रत्नाकार १॥॥॥)	रामनारायण लाल
बुद्धिनाथ शर्मा	मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण १)	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
विविध	मुहावरे और कहावतें ॥॥॥)	”
	राष्ट्रभाषा का व्याकरण १)	”
	राष्ट्रभाषा का सरल व्याकरण (२ भाग) ॥=), ॥॥॥)	”
	राष्ट्रभाषा रचना (तीन भाग) क्रमशः ॥॥), ॥॥॥), ॥॥॥)	”

## काव्य-शास्त्र : रस, छन्द तथा अलंकार

अवध उपाध्याय	नवीन पिंगल	१॥॥	साहित्य भवन लि०
अशोककुमार सिंह	काव्य के वाद	२)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	काव्य सम्प्रदाय	३)	"
	काव्य सम्प्रदाय और वाद	४॥॥	"
आर्येन्द्र शर्मा	अलंकार-प्रकाश और पिंगल		
	कौमुदी	॥॥	हि० सा० सम्मेलन
कन्हैयालाल पोद्दार	संक्षिप्त अलंकार मञ्जरी	२)	"
चन्द्रशेखर शास्त्री	अलङ्कार परिचय	॥=)	रामनारायण लाल
	प्रथमालङ्कार-निरूपण	१=)	हि० सा० सम्मेलन
चन्द्रशेखर शास्त्री तथा			
रामचन्द्र शुक्ल 'सरस'	काव्य परिचय	१)	"
जसवंत सिंह (महाराजा)	भाषा-भूषण	॥॥)	"
नगेन्द्र डॉ०	भारतीय काव्य-शास्त्र की		
	परम्परा	१५)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
	भारतीय काव्य-शास्त्र की		
	भूमिका	१०)	ओरिएण्टल बुकडिपो
प्रभात शास्त्री	काव्याङ्ग-कल्पद्रुम	॥॥)	हि० सा० सम्मेलन
परमानन्द	पिंगल-पीयूष	२॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
पुत्तनलाल विद्यार्थी तथा			
लक्ष्मीधर शुक्ल	सरल पिंगल	॥॥	हि० सा० सम्मेलन
पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी			
(अनु०)	हिंदी रस-गंगाधर	८)	ना० प्र० सभा
भगवानदीन 'दीन'	अलंकार-मञ्जूषा	२)	रामनारायण लाल
रघुनन्दन शास्त्री	हिंदी छंद-प्रकाश	४)	राजपाल एण्ड सन्स
रामचन्द्र शुक्ल	रस-मीमांसा	७)	ना० प्र० सभा
रामचन्द्र शुक्ल 'सरस'	सरस पिंगल	॥॥)	रामनारायण लाल
रामबहोरी शुक्ल	काव्य-प्रदीप	३॥)	हिन्दी भवन
रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल'	अलंकार-पियूष	२॥॥)	रामनारायण लाल

चिरवेरवर	हिंदी काव्यालङ्कार-सूत्र १२)	आत्माराम एण्ड सन्स
	हिंदी वक्रोक्ति-जीवितम १६)	"
शांतिलाल बालेन्दु	हिंदी काव्य-शास्त्र ४)	साहित्य भवन लि०
संसारचन्द्र	छंदोलङ्कार मञ्जरी २)	मोतीलाल बनारसीदास
हरिमंगल मिश्र (अनु०)	काव्य प्रकाश ६)	हि० सा० सम्मेलन
हरिशङ्कर शर्मा	रस रत्नाकर ५)	रामनारायण लाल

## कोश तथा सदर्भ-ग्रंथ

आर० जे० (सं०)	हिंदी मुहावरा कोश ३)	रामनारायण लाल
एस० सी० सेन गुप्त (सं०)	प्रत्यक्ष शरीर कोष ८)	हिन्दी सा० सम्मेलन
	भूतत्व-विज्ञान कोष २॥)	"
कांतानाथ गर्ग (सं०)	वाणिज्य शब्द कोष १॥)	किताब महल
केदारनाथ भट्ट (सं०)	अभिनव अंग्रेजी-हिंदी कोष ७॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	हिंदी-उर्दू कोष ८)	रामनारायण लाल
जी० डी० व्यास (सं०)	युगुल कोष ४)	"
धीरेन्द्र वर्मा आदि (सं०)	तुलसी-शब्द सागर १२)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
ब्रजकिशोर मालवीय (सं०)	जीव-रसायन कोष ६)	हि० सा० सम्मेलन
भोलानाथ तिवारी (सं०)	वृहत् पर्यायवाची कोष ७॥)	किताब महल
	संक्षिप्त हिन्दी कोष ३)	"
	हिंदी मुहावरा कोष ७॥)	"
	हिंदी साहित्य की अंतर्कथायें २॥)	"
माताप्रसाद गुप्त (सं०)	हिंदी पुस्तक साहित्य १०)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव (सं०)	पारिभाषिक शब्द कोष ४)	ज्ञानमण्डल लि०
	ज्ञान शब्द कोष १२)	"
रघुपतिसहाय 'फिराक' (सं०)	उपयोगी हिंदी कोष २)	न्यू लिटरेचर

राजवल्लभसहाय			
आदि (सं०)	बृहत् हिंदी कोष	२०)	ज्ञानमण्डल लि०
राजेन्द्र द्विवेदी (सं०)	साहित्य-शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष	८)	आत्माराम एण्ड सन्स
रामचंद्र वर्मा (सं०)	देवनागरी उर्दू-हिन्दी कोष ४॥)		हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	प्रामाणिक हिंदी कोष १२॥)		साहित्यरत्न माला कार्यालय
	संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर १५)		ना० प्र० सभा
रामशंकर शुक्ल (सं०)	भाषा शब्दकोष	१२)	रामनारायण लाल
रामाज्ञा द्विवेदी (सं०)	अवधी कोष	७॥)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
राहुल सांकृत्यायन (सं०)	संक्षिप्त राष्ट्रभाषा कोष	५)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
तथा अन्य (सं०)	शासन शब्दकोश	१५)	हि० सा० सम्मेलन
रूपलाल वैश्य (सं०)	रूप निबंध (२ भाग) प्रत्येक	१॥)	ना० प्र० सभा
व्यथित हृदय (सं०)	लोकोक्तियाँ कोष	॥)	रामनारायण लाल
श्यामसुन्दरदास	हिन्दी शब्द सागर		
आदि (सं०)	भाग २, ३, ४, ६	४५)	ना० प्र० सभा
सत्यप्रकाश (सं०)	समाचारपत्र शब्दकोष	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
सिद्धिनाथ दीक्षित (सं०)	सम्मेलन के रत्न	५)	"
हरिशंकर शर्मा (सं०)	अभिनव हिन्दी कोष	८)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	हिन्दुस्तानी कोष	६)	"
	राष्ट्रभाषा कोश	५)	राष्ट्र भाषा प्र० समिति
	स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी (हिन्दी-अंग्रे०)	२॥)	रामनारायण लाल
	स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी (अंग्रेजी-हिन्दी)	२॥)	"
	स्टूडेंट्स होम डिक्शनरी (अंग्रे०-हिन्दी)	२॥)	"
	स्टूडेंट्स होम डिक्शनरी (हिन्दी-अंग्रे०)	२॥)	रामनारायण लाल
	हिंदी कथाकोष	३)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी

# पत्र-पत्रिकाएँ

उपेन्द्रनाथ अशक आदि(सं०) संकेत (वार्षिक संकलन) १५)	नीलाभ प्रकाशन
ऑप्रकाश (सं०) प्रकाशन समाचार (मासिक), वार्षिक २॥)	राजकमल प्रकाशन
जगदीश गुप्त तथा नयी-कविता (१ व २)	
रामस्वरूप चतुर्वेदी (सं०) प्रत्येक का २)	राजकमल प्रकाशन
बन्दुलारे वाजपेयी (सं०) ग्रलोचना (त्रैमासिक), वार्षिक १२)	"
आलोचना का आलोचना विशेषांक ५)	"
आलोचना का इतिहास विशेषांक तथा इतिहास शेषांक ८)	"
आलोचना का उपन्यास विशेषांक ५)	"
धर्मवीर भारती तथा निकर्ष (अर्द्ध वार्षिक संकलन)	
लक्ष्मीकान्त वर्मा (सं०) प्रत्येक ३)	साहित्य भवन लि०
रामचन्द्र टंडन (सं०) हिंदुस्तानी (हिंदुस्तानी एकेडेमी को त्रैमासिक पत्रिका) १) से २) तक प्रत्येक अंक	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
रामनाथ सुमन (सं०) सम्मेलन पत्रिका (त्रैमासिक) वार्षिक ८), विद्यार्थियों के लिए ६)	हि० सा० सम्मेलन
सम्मेलन-पत्रिका : लोकसंस्कृति विशेषांक ५)	"
श्रीपतराय आदि (सं०) कहानी(मासिक), वार्षिक ५॥)	सरस्वती प्रेस
कहानी विशेषांक, जनवरी १९५५ २॥)	"
कहानी विशेषांक, जुलाई १९५५ १)	"



श्रीपतराय आदि (सं०) कहानी विशेषांक,  
जनवरी, १९५६ २)  
नागरी प्रचारिणी पत्रिका  
(त्रैमासिक) वार्षिक १०)

सरस्वती प्रेस  
”

ना० प्र० सभा

## पुरातत्त्व, इतिहास तथा संस्कृति

अर्जुन चौबे करयप अब्दुल्ला यूसुफ अली	आदि भारत मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था, (अप्राप्य)	११)	ज्ञानमण्डल लि० हिन्दुस्तानी एकेडेमी
इन्द्र विद्यावाचस्पति	भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त ७) मुगल-साम्राज्य का क्षय और उसके कारण, (२ भाग) क्रमशः ४॥), २॥)	७)	आत्माराम एण्ड सन्स
एल० नटराजन कमलापति त्रिपाठी काशीप्रसाद जायसवाल	भारत के किसान विद्रोह ॥॥) मौर्यकालीन भारत २) अंधकारयुगीन भारत ३॥)	॥॥) २) ३॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ना० प्र० सभा ”
काशीप्रसाद श्रीवास्तव केशवचन्द्र मिश्र	खारवेल प्रशस्ति १) नेपाल की कहानी (सचित्र) ८) चंदेल और उनका राजत्वकाल ८)	१) ८) ८)	” आत्माराम एण्ड सन्स ना० प्र० सभा ”
गोपालदास (अनु०)	प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास (४ भाग) ५)	५)	”
गोरेखाळ तिवारी	बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास ३)	३)	”
गोविन्ददास गौरीशङ्कर चटर्जी गौ० ही० ओझा	पृथ्वी-परिक्रमा, (सचित्र) १२) हर्षवर्द्धन ७॥) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति ३)	१२) ७॥) ३)	आत्माराम एण्ड सन्स हिन्दुस्तानी एकेडेमी ”

तथा श्यामसुन्दरदास	अशोक की धर्म लिपियाँ ३)	ना० प्र० सभा
जयचन्द्र विद्यालङ्कार	इतिहास प्रवेश ८)	हिन्दी भवन
	भारतीय इतिहास की रूपरेखा, (२ भाग) (अप्राम्य)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	लघु इतिहास प्रवेश ५)	हिन्दी भवन
जवाहरलाल नेहरू	विश्व इतिहास की मूलक २१)	सस्ता साहित्य मण्डल
	संक्षिप्त हिन्दुस्तान की कहानी ५)	"
दिनकर	संस्कृति के चार अध्याय १५)	राजपाल एण्ड सन्स
देवदत्त शास्त्री	कोशाम्बी के अन्तःपुर का कला विकास २॥)	किताब महल
देवेशदास	रजवाड़ा (सचित्र) ५)	आरमाराम एण्ड सन्स
नन्दकुमार देव शर्मा	सिक्खों का उत्थान और पतन १॥)	ना० प्र० सभा
परमानन्द	भारतवर्ष का इतिहास ८)	ज्ञानमण्डल लि०
परमेश्वरीलाल गुप्त	पुरातत्व परिचय १॥)	किताब महल
	भारतीय वास्तुकला २)	ना० प्र० सभा
प्राणनाथ	मुद्राशास्त्र २॥)	"
	रोम का इतिहास १॥)	"
पारसनाथ सिंह	जगत सेठ ५)	भारती भण्डार
पालब्रंटन	गुप्त भारत की खोज ५)	"
ब्रजनन्दनप्रसाद मिश्र	यूनान का इतिहास ॥॥)	ना० प्र० सभा
ब्रजरत्नदास (अनु०)	मुगल-दरबार या मन्नासिरुल उमरा (४ भाग) क्रमशः ४), ४), ५, ५)	"
	हुमायूँ नामा २॥)	"
बल्लदेवप्रसाद मिश्र	भारतीय संस्कृति २॥)	रामनारायण लाल
बांकेबिहारीशरण	आधुनिक भारत का इतिहास ४)	श्रीब्रजन्ता प्रेस
बेनीप्रसाद	हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता ८)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
बैजनाथ पुरी	पुरातत्व विज्ञान १॥)	किताब महल
भगवतशरण ढपाध्याय	बुर्जियों के पीछे ३)	"

भगवतशरण उपाध्याय	भारतीय इतिहास के आलोक- स्तम्भ (भाग १) ४)	किताब महल
	भारतीय इतिहास के आलोक- स्तम्भ (भाग २) ५)	"
	मैंने देखा ५)	"
	सभ्य मानव का इतिहास २॥॥)	"
	साम्राज्यों का उत्थान और पतन २॥॥)	"
	सांस्कृतिक भारत ३॥॥)	राजपाल एण्ड सन्स
भगवतीप्रसाद पांथरी	अशोक ४)	किताब महल
	मुगल राजमहलों का जीवन १॥)	"
भद्रत आनंद कौसल्यायन मन्न द्विवेदी	महावंश ४)	हि० सा० सम्मेलन
	मुसलमानी राज्य का इतिहास (२ भाग) प्रत्येक १॥॥)	ना० प्र० सभा
महता पृथ्वीसिंह	हमारा राजस्थान ६)	हिन्दी भवन
महावीर अधिकारी	भारत का चित्रमय इतिहास ६)	आत्माराम एण्ड सन्स
मुनि कान्तिसागर	भ्रमण संस्कृति और कला २)	सुषमा साहित्य मन्दिर
मुल्कराज आनन्द	इन्सान की कहानी २॥॥)	राजकमल प्रकाशन
	हिंदुस्तान की कहानी २)	"
मोतीचन्द	प्राचीन भारतीय वेशभूषा १२)	भारती भण्डार
यदुनाथ सरकार	औरङ्गजेब ७॥॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	शिवाजी २॥॥)	"
रघुवीरसिंह	रतलाम का प्रथम राज्य १०)	राजकमल प्रकाशन
रजनीकान्त	हिंदू जाति का उत्थान और पतन ५)	किताब महल
रतिभानुसिंह नाहर	प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास १०)	"
रांगेय राघव	प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास १२)	आत्माराम एण्ड सन्स
राजेन्द्रप्रसाद	चम्पारन में गाँधी (सचित्र) ५)	आत्माराम एण्ड सन्स
राधाकुमुद मुकर्जी	हिन्दू सभ्यता ६॥॥)	राजकमल प्रकाशन

राधाकृष्ण चौधरी	विश्व इतिहास की रूपरेखा (दो भाग) ६)	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
राधाकृष्ण शर्मा	ग्रेटब्रिटेन का आधुनिक इतिहास ४)	किताब महल
रामचन्द्र वर्मा (अनु०)	प्राचीन मुद्राशास्त्र २॥)	ना० प्र० सभ
रामजी उपाध्याय	भारत को प्राचीन संस्कृति ७॥)	किताब महल
रामनारायण दूगड	भारतीय संस्कृति का उत्थान २॥)	रामनारायण लाल
	गुहणोत्त नैणसी की ख्यात (२ भाग) ३॥), ४)	"
रायकृष्ण दास	प्राचीन भारतीय मूर्ति कला ३॥)	ना० प्र० सभा
	भारत की चित्रकला ८)	भारती भण्डार
राविन्सन	पश्चिमी यूरोप ४)	ज्ञानमण्डल लि०
व्योहार राजेन्द्रसिंह	त्रिपुरी का इतिहास ३॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
वासुदेव उपाध्याय	पूर्व-मध्यकालीन भारत ६)	भारती भण्डार
	भारतीय गौरव ३)	"
	भारतीय सिक्के ५)	"
वासुदेवशरण अग्रवाल	कला और संस्कृति ४॥)	साहित्य भवन लि०
	भारत की मौलिक एकता ४)	भारती भण्डार
विरवेश्वरनाथ रेड	मध्यप्रदेश का इतिहास और नागपुर के भोंसले २)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	राजाभोज १०)	हिन्दुरतानी एकेडेमी
श्यामकिशोर मालवीय	भारत का राष्ट्रीय इतिहास २॥)	किताब महल
शालिग्राम श्रीवास्तव	प्रयाग-प्रदोष ६)	हिन्दुरतानी एकेडेमी
शिवदत्त ज्ञानी	भारतीय-संस्कृति ५)	राजकमल प्रकाशन
शिवदानसिंह चौहान	काश्मीर, देश व संस्कृति, (अप्राप्य)	"
श्रीगोपाल	भारतीय संस्कृति १॥)	हि० सा० सम्मेलन
श्रीनिवास चारी	आधुनिक भारत ३)	रामनारायण लाल
	प्राचीन भारत ३)	"
	मध्यकालीन भारत ३)	"
	मुगल भारत ३)	"
श्रीप्रकाश	भारत के समाज और इतिहास पर स्फुट विचार १)	साहित्य निकेतन

श्रीपाद बाँगे	भारत (आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक) का इतिहास ३॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
शेषमणि त्रिपाठी	अकबर की राज्य व्यवस्था २॥)	हि० सा० सम्मेलन
सत्यकेतु विद्यालंकार	पाटलीपुत्र की कथा १०)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
सतीशचन्द्र काळा	मोहेंजोदड़ो ३)	ना० प्र० सभा
	सिंधु सभ्यता ५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
सम्पूर्णानन्द	आर्यों का आदि देश ३)	भारती भण्डार
सीताराम (लाला,	अयोध्या का इतिहास ६)	,,
सीताराम कोहली	रणजीतसिंह (यन्त्रस्थ)	,,
सूर्यकुमार वर्मा	जर्मनी का विकास १॥)	ना० प्र० सभा
सैयदसुखेमान नदवी	अरब और भारत के सम्बन्ध ८)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
सोहनलाल	अतीत स्मृतियाँ ११=)	नवयुग साहित्य सदन
हजारीप्रसाद द्विवेदी	प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद १॥१)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	भारत का सांस्कृतिक इतिहास ६)	आत्माराम एण्ड सन्स
	भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय १)	,,
हरिदत्त वेदालंकार	भारतीय संस्कृतिक का संक्षिप्त इतिहास ३)	,,
	काबूर १)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
हरिमाऊ उपाध्याय (अनु०)	मध्यका नीन भारत २॥)	किताब महल
हरिशङ्कर	मध्यप्रदेश का इतिहास १॥)	ना० प्र० सभा
हीरालाल	संस्कृति संगम २॥)	साहित्य भवन लि०
श्रितिमोहन सेन	पुरातत्त्व प्रसंग १)	साहित्य सदन
विविध		

## समाजशास्त्र

कैलाशनाथ शर्मा	समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत ४॥)	किताब महल
जगदीशसिंह	हमारे रीति-रिवाज ३॥)	नेशनल पब्लिशिंग हाउस
जोसेफ स्तालिन	मार्क्सवाद और जातियों का प्रश्न ॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
परिपूर्णानन्द	प्राणदण्ड ५)	मयूर प्रकाशन
ब्रजरत्नदास	व्रतोत्सव मंजरी २॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मन्मथनाथ गुप्त	प्राचीन लोकोत्सव २॥)	साहित्य भवन लि०
मोती बाबू	हिन्दू धिवाह विधि ३)	रामनारायण लाल
शरच्चन्द्र चटोपाध्याय	नारी का मूल्य १=)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
शर्मा एवं त्रिपाठी	पारिवारिक समाजशास्त्र ३॥)	किताब महल
सरयूप्रसाद चौबे	समाज-शास्त्र का परिचय ३)	रामनारायण लाल
साने गुरुजी	भारतीय संस्कृति ३॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
सुरेश्वर पाठक	हम और हमारा समाज २॥)	किताब महल
हरिदत्त वेदाङ्गार	हिन्दू परिवार मीसांसा १०)	भारती भण्डार
श्रितिमोहन सेन	भारतवर्ष में जाति भेद २॥)	साहित्य भवन लि०

## राजनीति तथा नागरिकशास्त्र

अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी	चीन और भारत १॥)	ज्ञानमण्डल लि०
	हिन्दू राजशास्त्र ५)	हि० सा० सम्मेलन
अनन्त सदाशिव अल्लतेकर	प्राचीन भारतीय शासन पद्धति ५)	भारती भण्डार
इन्द्र	भारत का सचित्र संविधान २)	आत्माराम एण्ड सन्स



ए० अम्पादोराय	राजनीति सार (प्रेस में)		
एंजेल्स, लेनिन व स्तालिन	कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धान्त	१)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
एम० डी० कम्भारी	समाजवाद और व्यक्ति	॥)	"
एमिल बर्न्स	मार्क्सवाद क्या है	१)	"
एल० नटराजन	भारत पर अमरीकी फंदा	३)	"
एलेक्जेंडर ट्रेवटन वर्ग	मई दिवस का इतिहास	१=)	"
कार्लमार्क्स	भारत सम्बन्धी लेख	१=)	"
	मजूरी और पूँजी	॥)	"
काशीप्रसाद जायसवाल	हिन्दू राजतन्त्र (२ भाग)		
	क्रमशः ४), २)		ना० प्र० सभा
के० आर० बरबवाल	नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त ३॥)		आत्माराम एण्ड सन्स
	भारतीय राजनीति और शासन	८॥)	"
के० सी० न्हीयर	आधुनिक संविधान	३)	राजकमल प्रकाशन
क्रोपाटकिन	रोटी का उवाल	३)	न्यू लिटरेचर
कृष्णकांत मालवीय	विश्व का राजनैतिक भविष्य	२)	सुषमा साहित्य मन्दिर
गुप्ता तथा चतुर्वेदी	पश्चात्य राजदर्शन का इतिहास	८॥॥)	किताब महल
गुर्ती सुब्रह्मण्य	बीसवीं सदी की राजनैतिक विचार धाराएँ	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
गुरुमुख निहालसिंह	भारत का वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय विकास	१०)	आत्माराम एण्ड सन्स
गोरखनाथ चौबे	आधुनिक भारतीय शासन	५)	रामनारायण लाल
	नागरिकशास्त्र की विवेचना	४)	"
	राजनीति सिद्धान्त	४॥)	"
चन्द्रभाल जौहरी	यूरोप की सरकारें (अप्राप्य)		हिन्दुस्तानी एकेडेमी
जगन्नाथप्रसाद मिश्र	राजनीति विज्ञान	६)	श्रीअजन्ता प्रेस
जवाहरलाल नेहरू	आजादी किस कीमत पर	३॥॥)	न्यू लिटरेचर
	राजनीति से दूर	२)	सस्ता साहित्य मण्डल
	लड़खड़ाती दुनियाँ	२)	"
	हमारी समस्याएँ	॥॥)	"

जवाहरलाल नेहरू	हिन्दुस्तान की समस्याएँ २)	सस्ता साहित्य मण्डल
जी० एस० पथिक	अगले पाँच साल ५)	आत्माराम एचड सन्स
जार्जी दिमित्रोव	समाजवाद का रास्ता ॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
जान्सन	भारत विभाजन की कहानी ४)	सस्ता साहित्य मण्डल
जावड़ेकर	आधुनिक भारत ५)	”
जेम्स क्लुगमैन	क्या पूँजीवाद और समाजवाद शांति पूर्वक साथ-साथ रह सकते हैं ३)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
दिवाकर भ्वा	प्राथमिक नागरिक शास्त्र ४)	श्रीअजन्ता प्रेस
नरहरि विष्णु गाडगिल	समा-शास्त्र ६)	आत्माराम एचड सन्स
नरेन्द्र देव	राष्ट्रीयता और समाजवाद १०)	ज्ञानमण्डल लि०
परमेश्वरी लाल	अपराध और दण्ड १॥)	”
प्राणनाथ	राजनीति शास्त्र ४)	”
	शासन पद्धति १॥)	ना० प्र० सभा
फ्रेडरिक एंजेलस	परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति २)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	समाजवाद : वैज्ञानिक और काल्पनिक ॥)	”
भगवानदास केन्ना	कौटिल्य की शासन पद्धति २)	हि० सा० सम्मेलन
	सरल नागरिक शास्त्र ५)	”
मोलानाथ शर्मा (अनु०)	आदर्श नगर व्यवस्था १०)	”
महादेवप्रसाद शर्मा	ब्रिटिश संविधान ४॥)	किताब महल
	भारतीय गणतन्त्र का संविधान १)	”
	राजनीति के सिद्धान्त ८)	हि० सा० सम्मेलन
महेन्द्रप्रकाश अग्रवाल	स्विट्ज़रलैण्ड का शासन ३)	किताब महल
मार्क्स तथा एंजेलस	कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा- पत्र ॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
मोहनलाल महतो वियोगी	हमारी स्वतन्त्रता ३)	श्रीअजन्ता प्रेस
बशपाल	गांधीवाद की शव परीक्षा २॥)	विप्लव कार्यालय
	मार्क्सवाद ३)	”
	रामराज्य की कथा २)	”





यू० ए० घोषाल	हिन्दुओं के राजनैतिक सिद्धान्त	४॥॥	हि० सा० सम्मेलन
रजनी पामदत्त	श्रौपनिवेशिक व्यवस्था का संकट	॥॥	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	जनता का आन्दोलन	१)	"
	साम्राज्यवाद और जनता	१)	"
राजनारायण गुप्त	आदर्श नागरिकता	१॥)	किताब महल
	नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त	४)	"
	भारतीय नागरिकता और हमारा नया संविधान	१॥)	"
	भारतीय संविधान तथा नागरिक जीवन	४॥॥)	"
	हमारा नया संविधान	२॥॥)	"
राजेरवर अगल	भारत में गणराज्य की शासन व्यवस्था	४)	सुषमा साहित्य मन्दिर
रामगोपाल	भारतीय राजनीति—विक्टोरिया से नेहरू तक	१०)	ज्ञानमण्डल लि०
रामचन्द्र शुक्ल (अनु०)	राज्य-प्रबन्ध	१)	ना० प्र० सभा
राममनोहर लोहिया	इतिहास-चक्र	२)	लहर प्रकाशन
	हिन्दू बनाम हिन्दू	१॥॥)	"
रामविलास शर्मा (अनु०)	सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास	३)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
रा०र० खाडिलकर (सं०)	गाँधी हत्याकाण्ड	५)	ज्ञानमण्डल लि०
राहुल सांकृत्यायन	आज की समस्याएँ	॥॥॥)	किताब महल
	बाईसवीं सदी	१)	"
	साम्यवाद ही क्यों	१)	"
	सोवियत भूमि (भाग १)	५)	"
	सोवियत भूमि (भाग २)	५)	"
रघू-शास्त्री-ची	हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बनें	१॥)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
लक्ष्मणनारायण गर्दे (अनु०)	जापान की राजनैतिक प्रगति	४)	ज्ञानमण्डल लि०

लेनिन	उग्रवादी कम्युनिज़्म, एक बचकाना मज़्ज़ १।।	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	क्या करें २।।।	”
	गाँव के गरीबों से ॥।।	”
	दो कार्य-नीतियाँ १।।।	”
	मज़दूर क्रान्ति और ग़द्दार कॉटस्की १।	”
	राज्यसत्ता और क्रान्ति १।।	”
	साम्राज्यवाद, पूँजीवाद की चरम अवस्था १।।	”
	१९०५ की क्रान्ति ॥।।	”
विमलाप्रसाद	भारतीय संविधान और शासन ६।।।	श्रीअजन्ता प्रेस
शान्तिप्रसाद वर्मा	स्वाधीनता की चुनौती ७।	नवयुग साहित्य सदन
शिवचन्द्र	प्रगतिवाद को रूपरेखा ५।	किताब महल
शिवनाथ राय	क्रान्तिवाद, (प्रेस में)	आत्माराम एण्ड सन्स
श्रीप्रकाश	नागरिक शास्त्र २।	
स्तालिन	अक्टूबर क्रान्ति और रूसी कम्युनिस्टों की कार्यनीति १।	साहित्य सदन पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	अराजकतावाद या समाजवाद ॥।।	”
स्तालिन	द्वन्दात्मक और ऐतिहासिक. भौतिकवाद ॥।।	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस ”
	लेनिनवाद की समस्याएँ ॥।।।	”
	लेनिनवाद के मूल सिद्धान्त ॥।।।	”
सत्यदेव	तैलंगाना का किसान आन्दोलन १।	”
सत्यदेव परिव्राजक	भारतीय समाजवाद की रूपरेखा ॥।।	ना० प्र० सभा
सम्पूर्णानन्द	अन्तर्राष्ट्रीय विधान १०।	ज्ञानमण्डल लि०
सी० बाई० चिन्तामणि	भारतीय राजनीति के अस्सी वर्ष, (अप्राप्य)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी

सोमदत्त	रूस का पुनर्जन्म	१=)	ज्ञानमण्डल लि०
हरेकृष्ण मेहताब	अगला कदम	१)	आत्माराम एण्ड सन्स
हू चियाओ-मू	चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के तीस वर्ष	१।)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
हे० लास्की	राजनीति प्रवेशिका	१)	सस्ता साहित्य मण्डल
विविध	आज्ञाद हिन्द फौज और उसके तीन अफसरों का मुकदमा २)		ज्ञानमण्डल लि०
	कम्युनिस्ट इंटर नेशनल का कार्यक्रम	।=)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	कम्युनिस्ट पार्टी के संगठन के सिद्धान्त	।)	”
	कांग्रेस का इतिहास		
	(३ भाग) ३०)		सस्ता साहित्य मण्डल
	जनवादी चीन का भूमि-सुधार कानून	१)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	जनवादी चीन का शासन-विधान	।।)	”
	भारतीय नव-जागरण का इतिहास	३)	सस्ता साहित्य मण्डल
	सोवियत संघ (सवाल जवाब) ।)		पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
	सोवियत संघ का शासन विधान	।।।)	”
	वियतनाम का स्वतन्त्रता संग्राम	।=)	”

## अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य

अमरनारायण अग्रवाल	अर्थशास्त्र प्रवेशिका	१॥॥	किताब महल
आर० रमन	भारतीय-खातालेखन और		
	उसका अभ्यास	१॥॥	रामनारायण लाल
इन्द्र	कौटिल्य अर्थशास्त्र	३॥॥	राजपाल एण्ड सन्स
एस० एन० अग्रवाल	करेन्सी तथा बैंकिंग	५॥॥	किताब महल
कांतनाथ गर्ग	आधुनिक व्यापार	५॥॥	"
	बैंकिंग के सिद्धान्त	३॥॥	"
कार्ल मार्क्स	मजूरी, दाम और मुनाफ़ा	॥=॥	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
के० के० अग्रवाल	औद्योगिक संगठन	२॥॥	किताब महल
केदारनाथ प्रसाद	बिहार के साधन : कृषि		
	और उद्योग	६॥॥	रामनारायण लाल
खंडूभाई देसाई	कपड़ा उद्योग	१=॥॥	नवयुग साहित्य सदन
जे० बी० जधर तथा	भारतीय अर्थशास्त्र		
एस० जे० बेरी	(२ भाग)	१४॥॥	राजकमल प्रकाशन
	भारतीय अर्थशास्त्र		
	(प्रथम खण्ड)	७॥॥	"
	भारतीय अर्थशास्त्र		
	(द्वितीय खण्ड)	८॥॥	"
दयाशंकर दुबे	अर्थशास्त्र की रूपरेखा	६॥॥	रामनारायण लाल
तथा भगवानदास केला	धन की उत्पत्ति	१॥॥	"
	सरल अर्थशास्त्र	५॥॥	"
तथा शंकरसहाय सक्सेना	ग्राम्य अर्थशास्त्र	२॥॥	"
देवदत्तशास्त्री	कौटिलीय अर्थशास्त्र की		
	भूमिका	२॥॥	किताब महल
नर्मदेश्वर भा	भारतीय अर्थशास्त्र की		
	भूमिका	६॥॥	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
नाग	भारत का औद्योगीकरण	२॥॥	किताब महल

ब्रजगोपाल भटनागर	ग्रामीय अर्थशास्त्र	४)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
बी० एम० भाटिया	सुगम भारतीय अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर रूप में)	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
	सुगम सामान्य अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर रूप में) प्रेस में		"
भगवानदास अवस्थी	अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत	३)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
भगवानदास केला	राजस्व	१॥)	"
मधुकर शेटे	आर्थिक नियोजन	१॥)	किताब महल
महिमाचरन सक्सेना	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त	३॥)	साहित्य निकेतन
मोतीचन्द्र गोविल	इंग्लैंड का आर्थिक इतिहास	२)	श्रीब्रजन्ता प्रेस
	भारत का आर्थिक इतिहास	३)	"
यतेन्द्रकुमार	आर्थिक विचारों का विकास	५)	भारत प्रकाशन मन्दिर
राधारमण महानन्द	मुद्रा और विनिमय	२)	रामनारायण लाल
रामजी सहाय	भारत का आधुनिक आर्थिक विकास	३)	किताब महल
रामावतार लाल	अर्थशास्त्र की भूमिका	६॥)	श्रीब्रजन्ता प्रेस
	बिहार की आर्थिक समस्याएँ	२)	"
व्योहार राजेन्द्रसिंह	ग्रामों का आर्थिक पुनरुद्धार	२॥)	हि० सा० सम्मेलन
शङ्करसहाय सक्सेना	औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल	७)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	औद्योगिक संगठन	३)	रामनारायण लाल
	बैंकिंग	६)	"
	भारत की आर्थिक समस्याएँ	५)	"
	भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र	७)	हि० सा० सम्मेलन
	भारतीय मजदूर	३॥)	नवयुग साहित्य सदन
तथा प्रेमनारायण माथुर	गाँवों की समस्या	१)	हि० सा० सम्मेलन
स्वान्तिप्रकाश	सहकारिता	४)	अशोक प्रेस
	अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त	७)	रामनारायण लाल
श्रीनारायण अग्रवाल	द्रव्य तथा बैंकिंग	२)	"
श्रीनारायण श्रीवास्तव	बैंकिंग प्रवेशिका	२)	किताब महल

सुशीलकुमार दिवाकर	वाणिज्य और औद्योगिक सन्नियम	४॥॥	रामनारायण लाल
	हमारे आर्थिक प्रश्न	२॥॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
विविध	राष्ट्रीय आर्थिक निर्माण और किसान	॥॥	नवयुग साहित्य सदन

## भूगोल

उमाचरण तिवारी	नवीन भू परिचय	४)	रामनारायण लाल
ए० सी० बनर्जी	फिज़िकल बेसिस आर जागर्फी	६)	"
दयाशङ्कर दुबे तथा शङ्करसहाय सक्सेना	भारत का आर्थिक भूगोल	२॥॥	"
दीपरानायणसिंह तथा रामचन्द्र लाल	भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल	३॥॥	"
युगलकिशोर मिश्र	मानव भूगोल	१॥॥	"
रामनाथ दुबे	आर्थिक भूगोल प्रवेशिका	२)	किताब महल
	भारत का आर्थिक भूगोल	४॥॥	"
	भूगोल के भौतिक आधार	५)	"
	मानचित्र (Maps)	३)	"
राममवेशसिंह	आर्थिक तथा व्यापारिक भूगोल	२॥॥	रामनारायण लाल
रामस्वरूप वशिष्ठ	भूगोल के भौतिक आधार (सचित्र)	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
	मानचित्र-प्रवेशिका	३)	"
शङ्करसहाय सक्सेना	आर्थिक भूगोल	७)	रामनारायण लाल
	व्यापारिक भूगोल	२॥॥	"



## प्रौढ़-शिक्षापयोगी साहित्य

प्रेमचन्द किसानों के लेखक हैं। प्रेमचन्द की आत्मा भारतीय किसान की आत्मा है। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचन्द का वही स्थान है जो राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का है।

यही समझकर हमने प्रेमचन्द की तीन सौ कहानियों में से चुनकर पचपन कहानियाँ अपने नवसाक्षर वन्द्युओं के लिए मोटे टाइप में, अच्छे कागज पर, सुन्दर आवरण और मजबूत जिल्द के साथ प्रकाशित की हैं। ये सब कहानियाँ दस भागों में हैं। प्रत्येक भाग में सौ पृष्ठ हैं और मूल्य है केवल १) एक रुपया। भारत सरकार ने प्रौढ़-शिक्षा के लिए इन पुस्तकों के खरीदे जाने की सिफारिश की है।

गुल्ली-डण्डा

बड़े घर की बेटी

सुजान भगत

पूस की रात

रामलीला

राजा हरदौल

सुभागी

नेउर

वेग वाली विधवा

मोटोराम शास्त्री

अपने नवसाक्षर भाइयों को भारत की कला, साहित्य और संस्कृति से परिचित कराने के लिए हमने इतिहास के विख्यात पंडित श्री भगवतशरण उपाध्याय की निम्नलिखित आठ पुस्तिकाएँ सुबोध शैली में, मोटे टाइप में, अनेक चित्रों और दो रंगों की छपाई में प्रकाशित की हैं। प्रौढ़-शिक्षा के लिए इन पुस्तिकाओं के बारे में जितना कहा जाय थोड़ा है। 'यह सोने का देश' को भारत सरकार की ओर से इस वर्ष ५००) का पुरस्कार मिला है।

यह सोने का देश

मूर्त और चित्र

मन्दिर और मकान

हमारे संस्कृत कवि

संगीत और नृत्य

हमारे हिन्दी कवि

हमारे युग-नेता

एशिया को भारत की देन

**हंस प्रकाशन, इलाहाबाद**

## जीवन को स्वावलम्बी बनानेवाली इन्डस्ट्रियल पुस्तकें

रंग साजी	प्रो० जे. सी. दास	२॥
प्लास्टिक गाइड	"	२॥
बूट पालिश	"	२॥
अप्टूडेट ईक मास्टर (स्याही बनाना)	"	२॥
कन्फेक्शनरी (अंग्रेजी मिठाइयाँ बनाना)	"	२॥
हेयर आयल (खुशबूदार तेल)	"	२॥
बेकरी बहार (बिस्कुट, डबल रोटी, केक)	"	२॥
अचार, चटनी, मुरम्बा बहार	"	२॥
पैन्ट्री का काम	"	४॥
चित्रकारी अथवा मुसध्वरी	"	४
परफ्यूमरी मास्टर	"	२॥
वार्निश मास्टर (वार्निशसाजी)	"	२॥
आतिशबाज़ी का व्यापार	"	२॥
हलवाई मास्टर	प्रिंसिपल चन्द्रभान सहगल	२॥
तम्बाकू का कारोबार (तम्बाकू की दुकान)	"	२॥
पान की दुकान	"	२॥
छपाई पारचाजात (कैलिको प्रिन्टिङ्ग)	"	३॥
कुकरी बुक (अंग्रेजी खाने)	प्रो० कालीचरण गुप्त	४
व्यापार बढ़ाने की तरकीबें	"	२॥
मोमबत्ती का व्यापार	"	२॥
डेरीफार्म का व्यापार	"	२॥
फिनायल साजी (कीटाखुनाशक औषधियाँ)	"	२॥
मुँह देखने के शीशे बनाना (आईना साजी)	"	२॥
धूप, अगारबत्ती, हवन-सामग्री बनाना	"	२॥
फ्रेस क्रीम तथा फेस पाउडर बनाना	"	२॥
वीविंग कैल्कुलेशन	प्रो० एम. एन. चोपड़ा	२
सूती, ऊनी कपड़ों की रंगाई, छपाई और धुलाई	"	३॥
कपड़े की बनावट और उसके डिजाइन	"	३॥
सत्य व्यापार लक्ष्मी मण्डार	श्री राजेश गुप्त	४॥
लाइव टीचर (धुलाई शिक्षा)	"	२॥
हरफन मौला	गणपत लाल खरडेलवाल	१॥
साबुन शिक्षा तथा साबुन उद्योग	"	२॥
शबंत विज्ञान	हुक्मचन्द गुप्ता	२॥
बुक बाइंडिंग	रामश्रवतार 'वीर'	३
व्यापार दस्तकारी	शिवानन्द शर्मा धौलानी	२॥
मैटल पालिश	कालीचरण गुप्ता	२॥
सोप/मेकअप गाइड	सुरेशचन्द्र 'सहगल'	६
चाक बत्ती स्लैट पैन्सिल बनाना	कालीचरण	२॥



रबड़ की मोहरें बनाना	काली चरण	२॥
दूध पेस्ट, दूध पाउडर बनाना	"	२॥
गाइड ऑफ इन्डस्ट्रीज	"	६)
सिल्लवाई कटाई गाइड	मन्जू गुप्ता	१)
दर्जी मास्टर	मास्टर बद्रीप्रसाद	२॥
नवीन वहलू पाक विज्ञान	श्रृष्टिकुमार	३)
फ्रूट प्रीजर्वेशन	जे० एस० माथुर	१)
मरहम बनाना	रामनारायण वैद्य	१)
पोल्ड्री फार्मिंग	कालीचरण	४)
पोल्ड्री कर्मिंशुल	"	४)
पोल्ड्री सर्जन	"	४)
पाक भारती	अमोलचन्द 'शुक्ला'	६)
शाक रत्नाकर	सुशीला	२)
पेटेंट अदवियात	रघुबीरशरण बन्सल	६)
फिल्म एक्टिंग गाइड	रत्नप्रकाश 'शील'	५)
टेजर मास्टर	मन्जू गुप्ता	१॥
फल संरक्षण	रामअवतार 'वीर'	२॥

बेसिक शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए

प्रत्येक पुस्तक का मूल्य ॥

अचार मुरब्बे और चयनियां बनाना, लाभदायक नुस्खे तरकीबें और हुनर (दो भाग), मैन्युफैक्चर ऑफ शू पॉलिश, सोपमेकिंग वाई कोल्ड प्रौसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ वानि शिज (लकड़ी की, पालिश सहित) चमड़े की रंगाई और छपाई, अमूल्य औद्योगिक रहस्य, स्टेन्सिल काटना और उनसे छपाई, लिखने की स्याही बनाने के सिद्धान्त, योरोप और अमेरिका के पेटेंट फार्मूले, ग्रामों के लिए कुटीर उद्योग, गौ पालन अर्थात् कुटीर उद्योग, सौन्दर्य बढ़ाने के नवीनतम फार्मूले, रबड़ के खिलौने बनाना, कपड़े के खिलौने बनाना, औद्योगिक नुस्खे, पैसिलें बनाना, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे, रबड़ के गुब्बारे बनाना; दर्पण निर्माण कला, कन्फैक्शनरी उद्योग, मेल आर्डर बिजनेस, भोजन द्वारा चिकित्सा, वत्तल पालना, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, हस्त निर्मित कागज, खरगोश पालन, भारतीय तेल उद्योग, सेफ्टी माचिस बनाना, व्यावहारिक चर्म कला, जादू के सरल खेल, लाख के प्लास्टिक्स ।

नोट - पूरे सेट के खरीदार के लिए पौने मूल्य में दी जावेंगी ।

**देहाती पुस्तक भण्डार**

चावड़ी बाजार, दिल्ली—६

# हिन्दी भवन के प्रमुख प्रकाशन

- साहित्यिक ग्रन्थ  
हिन्दी साहित्य का उद्भव और  
विकास (रामबहोरी शुक्ल  
तथा भागीरथ मिश्र) ८)
- हिन्दी गद्य साहित्य का इतिहास  
(जगन्नाथप्रसाद शर्मा) २॥)
- जयशंकर प्रसाद—चिन्तन व कला  
(इन्द्रनाथ मदान) ६॥)
- पदमावत का ऐतिहासिक आधार  
(इन्द्रचन्द्र नारङ्ग) १)
- भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न  
(जयचन्द्र विद्यालंकार) १)
- भारत की भाषाएँ और भाषा-  
संबंधी समस्याएँ  
(सुनीति कुमार चाटुर्ज्या) ३)
- हिन्दी कलाकार  
(इन्द्रनाथ मदान) ५॥)
- प्रेमचंद : साहित्यिक विवेचन  
(नन्ददुलारे वाजपेयी) २८)
- हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास  
(सोमनाथ गुप्त) ४)
- साहित्य मीमांसा (सूर्यकान्त) ४)
- तुलसी (रामबहोरी शुक्ल) ३)
- काव्यप्रदीप (रामबहोरी शुक्ल) ३॥)
- शरच्चंद्र—चिन्तन व कला  
(इन्द्रनाथ मदान) २॥)
- खड़ी बोली के गौरव ग्रंथ  
(विश्वम्भर मानव) २॥)
- प्रबंध प्रभाकर (गुलाबराय) ४॥)
- सामयिक निबंध (इन्द्र) २॥)
- भूषण ग्रन्थावली सटीक  
(देवचन्द्र विशारद) ५)
- शिवराज भूषण (देवचन्द्र) ३॥)
- भारतीय इतिहास  
(जयचन्द्र विद्यालंकार)
- भारतीय राष्ट्र का विकास, हास  
और पुनरुत्थान १२)
- गोरखाली इतिहास की मुख्य  
धाराएँ २)
- भारतीय कृष्टि का कल  
इतिहास प्रवेश  
पुरुषों का चरित (३ भाग)  
क्रमशः २), १॥), १॥)
- मनुष्य की कहानी ॥८)
- हमारा भारत १८)
- हमारा राजस्थान  
(पृथ्वीसिंह विद्यालंकार) ६)
- मराठा इतिहास की मुख्य धाराएँ  
(गोविन्द सखाराम सरदेसाई) ३)
- उपन्यास, कहानी  
केलाबाड़ी (नित्यानन्द वात्स्यायन) १॥)
- सुबह के भूले (इलाचन्द्र जोशी) ८)
- सुक्तिपथ (इलाचन्द्र जोशी) ५॥)
- मूक तपस्वी (कंचनलता) ४)
- युग संदेश (पृथ्वीनाथ शर्मा) ३॥॥)
- उदय अस्त (पृथ्वीनाथ शर्मा) २॥)

हिन्दी भवन जालंधर और इलाहाबाद

# हिन्दी भवन के प्रमुख प्रकाशन

नाटक तथा एकांकी संग्रह		काव्य ग्रन्थ	
प्रकाशस्तंभ (हरिकृष्ण प्रेमी)	१॥॥	श्रीगांधीचरितमानस	
रत्नाबन्धन	१७)	(विद्याधर महाजन)	५॥८)
प्रतिशोध	१॥॥)	रवासों के स्वर	
शिवासाधना	२)	(रामावतार चेतन)	२)
आहुति	१)	पृथ्वीवन्दन (तरुण भाई)	१॥)
बन्धन	१॥)	विविध	
वत्सराज (लक्ष्मीनारायण मिश्र)	१॥॥)	शिल्पमाला (बुनाई की पुस्तक)	
दशरथमेघ ( " )	१७)	(विद्याधरी जौहरी)	६)
प्रताप प्रतीज्ञा		शिल्पमाला (दूसरा भाग)	२)
(जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द)	१॥)	बदलते दृश्य (यात्रा साहित्य)	
मुकुट (नित्यानन्द वात्स्यायन)	१॥॥)	(राजवल्लभ ओझा)	६)
अपराधी (पृथ्वीनाथ शर्मा)	॥८)	सरल बाल मनोविज्ञान	
साध	॥॥)	(कंचनलता सम्बरवाल)	१॥॥)
दुविधा	॥॥)	गृह विज्ञान (कंचनलता)	६)
सेवापथ (गोविन्ददास)	१)	आत्मकथा, जीवनी	
कर्मपथ (दयानाथ भा)	२)	जेल में तीस बरस	
आदित्यसेन गुप्त (कंचनलता)	१॥॥)	(त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती)	४)
विक्रमादित्य (उदयशंकर भट्ट)	॥८)	अमर ज्योति (मदान, राकेश)	२॥॥)
एकांकी एकावली		देश दीपक (बलदेवप्रसाद शुक्ल)	२)
(रामचन्द्र शर्मा)	२॥॥)	आविष्कारक और आविष्कार	
सरस एकांकी नाटक		(कृष्णचन्द्र त्रिघालंकार)	१॥॥)
(रामकुमार वर्मा)	१॥॥)	भारत के महापुरुष	
आठ एकांकी नाटक (वर्मा)	२)	(संतराम बी. ए०)	१॥॥)
किशोर नाटकावली		भारत की नारियाँ	
(लक्ष्मीनारायण मिश्र)	१)	(व्यथित हृदय)	१॥)

शिक्षाप्रद मनोरंजक आकर्षक बाल-साहित्य

हिन्दी-भवन जालंधर और इलाहाबाद

## हमारे नये प्रकाशन तथा अन्य प्रकाशन

**राजा-प्रजा**—भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति पर राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त की नवीनतम रचना । मूल्य ॥३॥

**बुद्ध-वचन**—बुद्ध-गीता के नाम से अभिहित किये जानेवाले पालि भाषा के गौरवग्रंथ 'धम्म पद' का श्री सियारामशरण गुप्त द्वारा समश्लोकी रूप में प्रस्तुत किया गया प्रनुवाद । मूल्य २)

**कविश्री**—कविश्री के नाम में एक पुस्तक-मालिका हाल में ही प्रकाशित करना आरम्भ किया है । उसमें हिन्दी के तथा भारतवर्ष की अन्य भाषाओं के कवियों के अतिरिक्त संसार की अन्य भाषाओं के कवि रहेंगे । प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १० आना है । अभी इसमें इन निम्नलिखित कवियों की कविश्री प्रकाशित हो चुकी है ।

कालिदास, भास, मैथिलीशरण गुप्त, जयशङ्कर 'प्रसाद', सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारीसिंह 'दिनकर', सियारामशरण गुप्त, 'अज्ञेय'

**पदमावत**—मलिक मुहम्मद जायसी कृत महाकाव्य (मूल और संजीवनी व्याख्या) व्याख्या कार— डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल । साहित्य अकादमी द्वारा १९५६ के सर्वोत्कृष्ट हिन्दी प्रकाशन के रूप में पुरस्कृत । मूल्य १५)

### श्री मैथिलीशरण गुप्त लिखित—काव्य

जय भारत	७)	युद्ध	॥३॥
साकेत	५)	चन्द्रहास	१॥॥
गुरुकुल	३)	तिलोत्तमा	१॥
यशोधरा	१॥॥	अनघ	१॥
द्वापर	३)	किसान	॥॥
सिद्धराज	१॥	शकुन्तला	॥॥
हिन्दू	२॥॥	नहुष	॥२॥
भारत-भारती	२)	विश्व वेदना	॥॥
जयद्रथ वध	॥३॥	काबा और कर्बला	१॥
भंकार	१॥॥	कुणाल गीत	१॥॥
पन्नावली	१२)	अर्जन और विसर्जन	१२)

वक संहार	॥	वैतालिक	२॥
वन वैभव	॥	गुरु तेगबहादुर	२॥
सैरंग्री	॥	शक्ति	२॥
पंचवटी	॥	रंग में भंग	२॥
अजित	१॥	विकट भट	॥
हिडिम्बा	॥	पृथ्वी-पुत्र	॥
अजलि और अर्ध	॥	भूमि-भाग	॥
प्रदक्षिणा (पाठ्य संस्करण)	॥		

### अनुवादित ग्रन्थ

विरहिणी ब्रजांगना	२॥	वीरांगना	२॥
रुवाइयात उमर खैयाम	१॥	स्वप्न वासवदत्ता	१॥
पलासी का युद्ध	३॥	मेघनाद वध	६॥

### श्री सियारामशरण गुप्त की रचनाएँ

आर्द्रा	(कविता)	१॥	पाथेय	(कविता)	२॥
विषाद	"	२॥	दूर्वादल	"	१॥
मौर्य विजय	"	२॥	आत्मोत्सर्ग	"	॥
अनाथ	"	२॥	दैनिकी	"	॥
मृगमयी	"	२॥	बापू	"	१॥
नोआखाली में	"	॥	नकुल	"	१॥
गोद	(उपन्यास)	१॥	जयहिन्द	"	॥
अंतिम आकांक्षा	"	२॥	पुण्य-पर्व	(नाटक)	१॥
नारी	"	२॥	उन्मुक्त	(गीति-नाट्य)	१॥
मानुषी	(कहानी संग्रह)	१॥	भूठ-सच	(निबन्ध)	२॥
गीता-संवाद (गीता का समश्लोकी अनुवाद)		१॥	हमारी प्रार्थना		॥

### अन्यान्य प्रकाशन

विनोबा स्तवन	१॥	हेमला सत्ता	॥
मधुकरशाह	२॥	गोकुलदास	२॥
चित्रांगदा	॥	गीता रहस्य	२॥
अंकुर	१॥	स्वास्थ्य संलाप	१॥
पुरातत्व प्रसंग	१॥	शेलकश	१॥
प्रबन्ध पुष्पांजलि	१॥	बापू की बात	१॥
गृहस्थ गीता	१॥	नागरिक शास्त्र	२॥
देश की गाथा	२॥	साकेत के नवम सर्ग का काव्य वैभव	२॥
पुष्करिणी	३॥	कवि-भारती	१५॥

साहित्य-सदन, चिरगाँव (भाँसी)

# हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन

- निबन्ध साहित्य : यूरोपीय साहित्य : विनोदशङ्कर व्यास २)
- साकस्य : शान्तिप्रिय द्विवेदी ४) डा० इकबाल और उनकी शायरी : हीरालाल चोपड़ा ३॥)
- स्वाधीनता तथा राष्ट्रीय साहित्य : डा० रामविलास शर्मा ४) डा० इकबाल और उनकी शायरी : (सं०) हीरालाल चोपड़ा ३॥) ॥
- शरद् के लतीफे : डा० महादेव साहा ३) फारसी साहित्य की रूपरेखा : डा० हिकमत २)
- कला क्या है ? : टाल्स्टाय ३॥) हिन्दी साहित्य और साहित्यकार : सुधाकर पांडेय १॥)
- साहित्यधारा : प्रकाशचन्द्र गुप्त ३) हिन्दी साहित्य १९१४ : सुधाकर पाण्डेय २॥)
- अतीत से वर्तमान : राहुल सांकृत्यायन ५) हमारा उपन्यास साहित्य
- स्वदेश और साहित्य : डा० महादेव साहा ३॥) पवित्र पापी : नानक सिंह ३॥) ॥
- कर्मचक्र : रामेश्वरनाथ मिश्र १॥) जीवन संग्राम : नानक सिंह ५)
- सदा सुहागिन रूठ गई : सुधाकर पाण्डेय ३) बालू के टीले : ब्रजेन्द्र खन्ना ५)
- आलोचनात्मक साहित्य : राजा रिपुमर्दन : हर्षनाथ ३)
- रवीन्द्र कविता कानन : 'निराला' ३॥) स्वर्णिम अतीत : अनु० मोहन लहरी ३॥)
- प्रसाद के नाटक : परमेश्वरीलाल गुप्त १॥) मुक्तिदान : सिद्धविनायक द्विवेदी २)
- रस-साहित्य और समीक्षायें : 'हरिचौध' ४) श्वेतपद्मा : सिद्धविनायक द्विवेदी १॥)
- कहानी का रचना विधान : डा० जगन्नाथ-प्रसाद शर्मा ५) निशा डूबती है : जयप्रकाश शर्मा ३॥)
- प्रसाद की कवितायें : सुधाकर पांडेय ५) सीधे साधे रास्ते : देवीप्रसाद धवन २॥)
- हास्य की रूप रेखा : डा० एस० पी० खत्री ६)
- भारतीय प्रेमाख्यान काव्य : माँ : अनु०—देवराज ३)
- डा० हरिकान्त श्रीवास्तव १०) दिगम्बर : पं० शान्तिप्रिय द्विवेदी २)
- हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद : मालिन : साधुशरण ५)
- त्रिभुवनसिंह ५) दो दिनों की दुनियाँ : आचार्य 'मग' ३)
- आधुनिक साहित्य और कला : महेन्द्र-दूटती हुई जंजीरें : डा० सत्यनारायण ३)
- भटनागर २॥) अन्याय का प्रतिकार : डा० देवबलीसिंह ४)
- भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि : हमारा कथा-साहित्य
- किशोरी लाल गुप्त १०) चयनिका : कंचनलता सम्बरवाल २)
- सूर के सौ कूट : चुन्नीलाल 'शेष' ५) विशिष्ट कहानियाँ : सुधाकर पांडेय १॥)
- हिन्दी महाकाव्यों के स्वरूप : डा० शम्भू-मधुकरा चार भागों में : विनोदशङ्कर व्यास ३)
- नाथ सिंह १०) मकड़ी के जाळे : राजेन्द्र अवस्थी २)
- राधा का क्रमविकास : डा० शशिभूषण-दस गुप्त ८) कहानी मूल और शाखा : सुधाकर पांडेय १॥)
- झायाबाद के गौरव चिन्ह : प्रो० 'जैम' ६)

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय,  
ज्ञानवापी, वाराणसी

# कृषि

अमरनाथ बिंदल	भारतवर्ष में उद्यानकारी	३)	किताब महल
गुप्तनाथसिंह	खाद-विज्ञान	॥१॥	ना० प्र० सभा
जयरामसिंह	कृषि-विज्ञान (भाग १)	२)	किताब महल
	कृषि विज्ञान (भाग २)	३)	”
दुर्गाप्रसादसिंह	खाद का उपयोग	११)	ज्ञानमण्डल लि०
वासुदेव पाण्डेय	साग-सब्जी की खेती	२)	ज्ञानपीठ लि०
शिवाचन्द्र झा	शाक-उत्पादन	१)	रामनारायण लाल
विविध	कृषि ज्ञान कोष	५)	सस्ता साहित्य मण्डल
	फलों की खेती	२॥१)	”
	साग-भाजी की खेती	३)	”

## तर्क शास्त्र, धर्म तथा दर्शन

अबुल कलाम आज़ाद	कुरान और धार्मिक मतभेद	१॥१)	आत्माराम एण्ड सन्स
आनन्दशंकर बापू भाई	धर्म-वर्णन	१॥१)	राजकमल प्रकाशन
आनन्द स्वामी	महामन्त्र	१॥१)	राजपाल एण्ड सन्स
इज़रसोल (कर्नल)	स्वतंत्र चिन्तन	१॥१)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
डमेश मिश्र	भारतीय तर्क-शास्त्र की		
	रूप रेखा	१)	रामनारायण लाल
कृष्णदत्त भारद्वाज	वनमाला	१॥१)	ओरिएण्टल बुकडिपो
कृष्णस्वरूप विद्यालङ्कार	गीता मर्म	७॥१)	साहित्य निकेतन

गङ्गाप्रसाद	धर्म का आदि स्रोत	२)	राजपाल एण्ड सन्स
गङ्गाप्रसाद उपाध्याय	ऐतरेय ब्राह्मण (अनु०)	५)	हि० सा० सम्मेलन
गुलाब राय	तर्कशास्त्र	१॥)	ना० प्र० सभा
	पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास	२॥)	"
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य	कुंजा सुन्दरी	२)	सस्ता साहित्य मण्डल
	महाभारत कथा	५)	"
चाऊ सांग कुंग	चीनी बौद्धधर्म का इतिहास		भारती भण्डार
जगदीशचन्द्र जैन	भारतीय तत्व चिंतन	६)	राजकमल प्रकाशन
जहूरुल हसन सैयद	कुरान और धार्मिक मतभेद	२)	आत्माराम एण्ड सन्स
टाल्लटाव	ईसा की सिखावन	१)	सस्ता साहित्य मण्डल
तिरुवल्लुवर	तामिल वेद	१॥)	"
दयानन्द (ऋषि)	अमृत वर्षा	२)	राजपाल एण्ड सन्स
दीवानचन्द्र शर्मा	आचार और धर्म	॥)	"
धर्मज्योति (त्रिपिटकाचार्य)	धम्मपद	१॥)	किताब महल
धर्मदेव	आर्य निबन्ध माला	१)	राजपाल एण्ड सन्स
	वैदिकधर्म आर्यसमाज प्रश्नोत्तरी	॥=)	"
धर्मानन्द कौसाम्बी	भारतीय संस्कृति और अहिंसा	२)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
धर्मेन्द्रनाथ	भारतीय दर्शन-शास्त्र	२॥)	मोतीलाल बनारसीदास
न० कि० देवराज तथा रामानन्द तिवारी	भारतीय दर्शन शास्त्र का इतिहास	६॥)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
न० पोरबन्दर (महाराज)	अन्तर निरीक्षण	२॥)	राजकमल प्रकाशन
नरेन्द्र देव (अनु०)	अभिधर्म कोष (वसुबन्धु कृत) (यंत्रस्थ)		हिन्दुस्तानी एकेडेमी
नारायणसिंह	हमारा धर्म और उसकी वैज्ञानिक रूपरेखा	३)	हि० सा० सम्मेलन
बलदेव उपाध्याय	आचार्य सायण और माधव	६)	"
भगवानदास	दर्शन का प्रयोजन	३॥)	ज्ञानमण्डल लि०
भगवानदीन 'दीन' (अनु०)	धर्म और विज्ञान	२)	ना० प्र० सभा०



भदन्त आनन्द कौसल्यायन	जातक कथा	२॥॥	सस्ता साहित्य मण्डल
	जातक पहला भाग	७॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	जातक दूसरा भाग	७॥॥	”
	जातक तीसरा भाग	१०	”
	जातक चौथा भाग	८	”
	जातक पाँचवाँ भाग	८	”
	सञ्चसंगहो	॥॥	”
भरतसिंह उपाध्याय	बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन (२ भाग)	१६	भारती भण्डार
भानुप्रतापसिंह	न्यायशास्त्र-निगमन	३	किताब महल
मंगलदेव शास्त्री	रश्मिमाला अथवा जीवन-संदेश-गीता-जलि	३॥॥	हि० सा० सम्मेलन
माधवराव सप्रे	आत्मविद्या	४	साहित्य भवन लि०
सुरलीधर अग्रवाल (सं०)	मानस-मुक्ता (प्रथम खण्ड)	१	सुषमा साहित्य मन्दिर
रंगनाथ 'दिवाकर'	अन्तरात्मा से	२	राजकमल प्रकाशन
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	साधना	२	राजपाल एण्ड सन्स
राजपाल (महाशय)	भक्ति दर्पण	१॥॥	”
राजेन्द्र शर्मा	सागर सेतु	५	राजकमल प्रकाशन
राधामोहन गोकुलजी	नीति दर्शन	॥॥	हि० सा० सम्मेलन
रामगोपाल मिश्र	तपोभूमि	१०	”
रामचन्द्र शुक्ल	विश्व-प्रपंच	१॥॥	ना० प्र० सभा
रामदास गौड़	वैज्ञानिक अद्वैतवाद	२	ज्ञानमण्डल लि०
	हिन्दुत्व	१२॥॥	”
रामप्रताप त्रिपाठी (अनु०)	पुराणों में गङ्गा	३॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	मत्स्य पुराण	२०	”
	वायु पुराण	१२	”
रामशङ्कर शुक्ल 'रसाल'	आगमन शास्त्र	२	रामनारायण लाल
	निगमन शास्त्र	२॥॥	”
रामानन्द तिवारी	शंकराचार्य का आचार दर्शन	५	हि० सा० सम्मेलन
रामावतार शास्त्री	मनुष्य जीवन का लक्ष्य	१॥॥	”

राहुल सांकृत्यायन	इस्लाम धर्म की रूपरेखा १॥)	किताब महल
	तिन्वत में बौद्धधर्म १॥)	"
	दर्शन-दिग्दर्शन ३॥)	"
	प्रमाण वार्तिकम् ३०)	"
	बौद्ध-दर्शन ३॥)	"
लल्लू प्रसाद पांडेय	कर्मवाद और जन्मांतर ३)	ना० प्र० सभा
लक्ष्मण शास्त्री	जड़वाद और अनीश्वरवाद १)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	हिंदू धर्म की समीक्षा १॥)	"
वियोगी हरि	बुद्धवाणी (बुद्ध वचन) १)	सस्ता साहित्य मण्डल
विश्वनाथ	प्रार्थना सुमन ॥)	राजपाल एण्ड सन्स
विश्वेश्वर	प्रपंच-परिचय २)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
विनोबा	मानस सुधा १॥)	रामनारायण लाल
विष्णु भीकाजी कोलते	मराठी सन्तों का सामाजिक कार्य १॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
व्यथित हृदय	हिंदू तीर्थ २॥)	रामनारायण लाल
शिवप्रसादसिंह (अनु०)	अमर जीवन की ओर १॥)	ना० प्र० सभा
सत्यकाम विद्यालङ्कार	मानसिक शक्ति के चमत्कार २॥)	राजपाल एण्ड सन्स
सत्यदेव शास्त्री	गीता दर्शन और पृष्ठभूमि १॥)	साहित्य भवन लि०
सत्यदेव परिव्राजक	हिंदू धर्म की विशेषताएँ ॥)	राजपाल एण्ड सन्स
सम्पूर्णानन्द	चिद्विलास ४॥)	ज्ञानमण्डल लि०
	भारतीय सृष्टि क्रम विचार १॥)	ना० प्र० सभा
स्वामी विवेकानन्द	ज्ञानयोग (२ भाग) प्रत्येक २॥)	"
स्वामी वेदानन्द	स्वाध्याय सुमन ३)	राजपाल एण्ड सन्स
स्वामी सर्वदानन्द	आनन्द संग्रह २)	"
	ईश्वर-भक्ति २)	"
स्वामी सहजानन्द	गीता हृदय १२)	किताब महल
सियारामशरण गुप्त	गीता-संवाद १)	साहित्य सदन
	हमारी-प्रार्थना १)	ओरिएण्टल बुक डिपो
सीताराम	नीति बाटिका ॥)	रामनारायण लाल
सुखलाल संघवी	धर्म और समाज १॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
सूरजमल मेहता	भागवत कथा ३॥)	सस्ता साहित्य मण्डल

हरद्वारीलाल शर्मा	विचार-विज्ञान (यंत्रस्थ)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
हरनाथ सहाय	चितन १॥)	अशोक प्रेस
हरिभाऊ उपाध्याय	भागवत-धर्म ५॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
विविध	गीता रहस्य २॥)	साहित्य सदन
	पूजा के फूल ...)	भारत प्रकाशन मन्दिर
	बुद्ध और बौद्ध साधक १॥)	सस्ता साहित्य मण्डल

## शिक्षा, मनोविज्ञान तथा बाल-मनोविज्ञान

आत्मानन्द मिश्र	भूगोल शिक्षा पद्धति ३॥॥)	साहित्य निकेतन
आर० मेहरोत्रा	शिक्षा सिद्धान्त १॥)	किताब महल
ईश्वरचन्द्र वर्मा	आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान ५)	आत्माराम एण्ड सन्स
एम० डी० जफर	शिक्षण मनोविज्ञान २)	रामनारायण लाल
	शिक्षाशास्त्र २॥)	किताब महल
एस० पी० कनल	बालक का भाव विकास ५)	आत्माराम एण्ड सन्स
एस० पी० सिंह	शिक्षा के दार्शनिक आधार २॥)	किताब महल
कंचनलता सक्करवाल	सरल बाल मनोविज्ञान १॥॥)	हिन्दी भवन
के० के० जसवानी	कला की परख ४)	आत्माराम एण्ड सन्स
कैरोलीन प्रैट	बच्चा मेरा शिक्षक १॥)	राजकमल प्रकाशन
कृष्णकुमार जमुआर	प्रवेशिका मनोविज्ञान १)	श्रीअजन्ता प्रेस
	संक्षिप्त बाल-मनोविज्ञान १॥)	”
	सामान्य मनोविज्ञान २)	”
गुलाब राय	मन की बातें ३)	आत्माराम एण्ड सन्स
चन्द्रकांत शाह	भूगोल शिक्षण के सिद्धान्त २)	किताब महल
जगदीशचन्द्र शास्त्री	नवीन भारत के पब्लिक स्कूल १॥)	”
जगदीशप्रसाद व्यास	भारत में अँग्रेजी शिक्षा इतिहास ५)	सुषमा साहित्य मन्दिर

जगदीशसिंह	उलके बच्चे	१॥॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	बच्चे के प्रारम्भिक वर्ष	३)	"
	हमारे बच्चे	२)	"
जाकिर हुसेन	शिक्षा	३)	राजकमल प्रकाशन
द्वारकाप्रसाद	अपने बच्चे से कैसे कहूँ	१॥॥	नीलाभ प्रकाशन
	किशोरों की मनोवैज्ञानिक		
	समस्याएँ	२॥॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	बच्चे कहाँ से आते हैं	२॥॥	"
	मानव मनोविज्ञान	६)	नीलाभ प्रकाशन
प्रियरत्न आर्ष	क्रियात्मक मनोविज्ञान	२)	राजपाल एण्ड सन्स
भागवतलाल श्रीवास्तव			
तथा पलकधारी त्रिपाठी	शिशु-प्रबोध-प्रणाली	२)	रामनारायण लाल
भुवनेश्वर प्रसाद	भारतीय शिक्षा का इतिहास	६)	श्रीधरजन्ता प्रेस
महाजोत सहाय	जीव वृत्ति-विज्ञान	१॥॥	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
शुबिष्टिर कुमार	अपने बालक को पहचानिये	१॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
रतिभानुसिंह 'नाहर'	बालक का भविष्य सुधारने		
	की कला	२॥॥	किताब महल
	बालक के लालन-पालन		
	की कला	२॥॥	"
राजकमल मनोविज्ञान	अध्ययन कैसे करें	१)	राजकमल प्रकाशन
माला	चिन्ता	१)	"
	प्रेम और विवाह	१)	"
	बचपन के पहले पाँच साल	१)	"
	बचपन: पाँच से दस साल	१)	"
	माता पिता की समस्या	१)	"
	मित्र बनाने की कला	१)	"
	व्यक्तित्व	१)	"
	स्मरणशक्ति	१)	"
	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग १)	१)	"
	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग २)	१)	"

राजकमल मनोविज्ञान भाषा	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग ३)	१)	राजकमल प्रकाशने
	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग ४)	१)	”
	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग ५)	१)	”
	हमारे जीवन का अर्थ		
	(भाग ६)	१)	”
	हीन भाव	१)	”
राजेन्द्रप्रसाद	भारतीय शिक्षा	३)	आत्माराम एचड सन्स
राधानाथ चतुर्वेदी	बच्चों की देख-भाल	३॥॥	किताब महल
रामगोपाल सखड	शिक्षा-शास्त्र की रूपरेखा	१॥॥	रामनारायण लाल
राममूर्ति मेहरोत्रा	बाल विकास	२॥॥	साहित्य भवन लि०
लालजीराम शुक्ल	बाल मनोविज्ञान	२)	ना० प्र० सभा
१ विश्वनाथ सहाय माथुर			
तथा शची माथुर	शिक्षण प्रविधि	२॥॥	राजकमल प्रकाशन
सरयूप्रसाद चौबे	बाल मनोविज्ञान	५)	रामनारायण लाल
स्वर्णलता तथा 'नाहर'	बालक के प्रति निर्दयता	२॥॥	किताब महल
सावित्रीदेवी वर्मा	आपका मुन्ना सचित्र (भाग	१)	
	पालन-पोषण	३॥॥	आत्माराम एचड सन्स
	आपका मुन्ना : सचित्र		
	(भाग २) समस्यायें	५)	”
	आपका मुन्ना : सचित्र		
	(भाग ३) शिक्षण	५)	”
हरिकृष्ण मिश्र	शिक्षण अभ्यास	॥=)	साहित्य निकेतन
हरिनाथ बांचू	भारतीय शिक्षा के अनुभव	२)	रामनारायण लाल
हंसराज भाटिया	शिक्षा मनोविज्ञान	४)	ज्ञानमण्डल लि०
	सरल मनोविज्ञान	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
विविध	बालकों के सुधार	...)	साहित्य प्रकाशन
	हमारे बच्चे : ६ से १२ वर्ष		
	तक	४॥॥	राजकमल प्रकाशन

## विज्ञान

अवध उपाध्याय	सापेक्षवाद	१॥)	हि० सा० सम्मेलन
आर० सी० विजय	सरल रेडियो-विज्ञान	६)	आत्माराम एण्ड सन्स
उमाशङ्कर	जीव विज्ञान तथा भूगर्भ-शास्त्र	३॥॥)	किताब महल
ए० एन० पुरी	गणित-भाग भौतिक-विज्ञान	५)	आत्माराम एण्ड सन्स
गोरक्षप्रसाद	चन्द्र सारिणी	२)	ना० प्र० सभा
	सूर्य सारिणी	२)	"
	सौर परिवार	१५)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
चम्पतस्वरूप गुप्त	जन्तु-विज्ञान	११)	किताब महल
त्रिलोकीनाथ वर्मा	हमारे शरीर की रचना	१०=)	मोतीलाल बनारसीदास
दयानन्दन पन्त	विकासवाद	२॥)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
दयास्वरूप	धातु-विज्ञान	६)	ना० प्र० सभा
तथा अन्य	श्रौद्योगिक ईन्धन	८)	"
धर्मनारायण	वनस्पति शास्त्र (Botany)	६)	किताब महल
नानकशरण खरे तथा	प्रयोगिक भौतिक शास्त्र की		
विष्णुकुमार गंगल	मौखिक प्रश्नावली	३)	आत्माराम एण्ड सन्स
नारायणदास बाजोरिया			
तथा गंगाप्रसाद भौतिका	सरल शरीर विज्ञान	१॥॥)	हि० सा० सम्मेलन
पी० डी० शुक्ल	गाँत विज्ञान	३॥॥)	"
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव	परमाणु-शक्ति	२॥॥)	ज्ञानमण्डल लि०
	विज्ञान की प्रगति	२॥॥)	"
	विज्ञान के चमत्कार	२॥॥)	"
मिश्र	प्रारम्भिक श्रौद्योगिक		
	रसायन	५)	किताब महल

मुरलीधर जोशी	द्रव्यशास्त्र	२॥	हि० सा० सम्मेलन
रामचन्द्र तिवारी	धरतीमाता (सचित्र) (प्रेस में)		आत्माराम एफड सन्स
	पानी बोला (सचित्र)	२॥॥	”
	विज्ञान और सिम्ब्यता	४॥	”
सत्यप्रकाश	कुछ आधुनिक आविष्कार	५॥	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
	सामान्य रसायन शास्त्र	१०॥	भारती भण्डार
	सृष्टि की कथा	१॥॥	हि० सा० सम्मेलन
हरिनारायणाचार्य चतुर्वेदी	अंक-ज्योतिर्ज्ञान	२॥॥	किताब महल
हरिश्चन्द्र गुप्त	चलराशि कलन	४॥	हि० सा० सम्मेलन
विविध	वनस्पति-विज्ञान	१॥॥	न्यू लिटरेचर

## स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा वैद्यक

अचलबिहारी सेठ	परिचर्या-प्रणाली	॥॥॥	ना० प्र० समा
अत्रिदेव	आयुर्वेद का इतिहास	३॥॥	मोतीलाल बनारसीदास
	भैषज कल्पना	१॥॥॥	”
अत्रिदेव गुप्त तथा	क्लीनिकल मेडीसन		
हरिश्चन्द्र वर्मा	(दो भाग)	२५॥	”
आद० मेहरोत्रा	शरीर-विज्ञान और		
	स्वास्थ्य-कला	॥॥॥	किताब महल
आशानन्द	व्याधि-विज्ञान (२ भाग)		
	प्रत्येक ६॥		”
एम० आर० मसानो	हमारी खूराक	१॥	ज्ञानमण्डल लि०
किशोरीदत्त वैद्य	कौमार्य भृत्य	१॥॥	साहित्य निकेतन
	गृहवस्तुचिकित्सा	१॥	”
जानकीशरण वर्मा	अचूक चिकित्सा के प्रयोग	२॥॥	भारती भण्डार
	रोगों की अचूक चिकित्सा	७॥	”
जैब बति गंगाराम	रंगयति निदान	६॥	मोतीलाल बनारसीदास
१५			

नरेन्द्रनाथ	मेघविनोद-मेघमुनि प्रणीत	६)	मोतीलाल बनारसीदास
नारायणराव	संगीत व्यायाम	३)	आत्माराम एचड सन्स
बाबेरवरप्रसाद सिंह	कब्ज या कोष्ठबद्धता	१)	भारती भण्डार
मनमोहन भूप	मलेरिया	२१)	मोतीलाल बनारसीदास
मनसारायण शुक्ल (हकीम)	यूनानी चिकित्सा सागर	१०)	,,
	यूनानी तिब्ब का		
	फार्माकोपिया	५)	,,
बादवजी त्रिविक्रमजी	द्रव्यगुण विज्ञान	३१)	,,
	रसामृत	५)	,,
रमेशचन्द्र	कफ परीक्षा	११)	,,
	हृदय परीक्षा	२)	,,
रामनाथ वर्मा	वर्मा एलोपैथिक गाइड	१०)	,,
	वर्मा एलोपैथिक चिकित्सा	१२)	,,
सुरकुने	नवीन चिकित्सा-विज्ञान	५)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
विविध	कब्ज : कारण और		
	निवारण	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
	दुग्ध चिकित्सा	१)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	प्राकृतिक चिकित्सा	१॥)	,,
	मधु चिकित्सा	१)	,,
	मैं तन्दुहस्त हूँ या बीमार	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
	योग चिकित्सा और		
	सुगम चिकित्सा	१॥)	हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
	स्वास्थ्य-संलाप	१)	साहित्य सदन
	हमारा भोजन	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल

## यौन-विज्ञान

चन्द्रिका नारायण शर्मा	मानवोत्पत्ति-विज्ञान	२)	ना० प्र० सभा
वी० एच० चोपरा	निग्रही परिचय	१॥)	सुप्रभा साहित्य मन्दिर



	सन्तति निग्रह क्यों और कैसे १॥॥	मुषमा साहित्य मन्दिर
मन्मथनाथ गुप्त	समाज, आचरणहीनता व यौनिक रोग २॥	"
मेरी स्टोप्स	यौन-विज्ञान और वैवाहिक जीवन ५॥	सरस्वती प्रेस
	सेक्स का स्वभाव ३॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	दाम्पत्य-प्रेम २॥॥	राजकमल प्रकाशन
	स्थायी-प्रेम २॥॥	"
	सन्तति नियमन १॥॥	"
स्वामी शिवानन्द विविध	ब्रह्मचर्य ही जीवन है संजीवनी विद्या ॥॥	मुषमा साहित्य मन्दिर हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर

## सामान्यज्ञान

गङ्गाप्रसाद गौड़ 'नाहर'	दुग्ध-विज्ञान १॥	श्रीअजन्ता प्रेस
जगधर झा	सुलभ-विज्ञान ५॥	रामनारायण लाह
ज्वालाप्रसादसिंह	जीव-विज्ञान ३॥	श्रीअजन्ता प्रेस
पारसनार्थसिंह	पक्षी-परिचय २॥॥	भारती भवडार
पूर्णमासीसिंह	सामान्य-ज्ञान परिचय १॥॥	किताब महल
महेशप्रसाद तिवारी	इतना तो जानो १॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
रामचरित्रसिंह	विश्व का विकास २॥॥	श्रीअजन्ता प्रेस
रामनरेश त्रिपाठी	इतना तो जानो १॥	हि० सा० सम्मेलन
रामनारायण 'यादवेन्दु'	विश्व ज्ञान भारती १०॥	"
रा० र० खाडिलकर	रेडियो ॥॥	ना० प्र० सभा
श्यामनारायण कपूर	भारतीय वैज्ञानिक ३॥॥	साहित्य निकेतन
श्यामसुन्दर कौल	सरल विज्ञान २॥	रामनारायण लाह
साहा	नवीन सामान्य ज्ञान १॥॥	किताब महल
शुरेशसिंह (कुँवर)	हमारी चिड़ियाँ ४॥	भारती भवडार

## कला तथा दस्तकारी

अरविंद भारती	भारतीय कला की रूपरेखा १।)	रामनारायण लाल
अवध द्विवेदी	चित्रकला	हि० सा० सम्मेलन
देवदत्त आरोड़ा	चर्म बनाने के सिद्धान्त ६।)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
नन्दलाल बसु	शिल्प-कथा १।)	साहित्य भवन लि०
नानालाल चमनलाल		
मेहता	भारतीय चित्रकला (अप्राप्य)	हिन्दुस्तानी एकेडेमी
मनोहरलाल	कला : एक अध्ययन ३।)	रामनारायण लाल
श्यामनारायण कपूर	साबुन-विज्ञान ६।)	साहित्य निकेतन
श्यामलाल पचौरी	जिल्दसाजी १।।)	किताब महल
	प्रेस-कार्य शिक्षक ॥=)	”
श्रीनारायण अग्निहोत्री	फाउन्टेनपेन १।।)	पद्मजा प्रकाशन
हरद्वारीलाल शर्मा	कला-विज्ञान १।)	हि० सा० सम्मेलन
	सौंदर्य-शास्त्र २।)	साहित्य भवन लि०
हरिचन्द्र रत्ता	लोको-गाइड (सचित्र) १०।)	आत्माराम एण्ड सन्स
	लोको-मोटिव वाल्व सेटिंग ५।)	”
विविध	गृहविधान (स्थापत्य कला) १०।)	सस्ता साहित्य मण्डल

## पत्रकारिता

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी	समाचारपत्रों का इतिहास ६।)	ज्ञानमण्डल लि०
[ कमलापति त्रिपाठी	पत्र और पत्रकार ६।)	”
रा० र० खडिलकर	आधुनिक पत्रकार कला ३।।)	”
रोलैंड ई० वूल्सले	भारतीय पत्रकार कला ६।)	”

# गृहविज्ञान तथा महिलोपयोगी

कंचनलता सम्बरवाल	गृह-विज्ञान	६]	हिन्दी भवन
कामताप्रसाद गुरु	पार्वती और यशोदा	१॥]	सुषमा साहित्य मन्दिर
गार्गी वर्मा	क्रियात्मक वस्त्र-प्रचालन		
	शिक्षा	॥]	रामनारायण लाल
गिरिजाशङ्कर द्विवेदी	गृहणी-भूषण	॥॥]	"
चक्र० राजगोपालाचार्य	शिशु पालन	॥]	सस्ता साहित्य मण्डल
चतुरसेन शास्त्री	पुत्रियाँ कैसे हों	१॥]	नवयुग साहित्य सदन
कुविनाथ पायडेय	घर की रानी	२]	ज्ञानपीठ लि०
ज्योतिर्मयी ठाकुर	घर की लक्ष्मी	२॥॥]	न्यू लिटरेचर
	पत्नी के पत्र	३]	"
जानकीशरण वर्मा	सरल शरीर विज्ञान	१॥]	रामनारायण लाल
नारायण स्वामी	गृहस्थ-जीवन रहस्य	२॥]	राजपाल एण्ड सन्स
पी० एल० चोपरा	बाल-विकास	१]	सुषमा साहित्य मन्दिर
पी० मनोहरलाल श्रीमती	गृह प्रबन्ध तथा मातृ कला	१]	रामनारायण लाल
मारगरेट मूर द्वाइट	नारीत्व	३॥]	ज्ञानमण्डल लि०
मुकुटबिहारी वर्मा	बहन को सीख	२]	आत्माराम एण्ड सन्स
मुकुन्दस्वरूप वर्मा	गर्भ-विज्ञान	१=]	रामनारायण लाल
	गृह प्रबन्ध	॥=]	"
	मातृ-कला	॥॥]	"
	शरीर प्रदीपिका	५]	"
	शिशु पालन	१॥]	ना० प्र० सभा
	शिशु संरक्षण	२]	रामनारायण लाल
	स्वास्थ्य प्रदीपिका	१॥]	"
	स्वास्थ्य परिचय	२।]	"
भगवतीप्रसाद	आहार, संयम और स्वास्थ्य	३]	"

राजकुमारी बिन्दुल	नारी-जीवन-चक्र	१॥॥	मयूर प्रकाशन
रानी टंडन	क्रियात्मक गृहविज्ञान	१॥॥	रामनारायण लाल
व्यथित हृदय	शिशु पालन	॥=॥	”
विद्याधरी जौहरी	शिल्प-माला	६)	हिन्दी भवन
शंकरसहाय सक्सेना	गृह अर्थशास्त्र और गृह- प्रबन्ध	३॥॥	रामनारायण लाल
शान्ति रमण	अजन्ता-गृह विज्ञान	१॥॥	श्रीमजन्ता प्रेस
शान्तिस्तता	घर की छाँह	१॥॥	अशोक प्रेस
शिवदयाल गुप्त	तत्कालिक चिकित्सा	१॥॥	रामनारायण लाल
शिवपुरी (श्रीमती) तथा			”
कु० हेमलता	गृह-विज्ञान	१॥॥॥	”
श्रीप्रकाश	गृहस्थ गीता	१॥॥	साहित्य सदन
श्रीमन्नारायण श्रीवास्तव	तीमारदारी	॥॥॥	रामनारायण लाल
सत्यकाम विद्यालंकार	जीवन-साथी	३॥॥	राजपाल एबड सन्स
सन्तराम	आदर्श-पत्नी	२॥॥	”
सावित्री देवी वर्मा	आदर्श माता-पिता	१॥॥	राजकमल प्रकाशन
	कैसे पकाएँ : क्या खाएँ	१॥॥	”
	नारी का रूप शृङ्गार	६)	”
विविध	अच्छी बुनाई	३)	न्यू लिटरेचर
	बारह वर्ष (बालकों का लेखा- जोखा रखने की पुस्तक)	१॥॥, १॥॥॥	साहित्य निकेतन
	भारत की वीर नारियाँ	१॥॥	हिन्दी भवन

## संगीत

रामावतार संगीताचार्य	सङ्गीत परिचय (३ भाग) ३॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
हरिरचन्द्र बालि	भारतीय सङ्गीत विज्ञान १॥)	हिन्दी भवन
विविध	पुष्पाञ्जलि १)	राजपाल एण्ड सन्स
	हारमोनियम पुष्पाञ्जलि २)	॥

## बाल-साहित्य

अशोक प्रेस	आज फिर सुनो (२ भाग), ब्रजबिहारी हम इनसे सीखें (२ भाग), सुरेश कुमार बापू, जगदीश चन्द्र देशरत्न राजेन्द्र प्रसाद, जगदीश चन्द्र	प्रत्येक ॥॥) प्रत्येक ॥॥) प्रेस में प्रेस में
आत्माराम एण्ड सन्स	सच्ची बहादुरी और दूसरी कहानियाँ (२ भाग), रामस्वरूप कौशल रामायण की कहानियाँ, राज बहादुर सिंह कथा रत्न माला, आनन्द कुमार अनमोल कहानियाँ, आनन्दकुमार काम की कहानियाँ, आनन्दकुमार रामायण की कहानियाँ, राजबहादुर सिंह सेर का सवा सेर, श्रीकृष्ण बाल एकादशी, रमेश भाई शक्ति गुप्ता सचित्र अक्षरज्ञान, रामलालपुरी देखो, पढ़ो, लिखो भाग १ रमेश भाई नटखट पूसी, रमेश भाई बाल कथा, (भाग १), सुषमारानी शास्त्री ३ भाग गुरुदक्षिणा, सन्तराम घटस्य बालनीति कथा (२ भाग), विष्णुदत्त विकल	प्रत्येक १॥) १॥) प्रेस में प्रेस में प्रेस में प्रेस में प्रेस में १॥) ॥॥) ॥=) १=) ॥॥) प्रत्येक १॥)
	चिड़ियाघर की सैर, पृथ्वीनाथ शर्मा बाल ज्ञान, सुषमा राणी (२ भाग)	१॥) १)

बाल-बोध, सुषमा रानी २ भाग	१५
बीरबल का बेटा, मनोरमा मालवीय	१५
वर्णबोध	१५)
सचित्र, शब्दबोध, राजेश्वरी	१५), ॥३=)
चित्रमय बाल कहानियाँ, राजेश्वरी	॥५
चालाक भैंस, रमेश भाई	॥५
भूत भाग गया, अरूण	१५
गाय और बाघ, विराज	॥५
बाल-मेला, शम्भूनाथ शेष	॥५
एक था राजा, एक थी रानी, 'चिरंजीव	१५)
नटखट के गीत चिरंजीव	१५)
शिशुगान, आस्वी० अवधेश	१५)
अमृत का भरना, लक्ष्मण त्रिपाठी	५)
कथा-मञ्जरी, नागार्जुन	१५)
बूढ़े, बच्चे, रामचन्द्र-तिवारो	१५)
रामायण, चित्रमय कहानियाँ	१५)

सादो ॥५), रङ्गीन १५)

काँसी की रानी, ( " )	॥५
महाभारत, ( " )	१५)
शकुन्ता, ( " )	१५)
कृष्ण च रेव, ( " )	१५)
महाराणा प्रताप, ( " )	१५)
वीर बालक, ( " )	॥५)
शिवाजी, ( " )	१५)
महात्मा गांधी गोपालप्रसाद व्यास	१५)
छिक-छिक, धर्मपाल शास्त्री	१५)
दोनों को उल्लू बनाया, ( " )	॥५)
पतलून की बन गई निक्कर ( " )	॥५)
मुन्नों के गीत ( " )	॥५)
आओ बच्चो ( " )	॥५)
अमर सन्देश, 'आनन्द'	॥५)

ओरिएण्टल बुक डिपो

ओरिएण्टल बुकडिपो	गांधी दर्शन, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	चमकते तारे, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	सैर सपाटे, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	वीरता की कहानियाँ, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	बापू की बातें, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	बच्चों का मंच, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	पदों के खेल, सन्त गोकुलचन्द्र	॥॥
	बाल-गीत, कृष्णदत्त भारद्वाज	॥॥
	सरल-गान, शान्ता सन्त	॥॥
	मधुर-गान, शान्ता सन्त	॥॥
	सरस-गीत, शान्ता सन्त	॥॥
	बबु प्रा के बोल, शान्ता सन्त	॥॥
	नटखट पिकू, प्रशान्त	॥॥
	बाल-अभिनय, प्राशान्त	॥॥
	रोचक-कहानियाँ, प्राशान्त	॥॥
	मीठी कहानियाँ, प्राशान्त	॥॥
	बलिदान की कहानियाँ, प्राशान्त	॥॥
	बच्चों के बापू, जीवनाथ	॥॥
न्यू लिटरेचर	सम्पादकजी	६)
	नट का खेल	६)
	ननिहाल	६)
	बहादुर राजकुमार	६)
	मेरी चिट्ठी	६)
	भयानक सपना	६)
	मुजू की चिट्ठी	६)
	हीरे का पेड़	६)
	काठ का घोड़ा	६)
नागरी प्र० सभा	विगुल, गंगाप्रसाद मिश्र	॥॥
	कहानी से मनोरंजक सच्ची घटनाएँ, शङ्कर	१॥
	जीवों की कहानियाँ, कुँवर सुरेश सिंह	४)
	बालोपदेश, रामनाराण मिश्र	॥॥
	भारतीय शिष्टाचार, रामनायाण मिश्र	॥

नीलाभ प्रकाशन	घर बैठे सैर : जरमनी	॥॥
	घर बैठे सैर : लयदन	॥=)
वैशानल पब्लिशिंग हाउस अन्तर गान, अमृता कपूर	एक, दो, तीन, अमृता कपूर	१॥
	सरल हिन्दी (२ भाग), भगवन्तकिशोर	॥॥

क्रमशः ॥=), ॥=)

आचरण कैसा हो, सन्तराम वत्स्य	॥॥
लाखों में एक, सन्तराम वत्स्य	॥॥
बड़ों का बचपन, सन्तराम वत्स्य	॥=)
बालकों के गीत, सन्तराम वत्स्य	॥॥
महामारत की कहानी, बालकृष्ण	१॥
मौजी शंकर, जगन्नाथ शर्मा	॥॥॥
बम्बई की गुड़िया, जगन्नाथ शर्मा	॥॥॥
उपवन में, जगन्नाथ शर्मा	१॥
प्रकृति के दरबार में, जगन्नाथ शर्मा	१॥
हँसो और सीखो, पुरुषोत्तमलाल	१॥
स्वर्ग पर चढ़ाई, माधव	॥=)
पं० जवाहरलाल नेहरू, शकुन्तला अग्रवाल	॥=)
देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, शकुन्तला अग्रवाल	॥=)
भीष्म, शकुन्तला अग्रवाल	॥॥॥
गुरु नानक, एस० श्रीवास्तव	॥॥
पूरन भक्त, एस० श्रीवास्तव	॥=)
संत वाणी, एस० श्रीवास्तव	प्रत्येक ॥=)
आओ मित्र बनाएँ, बालकृष्ण	॥=)
जब ये बच्चे थे, बालकृष्ण	॥=)
बाल रामायण, बालकृष्ण	॥=)
तीन तारे, पुरुषोत्तमलाल	॥=)
कहाँ से कहाँ तक,	॥=)
आकाश की सैर, पुरुषोत्तमलाल	॥=)
वास्कोडिगामा,	॥=)
मार्को पोलो, पुरुषोत्तमलाल	॥=)
कोलम्बस, पुरुषोत्तमलाल	॥=)



	अनोखी राजकुमारी, पुरषोत्तमलाल	१=)
राजकमल प्रकाशन	अमृत के घड़े, पृथ्वीकुमार अग्रवाल	॥१=)
	सोने का नीबू, श्रीमती किरण	१)
	पीली बत्तक, चीन की कहानियाँ	१)
	तरन्दाज़, "ई" चीन की कहानियाँ	१)
	बरफीले देश में, रूस की कहानियाँ	१)
	पहला शिकार, रूस की कहानियाँ	१)
	बच्चों की कचहरी, केशवचन्द्र वर्मा	१)
	आश्रो दोस्त बनाएँ, सईदा सैय्यदैन	॥१)
	जंगल में शेर, कुदसिया जैदी	१)
	चमचम चमके वन्दा मामा, बाबूराम पालीवाल	१)
	बाल पञ्चतन्त्र, शकुंतला देवी	१॥१)
	पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (१), शकुंतला देवी	१)
	पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (२), शकुंतला देवी	१)
	पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (३), शकुंतला देवी	१)
	हमारे बापू, इन्द्रनाथ मदान	॥१=)
	हमारे नेहरू, इन्द्रनाथ मदान	॥१=)
	हमारे गुरुदेव, इन्द्रनाथ मदान	॥१=)
	मुंशी प्रेमचन्द, इन्द्रनाथ मदान	॥१=)
	लेनिन, इन्द्रनाथमदान	॥१=)
	लिनकन, इन्द्रनाथ मदान	॥१=)
राजपाल पब्लिशर्स	सरल महाभारत, सत्यकाम त्रिघालंकार	॥१)
	सरल रामायण, विनोद,	१)
	महाराणा प्रताप, विश्वनाथ	१=)
	रसीली कहानियाँ, विश्वनाथ	॥)
	गलीवर की कहानी, विश्वनाथ	॥=)
	हँसो औ सीखो, विश्वनाथ	॥)
	सदाचार और साहस की कहानियाँ, विश्वनाथ	॥१=)
	मेरी कहानी सुनो, विश्वनाथ	॥=)
	शिक्षापूर्ण कहानियाँ, विश्वनाथ	॥=)
	महापुरुषों के संस्मरण, विश्वनाथ	॥१)
	साहस के पुतले, विश्वनाथ	॥१)

राजपाल एबड सन्स	अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द, धर्मदेव	१)
	बालशिवराजी, सत्यकाम विद्यालंकार	१=)
	पारस, सुदर्शन	११=)
	फूलों का गुच्छा, सुदर्शन	११=)
	बाल सत्यार्थ प्रकाश, विश्वनाथ	१)
	हमारे स्वामी, चमूपति	११=)
	सरल नागरिकशिक्षा (दां भाग), विनोद	१११)
	राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, विनोद	१११)
	स्वामी विवेकानन्द, विनोद	१११)
	स्वामी रामतीर्थ, विनोद	१११)
	लाला लाजपतराय, विनोद	१११)
	जवाहरलाल नेहरू, विनोद	१११)
	लोकमान्य तिलक, विनोद	१११)
	महात्मा गाँधी, विनोद	११=)
	सरदार पटेल, विनोद	१११)
	हमारे राष्ट्रनिर्माता, सत्यकाम विद्यालंकार	१११)
	आविष्कारों की कहानियाँ	१११=)
	तूती वाला, इन्द्रनाथ मदान	१११)
	तीन रीछ, इन्द्रनाथ मदान	१११)
	हंस और गीता, इन्द्रनाथ मदान	१११)
	सोने की नदी, इन्द्रनाथ मदान	१११)
	जादू की अँगूठी, इन्द्रनाथ मदान	१११)
रामनारायण लाल	धूल भरे हीरे, रामेश्वर प्रसाद	११=)
	धरती के लाल, अशोक	११=)
	बाल भारत, रामदहिन मिश्र	१=)
	बाल रामायण, रामदहिन मिश्र	११)
	श्रीमद्भगवद्गीतार्थ, द्वारकाप्रसाद शर्मा	१=)
	पुराणों की कहानियाँ (२ भाग), रामदहिन मिश्र	१=)
	प्रत्येक	१=)
	रामायण के उपदेश, रामदहिन मिश्र	१=)
	भरत की जीवनी, गिरजाशङ्कर द्विवेदी	१=)

रामनारायण लाल

श्रीरामकृष्ण कथामृत (२ भाग), रामदहिन मिश्र

	प्रत्येक १२)
पुरानी कथाएँ	१२)
पौराणिक कथाएँ	१२)
भारत के प्रतापी नरेश	१२)
बाल रासो, कुँवर कन्हैया जू देव	१२)
बाल हम्मीर, कुँवर कन्हैया जू देव	१२)
राजपूतों की कहानियाँ, रामदहिन मिश्र	१२)
पंजाब केसरी, केदारनाथ भट्ट	१२)
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, नन्दकिशोर सिंह	१२)
साहसी बच्चे, मुरारीलाल शर्मा	११३)
भारत के प्रसिद्ध पुरुष, रत्नन द्विवेदी	१२)
आर्य ललना, मञ्जन द्विवेदी	१२)
भारत की भक्त नारियाँ, व्याथित हृदय	१२)
अमर सेवार्ये, व्याथित हृदय	१२)
शूरवीरों की कथाएँ, व्याथित हृदय	१२)
कहानी कुञ्ज (२ भाग), रामनारायण	प्रत्येक ११)
महाराणा प्रताप, ठाकुरदत्त मिश्र	१२)
बाल कहानी, सैयद कासिम अली	१२)
ऐतिहासिक कहानियाँ (दो भाग), ए० बी० माण्डे	
	प्रत्येक १३)
बीस ऐतिहासिक कहानियाँ, शकुंतला देवी खरे	१)
विज्ञान की सरल बातें, रामदहिन मिश्र	१२)
अद्भुत संसार, बेनीप्रसाद अग्रवाल	११)
प्रकृति पर विजय, श्रीमती एम० जफर	११)
भारत का भूगोल, रामदहिन मिश्र	१२)
यूरोप और एशिया का परिचय, रामवृत्त लाल	१११)
आश्चर्य सप्तदशी, चतु० द्वारकाप्रसाद शर्मा	१२)
रैन बसेरा, मुरारीलाल शर्मा	१२)
भारत के मशहूर स्थान	१२)
जमीन आसमान की बातें,	१२)
जीवों की कहानी जीवों की जबानी (४ भाग),	११३)

रामनारायण खाल	सोहराव और रुस्तम, रामचंद्र शुक्ल 'सरस'	३७
	राबिन्सन क्रूसो, रामदहिन मिश्र	१०७
	इसबर्नीस-कथा (२ भाग), रामदहिन मिश्र	प्रत्येक ॥७
	अलादीन, रामदहिन मिश्र	१०७
	चारुचरित चर्चा	॥७
	पशु और वनस्पति, बेनीप्रसाद अग्रवाल	१०७
	मिट्टी के दीप, व्यथित हृदय	॥७
	पशु कौतुक, व्यथित हृदय	१०७
श्रीअजन्ता प्रेस	जादू की बंसी, विन्ध्याचल प्रसाद	॥७
	कासिम का चम्पल, जगदानन्द झा	॥७
	जादू का थैला, जगदानन्द झा	॥७
	सत्तू में भैंस, विन्ध्यवासिनी देवी	॥७
	साढ़ और बेंग, राधाकृष्ण प्रसाद	॥७
	चोर राजा, राधाकृष्ण प्रसाद	॥७
	नकली सिंह, राधाकृष्ण प्रसाद	॥७
	लहरदार पूंछ, राधाकृष्ण प्रसाद	॥७
	ऊँचे ऊँट, राधाकृष्ण प्रसाद	॥७
	अमर कथायें (४ भाग), बेनीपुरी	
	क्रमशः १०७, १०७, १०७, १०७	
	अनोखा संसार, बेनीपुरी	१०७
	हम इनकी सन्तान हैं (२ भाग), बेनीपुरी	प्रत्येक ॥७
	दालिम कुमार, शिवस्वरूप वर्मा	॥७
	सीत-वसन्त,	॥७
	उपदेश की कहानियाँ (४ भाग), अनूपखाल मण्डल	
	क्रमशः १०७, १०७, १०७, १०७	
	माँ के सपूत, शिवपूजन सहाय	१०७
	मामाजो, शशिनाथ झा	॥७
	राजकुमारी का ब्याह, दयाभानु	१०७
	शेर का शिकारी, देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त	॥७
	फूलों की रानी, हरिदयाल चतुर्वेदी	१०७
	रत्नाकर, शशिनाथ झा	१०७
	दोचक्र कहानियाँ, सुरेश्वर पाठक	१०७

## श्रीधजन्ता प्रेस

बच्चों की मनोरम कहानियाँ, भवनाथ मिश्र	॥॥
अनोखे देश में, गिरधारी लाल	॥॥
जलेबी, ब्रजकिशोर नारायण	॥
रसगुल्ले, ब्रजकिशोर नारायण	॥
आकाश की सैर, सुरेश्वर पाठक	१)
लालाजी, शशिनाथ झा	॥॥
सोने का कीड़ा, गिरधारीलाल शर्मा	॥॥
रिपवान विकिल, गिरधारीलाल शर्मा	॥॥
आपने सुना है ? (६ भाग), गिरधारीलाल शर्मा प्रत्येक	॥॥
जंगल बोलता है, गिरधारीलाल शर्मा	१)
रत्नदीप, गिरधारीलाल शर्मा	१)
सियार का न्याय, जगदानन्द झा	॥
काजी का घोड़ा, जगदानन्द झा	॥
चालाक मुर्गी, जगदानन्द झा	॥
चाँद का दूत, जगदानन्द झा	॥
दादा का ढोल, जगदानन्द झा	॥
गधे की सूफ, जगदानन्द झा	॥
समझदार मेढक, जगदानन्द झा	॥
टिंगू और जलप्रेस, जगदानन्द झा	॥
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, छविनाथ पायखेय	॥
विद्रोही सुभाष, छविनाथ पायखेय	॥
लाला लाजपतराय, शुकदेवराय	॥
लोकमान्य तिलक, शुकदेवराय	॥
अर्जुन, शिवपूजन सहाय	१)
भीष्म, शिवपूजन सहाय	१)
अशोक, वीरेन्द्रनारायण	॥
शिवाजी, वीरेन्द्रनारायण	॥
चाणक्य, मथुराप्रसाद दीक्षित	॥
हिन्दी के प्राचीन कवि, शुकदेवराय	॥
हिन्दी के सात महारथी, शुकदेवराय	॥
अमर साहित्यिक, शुकदेवराय	॥
जगदीशचन्द्र बोस, शुकदेवराय	॥

## श्रीब्रजन्ता प्रेस

देशबन्धु चितरन्जन, शुकदेवराय	॥१॥
मदनमोहन मालवीय, शुकदेव राय	॥१॥
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शुकदेव राय	॥१॥
श्रीमती सरोजनी नायडू, शुकदेव राय	॥१॥
पेड़े, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
लड्डू, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
यताशे, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
रंगा सियार, रामगोपाल रुद्र	॥१॥
अनोखी गाड़ी, रामगोपाल रुद्र	॥१॥
भग्गू भाई, रामगोपाल रुद्र	॥१॥
सूरज का ब्याह, दिनकर	॥१॥
मिर्च का मज़ा, दिनकर	॥१॥
पेट्टू पाँडे, दिनकर	॥१॥
वीर बालक, गंगाप्रसाद 'कौशल'	१॥
खट्टे हैं अंगूर, रामगोपाल शर्मा रुद्र	॥१॥
बाँसुरीवाला, विनोदानन्द ठाकुर	॥१॥
ताक-धिनाधिन, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
गोल गपोड़े, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
हँसी-खुशी, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
आ री निंदिया, ब्रजकिशोर नारायण	॥१॥
घरौंदा, गोविन्द शरण	१॥१॥
सस्ता साहित्य मण्डल राष्ट्रीय गीत,	॥१॥
ध्रुवोपाख्यान,	॥१॥
एक देशसेवी परिवार,	॥१॥
बालकों का विवेक, टाखस्टाय	॥१॥
कलवार की करतूत, टाखस्टाय	॥१॥
गाँधी शिक्षा (३ भाग)	१॥१॥
रामतीर्थ संदेश (३ भाग)	१॥१॥
सुवमा साहित्य मन्दिर एकांकी नाटक, रामेश्वर गुरु	॥१॥
आदर्श बाल कविता-संग्रह, रामेश्वर गुरु	॥१॥
पगचिह्न, चंशगोपाल सराफ	॥१॥
बापू की कहानी, (४ भाग, )	॥१॥

सुफ़्फ़ा साहित्य मन्दिर	बच्चों की कहानियाँ	१)
हिन्दी भवन	बाल खिलौना	॥१)
	फुलवारी	१)
	गुलदस्ता	॥१)
	फूलों की डाली	॥१)
	बुलबुल	॥१)
	गुड़-गुड़ी	॥१)
	चुने हुए फूल	१)
	जंगल की कहानियाँ	॥१)
	सात कहानियाँ, सुदर्शन	॥१)
	पंजाब की कहानियाँ (३ भाग), सन्तराम १-२, ॥३॥), ३,	॥१)
	बाल रामायण, विद्याभास्कर शुक्ल	११)
	बाल महाभारत, विद्याभास्कर शुक्ल	११)
	नीति की कहानियाँ (भाग १)	१)
	नीति की कहानियाँ (भाग २)	१)
	नीति की कहानियाँ (भाग ३)	१)
	हमारा भारत, जयचन्द्र विद्यालंकार	१)
हि० सा० सम्मेलन	ऐतिहासिक कथाएँ, इलाचन्द्र जोशी	॥१)
	बाल पंचरत्न	॥१)
	वीर सन्तान	॥१)
	बिजली	॥१)
	बाल भारती	१)
	वीर शतमन्यु	१)
	छत्रपति शिवाजी	॥१)
	बाल कवितावली	१)
	बाल कथा (प्रथम भाग)	॥१)
	बाल नाटक-माला	१)
	बाल कथा (द्वि० भाग)	॥१)
	बाल विभूति	१)
	वीर पुत्रियाँ	१)
शानमण्डल लि०	हम कौन थे क्या हो गये, अखिलेश्वर पाण्डेय	॥१)
	मराठी गाथाएँ, वीरसागर	॥१)

## ज्ञानमंडल लि०

मलयालम कहानियाँ, कृष्ण गोपालन	॥१॥
विदेशी गाथाएँ, सदानन्द झा	॥१॥
सुनहरे पंख	॥१॥
टिपुआ बन्दर, टीपूजी	॥२॥
कौड़िया रानी, कृष्णा देवी	॥२॥
धरती पर धावा, वीरेन्द्र नारायण	॥१॥
बच्चों का रंग-मंच, वीरेन्द्र नारायण	॥२॥
हमारे युग पुरुष, सुरेश्वर पाठक	१॥
आदि मानव, सुरेश्वर पाठक	॥१॥
बालकों के चार नाटक, प्रफुल्लचन्द ओझा	॥२॥
संसार की सैर, रामदयाल पाण्डेय	॥३॥
गाँधी की गूँजती आवाज़, अखिल	॥३॥
बापू की सीख, सुरेश्वर पाठक	॥३॥
बापू की बातें, सुरेश्वर पाठक	॥३॥
बापू को जानो, सुरेश्वर पाठक	॥३॥
मेरा बिहार, सुरेश	१॥
मनुष्य और भूमि, सुरेश्वर पाठक	॥३॥
स्वराज्य का सच्चा अर्थ, सुरेश्वर पाठक	॥३॥
अटकन-मटकन, कृष्णा देवी	॥३॥
उठ-वैठ, कृष्णा देवी	॥३॥
घो-घो रानी, कृष्णा देवी	॥३॥
राष्ट्रपिता, छविनाथ पाण्डेय	॥३॥
हमारी गंगा, सदानन्द झा	॥१॥
तुलसीदल	॥३॥



# किशोर साहित्य

आत्माराम एण्ड सन्स	गधे, हबीब तनवीर	१॥
	गार्गी के बाल-नाटक, परितोष गार्गी	१॥
	सूम का घड़ा, परितोष गार्गी	१
	सरल कहानियाँ, सन्तराम विचित्र	१
	आदमी का जन्म, मन्मथनाथ गुप्त	१॥
	बुद्धि विनोद, आनन्दकुमार	१॥
	नीति प्रमोद, आनन्दकुमार	१॥
	महाभारत की कहानियाँ, राजबहादुर सिंह	१
	सुन्दर कहानियाँ, राजबहादुर सिंह	१
	चरित्र निर्माण की कहानियाँ, राजबहादुर सिंह	१॥
	कथा-भारती, सावित्री देवी वर्मा	१॥
	जंगल ज्योति, सावित्री देवी वर्मा	१॥
	बालकों के चलन, सन्तराम विचित्र	२
	चन्दा मामा का देश, सन्तोष नारायण नौटियाल	४
	बीरबल का बेटा, मनोरमा माजवीय	१
	ऐतिहासिक दृश्य, श्यामलाल	१
किताब महल	ज्वाला मुखो, जगपति चतुर्वेदी	२
	जीने के लिए, जगपति चतुर्वेदी	२
	बिजली की लीला, जगपति चतुर्वेदी	२
	वनस्पति की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२
	समुद्री जीव-जन्तु, जगपति चतुर्वेदी	२
	भूगर्भ विज्ञान, जगपति चतुर्वेदी	२
	वैज्ञानिक आविष्कार (भाग १), जगपति चतुर्वेदी	२
	वैज्ञानिक आविष्कार (भाग २), जगपति चतुर्वेदी	२
	पेनिसिलिन की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२
	कोयले की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२
	परमाणु के चमत्कार, जगपति चतुर्वेदी	२
	तन्त्रों की खोज में, जगपति चतुर्वेदी	२

विलुप्त वनस्पति, जगपति चतुर्वेदी	२)
कीटाणुओं की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२)
शल्य विज्ञान की कहानी, नगपति चतुर्वेदी	२)
आविष्कारों की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२)
श्रद्धभुत जीव-जन्तु, जगपति चतुर्वेदी	२)
शिकारी पक्षी, जगपति चतुर्वेदी	२)
चींटी चींटों की कहानी, जगपति चतुर्वेदी	२)
स्तनपोषी जन्तु, जगपति चतुर्वेदी	२)
जन्तु बिल कैसे बनाते हैं, जगपति चतुर्वेदी	२)
जंतुओं का गृह-निर्माण, जगपति चतुर्वेदी	२)
जलचर पक्षी, जगपति चतुर्वेदी	२)
उथले जल के पक्षी, जगपति चतुर्वेदी	२)
वन-उपवन के पक्षी, जगपति चतुर्वेदी	२)
वन-बाटिका के पक्षी, जगपति चतुर्वेदी	२)
विलक्षण जंतु, जगपति चतुर्वेदी	२)
हिंसक पशु, जगपति चतुर्वेदी	२)
खुरवाले जानवर, जगपति चतुर्वेदी	२)
धरती का राजा, डॉ० महादेव साहा	२)
धरती माता, सूरज	१)
बाल एकांकी, सैयद कासिम अली	११)
विक्रम-उर्वशी, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
कुमार सम्भव, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
मुद्राराक्षस, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
प्रसन्नराघव, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
वेणोसंहार, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
प्रतिज्ञा, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
अभिषेक, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
दुष्यन्त-शकुन्तला, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
उत्तर रामचरित, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
रत्नावली, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
प्रबोध का उदय, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
पंचराम, ठाकुरदत्त मिश्र	११)

किताब महल	चारदत्त, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	विनोद में विवाह, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	नागानंद, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	प्रतिभा, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	प्रियदर्शिका, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	मालविका और अग्निमित्र, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	रघुवंश, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	किरात-अर्जुन, ठाकुरदत्त मिश्र	१॥
	भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, सत्यनारायण व्यास	१॥
	अर्जुन, कर्ण, सत्यनारायण व्यास	१॥
	भीमसेन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, सत्यनारायण व्यास	१॥
	कुन्ती, गांधारी, पांचाली, सत्यनारायण व्यास	१॥
	श्रीरामचन्द्र, सत्यनारायण व्यास	१॥
	भरत, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण, सत्यनारायण व्यास	१॥
गयाप्रसाद प्यड सन्स	हमारी भी कहानी है, प्रेमनारायण श्रीवास्तव	२॥
नागरी प्र० सभा	आत्मोद्धार, रामचन्द्र वर्मा	१॥
	आदर्श जीवन, रामचन्द्र शुक्ल	१॥
	कर्त्तव्य, रामचन्द्र वर्मा	१॥
	पुष्पार्थ, जगमोहन वर्मा	१॥
	मितव्यय, रामचन्द्र वर्मा	१॥
नीलाभ प्रकाशन	घर बैठे सैर : जर्मनी	॥
	घर बैठे सैर : लन्दन	॥
नैशनल पब्लिशिंग हाउस	चाँद की यात्रा (तीन भाग), मेलाराम	प्रत्येक ॥
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस	अन्तहीन कहानी (भाग १), देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
	अन्तहीन कहानी (भाग २), देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
	इस दुनिया का चिड़ियाखाना, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
	नख से शिख तक, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
	यम से लड़ाई, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
	मन की बातें, देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	॥
भारती भण्डार	अपना देश, वासुदेव उपाध्याय	१॥
	वाल्मीकि रामायण-सार, धीरेन्द्र वर्मा	१॥
राजकमल प्रकाशन	परिस्तान, रघुपति सहाय 'किरात'	१॥

राजकमल प्रकाशन	सच्ची नागरिकता, मनरोलीफ़	१॥॥
	एक कदम आगे, मनरोलीफ़	१॥॥
	बचपन की कहानियाँ, शरत्चन्द्र चटर्जी	१॥॥
	धुएँ की फाँसी, एस० ए० ताहिर	१॥॥
	इन्सान की कहानी, मुल्कराज आनन्द	२॥॥
	हिन्दुस्तान की कहानी, मुल्कराज आनन्द	२॥
राजपाल एण्ड सन्स	नीति कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	मनोरंजक कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	भारतीय कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	सदाचार की कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	महापुरुषों की कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	शिक्षाप्रद कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	अमर कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	लोक कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	आदर्श कथाएँ, आनन्दकुमार	१॥
	कालिदास : जीवन और साहित्य, भगवतशरण उपाध्याय	१॥
	हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य, रोशनलाल सिंह	१॥
	पद्मावत की कथा, रोशनलाल सिंह	१॥
	बाल रामचरित मानस, रोशनलाल सिंह	१॥
	कामायनी-सार, रोशनलाल सिंह	१॥
	कालिदास के नाटक, जगदीश दीक्षित आनन्द	१॥
	कालिदास के काव्य, जगदीश दीक्षित आनन्द	१॥
	शेक्सपियर की कहानियाँ (१), धर्मपाल शास्त्री	१॥
	शेक्सपियर की कहानियाँ (२), धर्मपाल शास्त्री	१॥
	भारत की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय १, २	१॥, १॥
	भारतीय संस्कृति की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	१॥
	भारतीय चित्रकला की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	१॥
	भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	१॥
	भारतीय नदियों की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	॥॥
	भारतीय नगरों की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	॥॥
	भारतीय साहित्यों की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	॥॥
	भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	॥॥

राजपाल एण्ड सन्स	विदेशों में भारतीय संस्कृति, भगवत्शरण उपाध्याय	१।)
	सफलता के सिपाही, सन्तराम	२।)
रामनारायण लाल	राष्ट्रीय गीतावली, गंगानारायण द्विवेदी	॥।)
	कथा काव्य, महावीरप्रसाद अग्रवाल	।=)
	कथा काव्य कौमुदी, बाबूलाल भागवत	॥।)
	पौराणिक उपाख्यान, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	॥=)
	द्वि० खं०	।=)
	संक्षिप्त कल्कि पुराण (प्रथम खण्ड), चतुर्वेदी द्वारिक	
	प्रसाद शर्मा	।-)
	समुद्री दुनिया, देव	॥=)
	हिन्दी आख्योपन्यास, (२ भाग), चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	
	प्रत्येक	॥=)
	नेलसन की जीवनी, शिवकुमार शास्त्री	॥।)
	प्रसिद्ध यात्री, व्यथित हृदय	॥=)
	साहसी यात्री (दो भाग), नरोत्तमदास अग्रवाल	।=), ।=)
	भाषा हितोपदेश, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	।-)
	दसकुमारों का वृत्तान्त, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	॥।)
	चरित्र निर्माण, रामाशङ्कर शुक्ल 'रसाल'	१।)
	समाज सेवा, रामाशङ्कर शुक्ल 'रसाल'	।=)
	चरित्र, विकास, जयविजयनारायण सिंह शर्मा	१।)
	चरित्र-प्रदीप, जयविजयनारायण सिंह शर्मा	॥।)
	चरित्र-विकास, हरिऔध	१।)
	साहित्यिक संस्मरण, महावीरप्रसाद अग्रवाल	१।)
	मेरा प्रारम्भिक जीवन, महात्मा गांधी	१।)
	ईसप कथा, चंडिकाप्रसाद वर्मा	।-)
	नाटक कथा संग्रह, वे० अनन्ताचार्य	१।)
	उपासना कल्पद्रुम, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	।-)
	हिन्दी महाभारत, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	॥=)
	भारतीय उपन्यासमाला, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	१।)
	श्रीमद्भागवत-संग्रह, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा	॥=)
	सनातन धर्म प्रवेशिका, नरोत्तम मालवीय	॥।)
	व्रतोत्सव विधान, रामेश्वरप्रसाद ओझा	॥=)

श्रीमन्नारायण लाल

आदर्श महात्मा-गण, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा

प्रथम भाग ॥३॥

द्वितीय भाग ॥१॥

मनोहर सच्ची कहानियाँ, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा ॥१-१॥

भव्य विभूतियाँ, शङ्करसहाय सक्सेना १)

सपूतों की कथाएँ, व्यथित हृदय ॥२॥

पुरुषार्थ के पुतले, व्यथित हृदय ॥२॥

गोद भरे लाल, मुरारीलाल शर्मा ॥३॥

श्रालहा-सार, कुँवर कन्हैया जू देव ॥२॥

त्रिमूर्ति, सद्गुरुशरण अवस्थी ॥१॥

सवारियों की कहानियाँ, देव ॥१॥

आधुनिक आवागमन, सत्यप्रकाश १॥

नवीन आविष्कार, बेनीप्रसाद अग्रवाल ॥१॥

आधुनिक आविष्कार, वासुदेव सहाय ॥३॥

विज्ञान के नवरत्न, व्यथित हृदय ॥२॥

दुनिया की र्फाँकी, मुरारीलाल शर्मा ॥२॥

विश्व की कहानियाँ, देव ॥१॥

देव-दर्शन, देव १॥१॥

श्रीअजन्ता प्रेस

हितोपदेश की कहानियाँ, शशिनाथ झा १॥१॥

संक्षिप्त रामायण कथा, नागार्जुन १॥१॥

रूसी जीवट की कहानियाँ, सुरेश्वर पाठक १॥१॥

समुद्र के मोती, केदारनाथ मिश्र प्रभात १॥

मनोरंजक कहानियाँ, केदारनाथ मिश्र प्रभात १॥

आश्चर्यजनक कहानियाँ, केदारनाथ मिश्र प्रभात १॥

मूर्खों की कहानियाँ, केदारनाथ मिश्र प्रभात १॥

सिन्दबाद की समुद्री यात्रा, राधाकृष्ण प्रसाद १)

रत्नमाला, शशिनाथ झा १)

विचित्र यात्रा, तारकेश्वरप्रसाद वर्मा १)

बेटे हों तो ऐसे, रामवृक्ष बेनीपुरी ॥१॥

बेटियाँ हों तो ऐसी, रामवृक्ष बेनीपुरी ॥१॥

नवरत्न, मोहनलाल महतो वियोगी ॥१॥

कथा कहानी, मोहनलाल महतो वियोगी ॥१॥

श्रीभ्रजन्ता प्रेस	देश द्रोही, मोहनलाल महतो वियोगी	॥१॥
	सप्त सोपान, मोहनलाल महतो वियोगी	॥१॥
	कुछ सच्चे सपने, मोहनलाल महतो वियोगी	॥२॥
	सोख की बातें, मोहनलाल महतो वियोगी	॥१॥
	आदमी	
	संक्षिप्त बाल महाभारत, चन्द्रमाराय शर्मा	१॥
	इनके चरणों पर, रामवृत्त बेनीपुरी	॥१॥
	चित्तौड़ का साका, दिनकर	॥१॥
	बालकों में गाँधी, प्रभुदयाल विद्यार्थी	१॥
	संसार के पथ-प्रदर्शक, छविनाथ पाण्डेय	१॥
	महात्मा गान्धी	॥१॥
	अरविन्द, अनूपलाल मण्डल	॥१॥
	महर्षि रमण	॥१॥
	आत्म-कथा, राजेन्द्र प्रसाद	१॥
	प्राणों की बाजी, छविनाथ पाण्डेय	१॥१॥
सरस्वती प्रेस	कलम, तलवार और त्याग (२ भाग), प्रेमचंद	४॥
	कुत्ते की कहानी, प्रेमचन्द्र	॥१॥
	जङ्गल की कहानियाँ, प्रेमचन्द्र	॥२॥
	दुर्गादास, प्रेमचन्द्र	॥१॥
	रामचर्चा, प्रेमचन्द्र	१॥१॥
	महात्मा शेख सादी, प्रेमचन्द्र	१॥१॥
सस्ता साहित्य मण्डल	शिष्टाचार, कंचनलता	॥१॥
	आत्मोपदेश, एपिक्टेटस	१॥
	पिता के पत्र पुत्री के नाम, जवाहरलाल नेहरू	॥१॥
	कहावतों की कहानियाँ	२॥
साहित्य निकेतन	एवरेस्ट विजेता शेरपा तेनसिंह, श्यामनारायण कपूर	॥१॥
	महाराणा अमरसिंह	॥१॥
हंस प्रकाशन	दुर्गादास, प्रेमचंद	१॥
	राम चर्चा, प्रेमचन्द्र	१॥
	जङ्गल की कहानियाँ, प्रेमचन्द्र	॥१॥
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर	कठिनाई में विद्याभ्यास	॥१॥
	चरित्र गठन और मनोबल, राफ़ बाल्डो ड्राइन	॥२॥

हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर	देश-देश के लोग, विट्ठल राव चाटे	२॥१
	पिता के उपदेश, सुदर्शन	३)
	जीवट की कहानियाँ	२॥१
	वीरों की कहानियाँ, कुँवर कन्हैया जू देव	॥११
	बच्चों का हितोपदेश, सुदर्शन	१)
	राजकुमार सागर, सुदर्शन	॥११
हिन्दी भवन	मनुष्य की कहानी, जयचन्द्र विद्यालङ्कार	॥३)
हि० सा० सम्मेलन	बाल इतिहास (भाग १)	११)
	बाल इतिहास (भाग २)	११)
	मातृभाषा की महत्ता, सैयद अमीर अली	१)
ज्ञानमण्डल लि०	तैरने की कला, कालिदास माणिक	॥१-

## स्काउटिंग

जानकीशरण शर्मा	कैम्प फायर	१)	न्यू लिटरेचर
डी० एल० आनन्दराव	राष्ट्रीय झंडा और उसका प्रयोग	॥१	”
बृन्दाप्रसाद खत्री	गुरुपद शिक्षण	२)	”
श्रीराम बाजपेयी	आग बुझाने का हुनर	१॥१	”
	कोमल पद शिक्षण	१॥१	”
	कोमल पद शिक्षण (गाइड्स के लिए)	१॥१	”
	खेल	२॥११	”
	खेल पचासा	१)	”
	ध्वज शिष्टाचार	॥११	”
	ध्रुव पद शिक्षण	१॥११	”
	रसोइया	॥३)	”
विविध	नेताओं की कलम से	१)	राष्ट्रभाषा प्र० स०
	ममोमा चार्ट	॥३)	न्यू लिटरेचर
	मोर्स चार्ट	१)	”



विविध

स्काउट बच्चों की कहानियाँ १)  
हमारे सोलह गीत और बागह  
सहनाद १=)

हिन्दी भवन

न्यू लिटरेचर

## प्रौढ़-शिक्षा

अली सफदर	पत्नियों का जीवन ॥)	राजकमल प्रकाशन
इ० न० मेर्दिस्की	सोवियत-सङ्घ में सार्वजनिक शिक्षा ३)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
जवाहरलाल नेहरू	आज़ादी के आठ साल ॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
	नया-भारत ॥)	”
देश परिचय माला	खेती-बारी ॥)	राजकमल प्रकाशन
	गाँव की बातें ॥)	”
	देश की जानकारी ॥)	”
	नगर-व्यवस्था ॥)	”
	पंचवर्षीय योजना ॥)	”
	पशु पालन ॥)	”
	भारत के तीर्थ-स्थान ॥)	”
	भारत-निर्माता ॥)	”
	सफाई ॥)	”
	स्वतन्त्र देश के नागरिक ॥)	”
	स्वास्थ्य रक्षा ॥)	”
	सहकारी आन्दोलन ॥)	”
	साम्प्रदायिकता ॥)	”
	हमारा विधान ॥)	”
	हमारे त्योहार ॥)	”
प्रेसचन्द	गुलज़ी डंडा १)	हंस प्रकाशन
	गोपाल कृष्ण गोखले ॥)	सरस्वती प्रेस
	नेउर १)	हंस प्रकाशन

प्रेमचन्द्र	पूस की रात १)	हंस प्रकाशन
	प्रेमचन्द-प्रौढ़ शिक्षा माला (७ भाग) ४)	सरस्वती प्रेस
	बड़े घर की बेटी १)	हंस प्रकाशन
	बेटोंवाली विधवा १)	"
	महाराणा प्रताप ॥॥)	सरस्वती प्रेस
	मोटेराम शास्त्री १)	हंस प्रकाशन
	राजा हरदौल और अन्य कहानियाँ १)	"
	राणा जङ्गबहादुर ॥॥)	सरस्वती प्रेस
	रामलीला १)	हंस प्रकाशन
	शराब की दूकान ॥॥)	सरस्वती प्रेस
	स्वामी विवेकानन्द ॥॥)	"
	सुजान-भगत १)	हंस प्रकाशन
	सुभागी १)	"
मदनमोहन पांडेय	पहाड़ी प्रान्तों में ॥=)	ज्ञानपीठ लि०
मुनीश सक्सेना	कीड़े-मकोड़े व मक्खी- मच्छर ॥॥)	राजकमल प्रकाशन
	पेड़-पौधे ॥॥)	"
राजेन्द्र शर्मा	ग्राम पंचायत (नाटक) १॥॥)	राजकमल प्रकाशन
रामबाबू	हमारे किसान ॥=)	रामनारायण लाल
व्यथित हृदय	हमारे हरिजन ॥=)	"
र० रा० सर्वे	अच्छी फसलें उगाइए ॥॥)	सुपमा साहित्य मन्दिर
	खेती का हिसाब ठीक रखिए ॥॥॥)	"
	दुधारू पशु पालिए ॥॥॥)	"
	सग-भाजी उगाइये ॥॥॥)	"
शिवकुमार सिंह	काज-बोध ॥)	ना० प्र० सभा
शीतलसहाय	मशूमा टालस्टाय के विचार ॥=)	हि० सा० सम्मेलन
सत्यप्रकाश गुप्त	हमारी फसलें ॥॥)	राजकमल प्रकाशन
समाज शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा साहित्य	पहली सीढ़ी (Grade I)	राजपाल एचब सक्क

## समाज शिक्षा तथा प्रौढ़

शिक्षा साहित्य		राजपाल एण्ड सन्स
दशहरे की कहानी	III	"
महाभारत	III	"
हमारे नेताजी	III	"
हमारे बापू	III	"
दूसरी सीढ़ी (Grade II)		"
तीन महापुरुष	III	"
देश के दुलारे	III	"
वीर देवियाँ	III	"
हमारे नेता	III	"
तीसरी सीढ़ी (Grade III)		"
अच्छा नागरिक	III	"
अपने देश की सैर	III	"
मंड़े की कहानी	III	"
बगुला भगत	III	"
हवाई लुटेरा	III	"
चौथी सीढ़ी (Grade IV)		"
अशोक-चक्र	III	"
आल्हा-ऊदल की कहानी	III	"
डाक्टर के आने से पहले	II	"
दूध का घन्धा	II	"
नए कदम	II	"
नया रास्ता	II	"
नागरिकता	II	"
पञ्च परमेश्वर	II	"
प्राण हममें भी है	II	"
बापू से सीखो	II	"
भयानक भूत (मलेरिया)	III	"
भरत	II	"
महाजन का पंजा	II	"
मुर्गी-पालन	II	"
राम-राज्य की नींव	II	"

समाज शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा साहित्य	लाख रुपये की एक बात		राजपाल एण्ड सन्स
	(भूमिदान)	॥॥	११
	वन महोत्सव	॥॥॥	११
	श्रमदान	॥॥	११
	शहद का धन्धा	॥॥	११
	सच्चे गुरु	॥॥	११
	सच्चे सेवक	॥॥	११
	संतवाणी	॥॥	११
	सबकी माता	॥॥	११
	सरकार कैसे चलती है	॥॥॥	११
	सर्वोदय	॥॥	११
	स्वर्ग से नरक (नशा बन्दी)	॥॥	११
	स्वस्थ रहो	॥॥॥	११
	हम क्या खाएँ	॥॥	११
	हमारे गाँव की समस्या	॥॥	११
संस्कृत साहित्य सौरभ			
कथा-सार	उत्तर रामचरित	॥=॥	सस्ता साहित्य मण्डल
	कादम्बरी	॥=॥	११
	किरातार्जुनीय	॥=॥	११
	कुमार सम्भव	॥=॥	११
	दशकुमार चरित (१)	॥=॥	११
	दशकुमार चरित (२)	॥=॥	११
	नलोदय	॥=॥	११
	नागानन्द	॥=॥	११
	बुद्ध चरित	॥=॥	११
	महावीर चरित	॥=॥	११
	मालती-माधव	॥=॥	११
	मालविकाग्निमित्र	॥=॥	११
	मुद्राराक्षस	॥=॥	११
	मेषदूत	॥=॥	११
	मृच्छकटिक	॥=॥	११
	रघुवंश	॥=॥	११

संस्कृत साहित्य सौरभ  
कथा-सार

सुरेशप्रसाद गुप्ता  
सूर्यकुमार जोशी  
विविध

विक्रमोर्वशी	॥=)
वेणी संहार	॥=)
शकुन्तला	॥=)
शिशुपाल वध	॥=)
स्वप्न वासवदत्ता	॥=)
हर्षचरित	॥=)
रेतीले मैदान में	॥=)
फल और सब्जियाँ	॥)
अकबर-बोरबल विनोद	१)
अशोकमाला	
(१० कहानियाँ)	॥)
नीति-कथा (पंचतन्त्र का	
भावानुवाद)	१)
पुराण की कथाएँ	१)
बिजली और सिंचाई	१)
भगवान राम की कथा	१)
महाभारत की कथा	१)
सात कहानियाँ (सहस्र रजनी	
चरित्र से संकलित)	॥)
सिंहासन बतीसी	॥)
सुमंगला (कथा सरित्सागर	
की ११ कहानियाँ)	१)
हमारा समाज (भाग १)	१)
हमारा समाज (भाग २)	१)
हातिमताई (कहानियाँ)	१)

सस्ता साहित्य मण्डल

”

”

”

”

”

ज्ञानपीठ लि०

राजकमल प्रकाशन

भारती भण्डार

”

”

”

”

सस्ता साहित्य मण्डल

भारती भण्डार

”

”

”

”

”

”

राजकमल प्रकाशन

”

भारती भण्डार

# समाज-शिक्षा तथा ग्राम-साहित्य

अखिलेश्वर पाण्डेय	कृषि के वे दिन और ये दिन ॥१॥	ज्ञानपीठ लि०
उमेश्वरप्रसाद वर्मा	फल तथा सब्जी संरक्षण १॥१॥	श्रीधजन्ता प्रेस
	फलोत्पादन १॥१॥	”
एक किसान	कृषि और कृषक ॥१॥॥	ज्ञानपीठ लि०
एस० श्रीवास्तव	इधर-उधर की बातें (२ भाग)	
	प्रत्येक ॥=॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	उपा ॥१॥	”
	बिखरे फूल (४ भाग)	
	क्रमशः ॥=॥, ॥=॥, ॥=॥, ॥=॥	”
	सीता-परीक्षा ॥=॥	”
	हमारे-पत्र ॥१॥	”
गोपालकृष्ण कौल	अमीरी-गरीबी ॥=॥	”
	आदमी के विकास की	
	कहानी ॥=॥	”
	बापू का रामराज्य ॥=॥	”
छविनाथ पाण्डेय	सुखी-जीवन ॥=॥	श्रीधजन्ता प्रेस
	हम और समाज ॥=॥	”
जगदीशचन्द्र वर्मा	हमारे राम (२ भाग) प्रत्येक ॥१॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
यू० डी० वर्मा	अपना गाँव ॥१॥	”
रघुनाथप्रसाद	प्राथमिक चिकित्सा ॥१॥	श्रीधजन्ता प्रेस
	स्वास्थ्य सुरक्षा ॥१॥	”
२० रा० सबटै	खेतों में खाद दीजिए ॥१॥	सुधमा साहित्य मन्दिर
	पशु धन बढ़ाइये ॥१॥	”
	पेड़ पौधे लगाइये ॥१॥	”
	फसल को कीड़े से बचाइये ॥१॥	”
	फसल को रोग से बचाइये ॥१॥	”
	यह हमारे खेत की मिट्टी है ॥१॥	”
राजकमल देश परिषद माखा	खेतीबारी ॥१॥	राजकमल प्रकाशन

राजकमल देश परिचय माला गाँव की बातें	॥॥	राजकमल प्रकाशन
देश की जानकारी	॥॥	"
नगर व्यवस्था	॥॥	"
पंचवर्षीय योजना	॥॥	"
पशु-पालन	॥॥	"
भारत के तीर्थ	॥॥	"
भारत-निर्माता	॥॥	"
स्वतन्त्र देश के नागरिक	॥॥	"
स्वास्थ्य रक्षा	॥॥	"
सफाई	॥॥	"
सहकारी आन्दोलन	॥॥	"
साम्प्रदायिकता	॥॥	"
हमारा विधान		"
हमारा समाज (२ भाग)		"
	प्रत्येक १॥	"
हमारे त्योहार	॥॥	"
राजकमल विज्ञान	कीड़े मकोड़े व मक्खी-	
परिचय माला	मच्छर	॥॥
	पक्षियों का जीवन	॥॥
	पेड़-पौधे	॥॥
	फल और सब्जियाँ	॥॥
	हमारी फसलें	॥॥
२० रा० सर्वटे	खेतों में खाद दीजिये	॥॥॥ सुवमा साहित्य मन्दिर
	पशु-धन बढ़ाइये	॥॥॥
	पेड़ पौधे लगाइये	॥॥॥
	फसल को कीड़े से बचाइये	॥॥॥
	फसल को रोग से बचाइये	॥॥॥
	यह हमारे खेत की मिट्टी है	॥॥॥
राजेन्द्र शर्मा	ग्राम पंचायत (नाटक)	१॥॥ राजकमल प्रकाशन
रामधारीसिंह दिलकर	भारत की सांस्कृतिक कहानी	॥॥ श्रीभ्रजन्ता प्रेस
रामनन्दनसिंह	गण-शप खालिहान	॥॥॥ ज्ञानपीठ लि०
	पेड़-पौधों का संसार	२॥॥

लक्ष्मीनारायण	नये तीर्थ, नई यात्रा	॥१॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	पैसा नहीं, मजदूरी	॥१॥	"
	मैं क्या कर सकता हूँ	॥२॥	"
लाक्ष्मणसिंह	गाँव और खेती	१)	"
	भाषा-सदन	१)	"
वासंती देवी	शरणाथी (नाटिका)	॥१॥	"
बिराज	समुद्र की लीला	॥१॥	"
शिवपूजन सहाय	अन्नपूर्णा के मन्दिर में	१॥१॥	श्रीअजन्ता प्रेस
श्रीरंग तिवारी	पशुओं का अनुभूत इलाज	१॥१॥	ज्ञानपीठ लि०
शो० गुप्त	गाँव के उद्योग-धन्धे	१)	सस्ता साहित्य मण्डल
सदानन्द भा	पहला राजा, पहला किसान	॥१॥	ज्ञानपीठ लि०
सन्तराम वस्त्य	सन्धा दान	॥१॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
सम्पादक मण्डल	किसान और मजदूर	॥२॥	श्रीअजन्ता प्रेस
	गाँव स्वर्ग बन जाता है	॥२॥	"
	पशुओं के रोग और उनकी चिकित्सा	॥१॥	"
	पशुपालन और भारत का पशुधन	॥१॥	"
	बिहार पंचायतराज और उसके अधिकार	॥१॥	"
	सामाजिक शिक्षा	॥२॥	"
	हमारा कर्त्तव्य	॥२॥	"
	हमें जाना चाहिये	॥२॥	"
सामाजिक शिक्षण माला	कांग्रेस की देश सेवा	॥१॥	गद्यप्रसाद पृथक सन्स
	पूज्य बापू और उनके शिष्य	॥१॥	"
	भावी भारत	॥१॥	"
	हमारा इतिहास	॥१॥	"
	हमारा भारत	॥१॥	"
	हमारे पड़ोसी	॥१॥	"
हंसराज अग्रवाल	लम्बी आयु	॥२॥	नैशनल पब्लिशिंग हाउस



हंशराज अग्रवाल

विविध

सुखी किसान, (२ भाग)

क्रमशः

III), II) नैशनल पब्लिशिंग हाउस

अच्छा किया या बुरा किया ।=)

सस्ता साहित्य मण्डल

थालू की खेती III)

राजपाल एण्ड सन्स

ऐसे थे सरदार ।=)

सस्ता साहित्य मण्डल

कबीर के बोल ।=)

”

कपास की खेती II)

राजपाल एण्ड सन्स

करनूर बा गांधी ।=)

सस्ता साहित्य मण्डल

कहावतों की कहानियाँ ।=)

”

कावेरी ।=)

”

कितनी जमीन ? ।=)

”

कैलास-मानसरोवर ।=)

”

खादी द्वारा ग्राम-विकास III)

”

गंगाजी ।=)

”

गन्ने की खेती III)

राजपाल एण्ड सन्स

गांधीजी का विद्यार्थी जीवन ।=)

सस्ता साहित्य मण्डल

गाँव सुखी हम सुखी ।=)

”

ग्राम-सुधार १I)

”

गिरधर की कुण्डलियाँ ।=)

”

गीता-प्रवेशिका ।=)

”

गोसेवा क्यों ? ।=)

”

गौतम बुद्ध ।=)

”

चैतन्य महाप्रभु ।=)

”

चारा-दाना I)

”

जंगल की सैर ।=)

”

तन्दुरुस्ती हजार नियामत ।=)

”

तिरुवल्लुवर ।=)

”

तीर्थराज प्रयाग ।=)

”

तुलसी-मानस-मोती ।=)

”

तेल की कहानी ।=)

”

दादू की वाणी ।=)

”

द्वारका ।=)

”

विविध	नज़ीर की नज़्में	१२)	सस्ता साहित्य मण्डल
	नरसी मेहता	१२)	”
	निषाद और शबरी	१२)	”
	पशुओं का इलाज	११)	”
	बद्रीनाथ	१२)	”
	बाजीप्रभु देशपाण्डे	१२)	”
	बापू की बातें	१२)	”
	बाहुबली और नेमिनाथ	१२)	”
	बीमारी कैसे दूर करें	१२)	”
	भीष्म पितामह	१२)	”
	माटो की मूरत जागी	१२)	”
	रहीम के दोहे	१२)	”
	विनोबा और भूदान	१२)	”
	शहद की खेती	१२)	”
	शिवि और दधीचि	१२)	”
	सन्त तुकाराम	१२)	”
	सफाई	१)	”
	सरल व्यायाम	१२)	”
	हजरत उमर	१२)	”
	हम सुखी कैसे रहें	१२)	”
	हमारे गाँव की कहानी	१११)	”

## चरित्र-निर्माण

आनन्दकुमार	आत्म-विकास	५)	राजपाल एण्ड सन्स
	मनुष्य का विराट रूप	४११)	”
क्रोपाटकिन	नवयुवकों से दो बातें	१२)	सस्ता साहित्य मण्डल
आलीख ज्ञानान	जीवन संदेश	१११)	”

छविनाथ पाण्डेय	जीवन की सफलता ॥३॥	श्रीभ्रजन्ता प्रेस
जयविजयनारायण सिंह	स्वावलम्बी का बल (अनु०) २॥	रामनारायण लाल
टालस्टाय	बुराई कैसे मिटे (मजदूर समस्या) १॥	सस्ता साहित्य मण्डल
	स्त्री और पुरुष १॥	"
	सामाजिक कुरीतियाँ २॥	"
	हम करें क्या ३॥	"
	हमारे ज़माने की गुलामी ॥॥	"
भगवानदास केला	पुरुषार्थ ६॥	"
राजेश्वरप्रसाद गुरु तथा		
जगदीशप्रसाद व्यास	स्नेह, सेवा और संघर्ष १॥॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
रामचन्द्र वर्मा	सफल जीवन ३॥	मोतीलाल बनारसीदास
रामदयाल पाण्डेय	हम कैसे बढ़ें ॥॥	ज्ञानपीठ लि०
सत्यकाम विद्यालंकार	चरित्र-निर्माण २॥	राजपाल एण्ड सन्स

## गांधी साहित्य तथा सर्वोदय साहित्य

गोपीनाथ शर्मा	सर्वोदय तत्व दर्शन ७॥	सस्ता साहित्य मण्डल
	गांधी गौरव (काव्य) १॥	"
	डायरी के पन्ने १॥	"
घनश्यामदास बिड़ला	गांधीजी की छत्रछाया में २॥॥	"
चाँदी वाला	बापू के चरणों में १॥	"
जवाहरलाल नेहरू	राष्ट्रपिता २॥	"
दामोदरदास खण्डेलवाल	बापू की बात १॥	साहित्य सदन
दिवाकर	सत्याग्रह मीमांसा	सस्ता साहित्य मण्डल
देवदास गांधी	बा, बापू और भाई ॥॥	"
प्रकाश पब्लिश	सत्य का पुजारी ॥॥	राजपाल एण्ड सन्स

प्रभुदास गांधी	जीवन प्रभात	५)	सस्ता साहित्य मण्डल
मशरूवाला	गांधी विचार-दोहन	१॥)	सस्ता साहित्य मण्डल
महादेव देसाई	हरलैण्ड में गांधीजी	२)	"
मो० क० गांधी	अगर मैं डिक्टेटर होता	१)	"
	अनासक्ति योग	१॥)	"
	अनीति की राह पर	१)	"
	आज का विचार (२ भाग)	॥१)	"
	आत्म-संयम	३)	"
	आश्रमवासियों से	१=)	"
	ग्राम-सेवा	१=)	"
	गीता-बोध	॥)	"
	गीता-माता	४)	"
	द० अफ्रीका का सत्याग्रह	३॥)	"
	धर्मनीति	२)	"
	नीति-धर्म	१=)	"
	पन्द्रह अगस्त के बाद	२)	"
	प्रार्थना-प्रवचन, (२ भाग)	५॥)	"
	ब्रह्मचर्य (२ भाग)	१॥१)	"
	बापू की सीख	१)	"
	मंगल-प्रभात	१=)	"
	मेरे समकालीन	५)	"
	शराव-वन्दी करें	१)	"
	सत्यवीर की कथा	१)	"
	स्वराज्य में अछूत कोई नहीं	१)	"
	हमारी-माँग	१)	"
	हिन्द-स्वराज्य	॥१)	"
	हृदय मंथन के पाँच दिन	१)	"
राजेन्द्रप्रसाद	गांधीजी की देन (विचार घारा)	१॥)	"
विरवनाथ	गांधी दर्शन	॥१)	राजपाल एण्ड सन्ज़
	बापू से सीखो	१=)	"
विमोबा	ईशावास्य वृत्ति	॥१)	सस्ता साहित्य मण्डल

विनोबा	ईशावास्योपनिषद्	२)	सरता साहित्य मण्डल
	गांधीजी को श्रद्धांजलि	१२)	”
	गीता-प्रवचन	१॥१)	”
	जमाने की माँग	२)	”
	जीवन और शिक्षण	२)	”
	भूदान यज्ञ	१)	”
	राजघाट की संनिधि में	१२)	”
	विचार-पोथी	१)	”
	विनोबा के विचार (२ भाग)	३)	”
	शान्ति यात्रा	१॥१)	”
	स्वराज्य शास्त्र	१॥१)	”
	सर्वोदय का घोषणा-पत्र	१)	”
	सर्वोदय विचार	१२)	”
	स्थिति-प्रज्ञ दर्शन	१)	”
शान्तिप्रिय द्विवेदी	धरातल (सर्वोदय साहित्य)	२॥१)	ज्ञानमण्डल लि०
सु० नैय्यर	कारावास-कहानी	१०)	सरता साहित्य मण्डल
हरिभाऊ उपाध्याय	बापू के आश्रम में	१)	”
	स्वतन्त्रता की ओर	४)	”
विविध	सर्वोदय योजना	१॥१)	”
	सेवाग्राम चित्रावली	१॥१)	न्यू लिटरेचर

## पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियोपयोगी

अमीचन्द विद्यालंकार	प्रारंभिक रसायन	१॥१)	हि० सा० सम्मेलन
अरुण (सं०)	पद्य-पद्मिनी		ओरिएण्टल बुक डिपो
ऑप्रकाश (सं०)	साहित्य-संचय	२॥१)	राजकमल प्रकाशन
करुणापति त्रिपाठी (सं०)	काव्य संग्रह (प्रथम भाग)	१॥१)	हि० सा० सम्मेलन
केशवप्रसाद बाजपेयी तथा			
पी० डी० बड़धवाल (सं०)	पद्य-पारिजात	१)	ना० प्र० सभा

सुराना	संस्कृत साहित्य प्रवेश		ओरिएण्टल बुकडिपो
गुरुप्रसाद टण्डन	गद्य-सौरभ	१॥॥	हि० सा० सम्मेलन
जयविजयनारायण	विद्यार्थी विलोचन	१॥॥	रामनारायण लाल
ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल	साहित्य-प्रवेश	२॥	हि० सा० सम्मेलन
तथा यशदत्त शर्मा	संक्षिप्त हिन्दी साहित्य	१॥	"
जैनेन्द्र (सं०)	साहित्य-चयन	२॥	राजपाल एण्ड सन्स
भूमनलाल शर्मा	बोज-गणित	४॥॥	हि० सा० सम्मेलन
धर्मचन्द्र सन्त	पद्य-पयस्विनी		ओरिएण्टल बुकडिपो
	मधुर मंजरी		"
	सरल-साहित्य संकलनम्		"
	हिन्दी साहित्य का इतिहास		
	एक दृष्टि में	१॥	नवयुग साहित्य सदन
नरोत्तम स्वामी (सं०)	हिन्दी पद्य पारिजात (२ भाग)		ना० प्र० सभा
	क्रमशः १॥, १॥॥		"
पद्मनारायण आचार्य	चुने फूल	२॥	"
पद्मलालपुञ्जालाल बख्शी	नवयुग पाठमाला (४ भाग)		हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर
(सं०)	क्रमशः १॥, १॥, १॥, १॥		"
	हिन्दी-गद्यमाला	१॥॥	"
पारसनाथसिंह	कुसुमावली (भाग १-२)	३॥॥	भारती भण्डार
प्रेमनारायण शुकु	हिन्दी-गद्य पारिजात	१॥॥	हि० सा० सम्मेलन
ब्रजमोहन	ठोस ज्योमिति	१॥	"
बलभद्रप्रसाद मिश्र (सं०)	सूरसंग्रह	॥	"
बलराज (सं०)	गद्य-गौरव (गद्य संकलन)	२॥॥	राजकमल प्रकाशन
भगवतीप्रसाद वाजपेयी	नवीन पद्य-संग्रह (सं०)	१॥	हि० सा० सम्मेलन
तथा गुर्ती सुब्रह्मण्य (सं०)	आधुनिक वीर काव्य	१॥॥	"
भगवानदीन 'दीन' तथा			
रामदास गौड़ (सं०)	हिन्दी भाषा सार(गद्य भाग)१॥॥		"
रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव			
तथा रामचन्द्र श्रीवास्तव	अनुवाद निकुञ्ज	१॥	सुषमा साहित्य मन्दिर
राजेन्द्रप्रसाद	संस्कृत का अध्ययन	२॥	श्रीभजन्ता प्रेस
रामकुमार वर्मा	आधुनिक काव्य संग्रह	१॥॥	हि० सा० सम्मेलन
	कबीर पदावली	१॥	"

रामकुमार वर्मा	हिन्दी साहित्य की रूपरेखा ।=)	हि० मा० सम्मेलन
रामचन्द्र वर्मा	संचित रूपक-रत्नावली २।।)	साहित्यरत्न माला कार्यालय
रामबालक शास्त्री	वाणी विलास (भाग १) ।।)	हि० सा० सम्मेलन
	भजभारतीम (भाग १) ।।)	”
रामेश्वर भट्ट	शीघ्रबोध १।)	रामनारायण लाल
रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	काव्य संग्रह (द्वितीय भाग) २।।)	हि० सा० सम्मेलन
लक्ष्मीकान्त मुक्त (सं०)	सूरदास : प्रश्नोत्तर रूप में २।)	ओरिएण्टल बुकडिपो
लक्ष्मीधर वाजपेयी (सं०)	हिन्दी-गद्य निर्माता १।।।)	हि० सा० सम्मेलन
वामन शिवराम आष्टे	संस्कृत-निबन्ध पथप्रदर्शक ४)	रामनारायण लाल
श्यामसुन्दरदास (सं०)	प्रवेशिका पद्यावली १)	ना० प्र० सभा
शीतलप्रसाद तिवारी	कृषि प्रवेशिका १।)	हि० सा० सम्मेलन
श्रीकृष्ण शुक्ल (सं०)	प्राचीन पद्य-प्रभाकर १)	”
सत्यकेतु विद्यालंकार	फ्रेंच स्वयं शिक्षक, (देश) ५)	
	(विदेश) ८ शिल्पिग	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
सन्त गोकुलचन्द्र	सरल पत्र शिक्षक ।।।)	ओरिएण्टल बुकडिपो
सतीशचन्द्र राय (सं०)	विद्यापति-पद्य-संग्रह ।=)	हि० सा० सम्मेलन
सुशीलकुमारी (सं०)	पद्य-प्रवाह, (पद्य संकलन) २।।)	राजकमल प्रकाशन
चेमचन्द्र सुमन (सं०)	मान-सरोवर (गद्य-पद्य संकलन) १।।।)	”
विविध	आधुनिक काव्य संग्रह २)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	आधुनिक गद्य संग्रह १।)	”
	कंठाभरण ।।)	”
	कथा-काव्य ।=)	”
	काव्य दीपिका अष्टम शिखा (सटीक) ।।।)	साहित्य निकेतन
	चार एकांकी ।।।=)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
	नया गुलदस्ता (भाग १) ।=)	”
	नया गुलदस्ता (भाग २) ।।)	”
	नया गुलदस्ता (भाग ३) ।।।)	”
	प्रचलित हिन्दी ।।।)	”
	प्रबन्ध पुष्पाञ्जलि १)	साहित्य सदन

प्राचीन काव्य-संग्रह	२।)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र		
(सर्ग १-३) सटीक	२।।।)	साहित्य निकेतन
भारतीय वाङ्मय (भाग १)	२।)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
" " (भाग २)	१।।)	"
" " (भाग ३)	२।)	"
महाजनी प्रवेश	१।)	"
राष्ट्रभाषा का सरल व्याकरण		"
(भाग १)	।।=)	"
राष्ट्रभाषा का सरल व्याकरण		"
(भाग २)	।।।)	"
राष्ट्रभाषा की पहली पुस्तक	।।)	"
राष्ट्रभाषा की दूसरी पुस्तक	।।)	"
राष्ट्रभाषा की तीसरी पुस्तक	।।।)	"
राष्ट्रभाषा प्रारम्भिक बोधिनी	।=)	"
राष्ट्रभाषा बोध (भाग १)	।।)	"
" " (भाग २)	।।)	"
" " (भाग ३)	।।।=)	"
विशारद दीपिका	...)	भारत प्रकाशन मन्दिर
संस्कृत गद्य मंजरी	२।)	साहित्य निकेतन
संस्कृत प्रथम पुस्तक	२।)	"
संस्कृत द्वितीय पुस्तक	३।)	"
सांख्यकारिका (अंग्रेजी-हिन्दी		"
टीका सहित)	१।)	"
साहित्य का साथी	१।।)	राष्ट्रभाषा प्र० समिति
हिन्दी-मराठी स्वबोधिनी	।।।)	"



## विविध

आनन्दमोहन अवस्थी	बंधनों की रक्षा	१)	सुषमा साहित्य मन्दिर
गोवर्द्धनदास गुप्त	हिन्दी टाइप राइटिंग (गङ्गा प्रणाली)	१॥॥	ना० प्र० सभा
गौरीशंकर द्विवेदी	ईसरी प्रकाश	२)	सुषमा साहित्य मन्दिर
चण्डीप्रसाद	काशी का मान मन्दिर	१=)	ना० प्र० सभा
देवनाथ उपाध्याय	भाषण-संभाषण	२॥॥	किताब महल
नरेन्द्र	ग्रहण के बाद	२॥)	सुषमा साहित्य मन्दिर
ब्रजरत्नदास	भारत की नदियाँ	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मनोहरलाल तथा भगवती प्रसाद पाँथरी	महाप्रयाण	४॥॥)	सरस्वती प्रेस
यज्ञदत्त शर्मा	आदर्श भाषण-कला	७॥॥)	आरमाराम एण्ड सन्स
राजेश्वरीप्रसाद सिंह	राजेश्वरी ग्रन्थावली	५)	अशोक प्रेस
रामशरण दास	सर्प-संसार	१॥॥)	रामनारायण लाल
श्यामलानन्द (चित्रकार)	अमर रेखाएँ	२)	श्रीब्रजन्ता प्रेस
श्रीपाद दामोदर सा०	संस्कृत त्रयंशिक्षक (३ भाग)	५)	राजपाल एण्ड सन्स
सद्गुरुशरण अवस्थी	बुद्धि तरंग	२॥)	साहित्य निकेतन
सियारामशरण गुप्त आदि	प्रतीक (साहित्यिक संकलन)	१०)	सरस्वती प्रेस
हरेन्द्रप्रताप सिनहा	भारत को प्रयाग की देन	४)	रामनारायण लाल
विविध	अंकुर	१)	साहित्य सदन
	आर्यभाषा-पुस्तकालय का सूची-पत्र	३)	ना० प्र० सभा
	फ्रेंच स्वयंशिक्षक	५)	राष्ट्रभाषा प्र० सीमित
	ब्रिटेन में वाडें संस्था	११=)	भारती भण्डार
	सेल्फ इंग्लिश टीचर	१॥॥)	रामनारायण लाल
	सेल्फ संस्कृत टीचर	१॥॥)	”

## विविध

सेल्फ हिन्दी टीचर	१॥)
हवाई हमले और आप	॥)
राष्ट्रभाषा प्रचार सर्व संग्रह	१)
प्रथम हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण	॥)
द्वितीय	॥)
तृतीय	॥=)
चतुर्थ	॥)
पंचम	॥॥)
षष्ठम	॥)
सप्तम	॥=)
अष्टम	॥)
नवम	॥=)
दशम	॥)
द्वादश हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण तथा लेखमाला	१॥)
त्रयोदश हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण	॥)
चतुर्दश हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण तथा लेखमाला	॥)
पंचदश	१)
षोडश हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण	१)
अष्टादश हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण	१)
उन्नीसवें	॥)
बीसवें हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण तथा लेखमाला	१)
चौबीसवें हि० सा० सम्मेलन का कार्य-विवरण	१)
छब्बीसवें	॥)
सत्ताइसवें	॥)

रामनारायण लाल  
भारती भण्डार  
राष्ट्रभाषा प्र० समिति

हि० सा० सम्मेलन

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

## विविध

अट्टाईसवें हि० सा०			
सम्मेलन का कार्यविवरण	१।)	हि० सा० सम्मेलन	
उन्तीसवें	” १)	”	”
तीसवें	” १)	”	”
इकतीसवें	” १)	”	”
बत्तीसवें	” १)	”	”
तेँतीसवें	” १)	”	”
चौँतीसवें	” १)	”	”
पैंतीसवें	” १)	”	”
छत्तीसवें	” १)	”	”
सैंतीसवें	” १)	”	”
अड़तीसवें	” १)	”	”
प्रथम हि० सा० सम्मेलन की			
लेखमाला	।।।)	”	”
द्वितीय	” १)	”	”
तृतीय	” ।।।)	”	”
चतुर्थ	” ।।।)	”	”
पंचम	” ।।)	”	”
षष्ठ	” ।।।)	”	”
सप्तम	” ।।=)	”	”
नवम	” १।।)	”	”
दशम	” ।=)	”	”
एकादश	” ।।।=)	”	”
त्रयोदश	” १)	”	”
षोडश	” १)	”	”
उन्नीसवें	” १)	”	”
चौबीसवें	” १)	”	”
तीसवें	” १)	”	”



## ज्ञानमण्डल लिमिटेड के अपूर्व प्रकाशन

### धर्म और दर्शन :—

सूफीमत-साधना और साहित्य	रामपूजन तिवारी	१०)
विश्व के धर्म प्रवर्तक	रघुनाथसिंह एम० पी०	६)
वैज्ञानिक अद्वैतवाद	स्व० रामदास गौड़ एम० ए०	२)
हिन्दुत्व	स्व० रामदास गौड़ एम० ए०	१२॥)
चिद्विलास	डा० सम्पूर्णानन्द	४॥)
दर्शन का प्रयोजन	डा० भगवानदास	३॥)

### राजनीति :—

अन्ताराष्ट्रीय विधान	डा० सम्पूर्णानन्द	१०)
राष्ट्रीयता और समाजवाद	आचार्य नरेन्द्रदेव	१०)
भारतीय राजनीति : विक्टोरिया से		
नेहरू तक	रामगोपाल एम० ए०	१०)
चीन : कल और आज	के० एम० पाणिक्कर	४॥)
राजनीति-शास्त्र	प्राणनाथ विद्यालंकार	४)
जापान की राजनीतिक प्रगति	लक्ष्मणनारायण गर्दै	४)

### पत्रकारी :—

पत्र और पत्रकार	पं० कमलापति त्रिपाठी तथा	
	पुरुषोत्तमदास टण्डन 'पत्रकार'	६)
	रोलेण्ड ई० वल्सले	६)
भारतीय पत्रकार-कला	पं० अश्विकाप्रसाद वाजपेयी	६)
समाचार-पत्रों का इतिहास	रा० र० खाडिलकर	३॥)
आधुनिक पत्रकार-कला		

### भ्रमण :—

हालैण्ड में पच्चीस दिन	रा० र० खाडिलकर	३॥)
------------------------	----------------	-----

### मनोविज्ञान :—

शिक्षा मनोविज्ञान	हंसराज भाटिया	४)
-------------------	---------------	----

### इतिहास :—

पश्चिमी यूरोप (प्रथम भाग)	छविनाथ पाण्डेय एम० ए०	४॥)
भारतवर्ष का इतिहास	एक इतिहास प्रेमी (भाई परमानन्द)	८)
गांधी हत्याकाण्ड	सम्पादक विहंगम	५)

आजाद-हिन्द-फौज तथा उसके तीन

अफसरों का मुकदमा		२)
------------------	--	----

जेल के वे दिन

विजयलक्ष्मी पण्डित		२॥)
--------------------	--	-----

### साहित्य :—

वक्रोक्ति और अभिव्यंजना	रामनरेश वर्मा एम० ए०	४)
गीति-काव्य	प्रो० रामखेलावन पाण्डेय	५)
तुलसीदास और उनका युग	डा० राजपति दीक्षित	७)
सामयिकी	शान्तिप्रिय द्विवेदी	३॥)
धरातल	शान्तिप्रिय द्विवेदी	२॥)
कल्पलता	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी	२॥)

## कहानियाँ :—

उलूकतंत्र	बलदेवप्रसाद मिश्र	१॥=)
शवसाधन	बलदेवप्रसाद मिश्र	२)
तूफान	बलदेवप्रसाद मिश्र	२॥)

## उपन्यास :—

पुनर्जीवन	महात्मा टालस्टाय	६॥)
कर्तव्याघात	देवनारायण द्विवेदी	४)
नूतन ब्रह्मचारी	स्व० बालकृष्ण भट्ट	१॥)
देशभक्त, और देशद्रोही	स्व० बालकृष्ण भट्ट	२॥)
बयालीस	प्रतापनारायण श्रीवास्तव	४)

## जीवनी :—

सरदार पृथ्वीसिंह	राहुल सांकृत्यायन	३॥)
अब्राहमलिकन	रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे	१॥)

## विज्ञान :—

विज्ञान की प्रगति	प्रो० भगवतीप्रसाद वाजपेयी	३॥)
विज्ञान के चमत्कार	प्रो० भगवतीप्रसाद वाजपेयी	२॥)
परमाणु शक्ति	प्रो० भगवतीप्रसाद वाजपेयी	२॥)

## विभिन्न विषय :—

नारीत्व	मारगरेट मूल हाइट	३॥)
खाद का उपयोग	दुर्गाप्रसाद सिंह	१॥)
अपराध और दण्ड	परमेश्वरी लाल गुप्त	१॥)
जियो-जागो (प्रौढ़ शिक्षा के लिए सर्वोत्तम)	यूस्टेस चेस्टर	४)
तैरने की कला	मानिकजी	१॥)

## कुछ अन्य उपयोगी प्रकाशन :—

हिन्दूधर्म की बालपोथी	आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव एम० ए०	१)
तुलसी-साहित्य-रत्नाकर	आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव एम० ए०	४)
कौशलेन्दु कौतुक	आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव एम० ए०	१॥)
मानवोत्पत्ति विज्ञान	आनन्दशंकर बापू भाई ध्रुव एम० ए०	२)
जङ्गल	आप्टन सिक्लेयर	३)
संक्षिप्त विष-विज्ञान	आप्टन सिक्लेयर	१॥)
आदि भारत	प्रोफेसर काश्यप	११)
हिन्दी कहानी और कहानोकार	प्रो० वासुदेव एम० ए०	३॥)
होम्योपैथिक चिकित्सा-विज्ञान	डा० बालकृष्ण मिश्र	५)
होम्योपैथिक चिकित्सा सिद्धान्त	डा० बालकृष्ण मिश्र	२)

ज्ञानमण्डल लि० के उत्कृष्ट प्रकाशन सदैव

आपका

ज्ञानवर्धन व स्वस्थ मनोरंजन करते हैं ।

पता—ज्ञानमण्डल लि० बाराणसी (बनारस)—१

## भारत के

मल्टी परपज शालाओं, समाज तथा विकास शिक्षा केन्द्रों,  
ग्राम-पंचायतों, स्कूल लायब्रेरियों, पुस्तकालयों, विद्यालयों,  
गवर्नमेन्ट टैक्निकल और एग्री-कल्चर इंस्टीट्यूशनों,  
कम्यूनिटी प्राजैक्टों, बेसिक ट्रेनिंग सेंटरों  
तथा अधिकांश सरकारी एवं सामा-  
जिक संस्थाओं द्वारा आपनाई  
गई

## हिन्दी पुस्तकों का बृहत् भण्डार

हमारी प्रकाशित टैक्निकल इंडस्ट्रियल तथा अन्य सभी प्रकार  
के साहित्य की पुस्तकों के अतिरिक्त  
भारत के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट तथा  
उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी,  
जीवन-चरित्र, आत्म-कथाएँ, ग्रामोपयोगी, महिलोपयोगी,  
नवयुवकोपयोगी, समाज-शिक्षण, प्रौढ़-साहित्य, मनोविज्ञान,  
शिक्षा-विज्ञान, इतिहास, राजनैतिक-विज्ञान, वनस्पति-  
विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भौतिक-विज्ञान, रसायन-विज्ञान,  
नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, तर्क-शास्त्र,  
समाज-शास्त्र, धार्मिक तथा आध्यात्म साहित्य  
और ज्योतिष संबंधी, तिजारती, तिब्बती,  
डाक्टरी, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक,  
जंत्र-मंत्र-तंत्र, पूजा-पाठ, बालोपयोगी  
और स्त्रीउपयोगी तथा साथ-साथ  
हर प्रकार के उपन्यास, कहानियाँ  
आदि आकर्षण पुस्तकें  
आपको हमारे यहाँ सुविधा  
से मिलेंगी। हिंदी में  
हर एक विषय की  
पुस्तक के लिए  
हमें लिखें।

( हिन्दी पुस्तकों का बृहद् सूची-पत्र चार आने के टिकट डाक-  
खर्च के लिये भेज कर मुफ्त मंगाइये । )

देहाती पुस्तक भण्डार,  
चावड़ी बाजार, देहली-६

● द्वितीय खण्ड

हिन्दी-साहित्य के शीर्षस्थ  
कवियों  
और  
साहित्यिकों के विश्वास प्राप्त

प्रकाशक

महादेवी वर्मा, सुमित्रानन्दन पन्त, निराला,  
इलाचन्द्र जोशी, नरेन्द्र शर्मा, बच्चन, भगवती-  
चरण वर्मा और अनेकों नई प्रतिभाओं की  
कृतियों के

प्रकाशक

भारती भण्डार

इलाहाबाद



## उपन्यास

अजगर बनारसी	महुअर	२॥)	चिनगारी प्रकाशन
अशोककुमार भटनागर	तिब्बत का रहस्य	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	नकाब के पीछे	॥॥)	,,
	पाँच कुञ्जियों का रहस्य	॥॥)	,,
	वेश्या के घर खून	॥॥)	,,
	सुन्दरी का फंदा	॥॥)	,,
आर० आर० सर्वटे	रजनी	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
इन्द्रशंकर मिश्र	गहरि-गहरि नदिया गहरानी	१)	नन्दकिशोर एचड ब्रदर्स
	चिकोटी	१॥॥)	,,
इन्दिरासिंह	पोला पत्थर	१)	चिनगारी प्रकाशन
	मोम की पुतली	१)	,,
एम० एल० विज	मौत की छाया	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
एम० के० शंकर	संन्यासी	१)	चिनगारी प्रकाशन
एस० एन० जोशी	हत्या का रहस्य	१)	,,
ओंकार सवसेना	गोबर कंडे पुराण	३)	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
ओंकारनाथ शास्त्री	अपराधी	१)	चिनगारी प्रकाशन
ओमप्रकाश गुप्ता	इंसान जो मर न सका	४)	एन०डी०सहगल एचड सन्स
ओमप्रकाश शर्मा	अंधेरे के दीप	२)	राजहंस प्रकाशन
कंचनलता सबरवाल	संकल्प	३॥)	नन्दकिशोर एचड ब्रदर्स
कन्हैयालाल ओम्का	संघर्ष और समर्पण	५॥)	राजहंस प्रकाशन
कमल शुक	राख की परतें	४)	एन०डी०सहगल एचड सन्स
कमलापति प्रधान	भावना	२)	भारतीय प्रकाशन मण्डल
कमला त्रिवेणी शङ्कर	जयमाल	२)	नन्दकिशोर एचड ब्रदर्स
कुशावाहा 'कांत'	जंजीर	३)	चिनगारी प्रकाशन
	नागिन	४)	,,
	पपिहरा	४)	,,
	परदेसी (२ भाग)	६)	,,
	पराजिता	२॥)	,,

कुशवाहा 'कांत'	पारस	३॥॥	चिनगारी प्रकाशन
	मद भरे नयना	४॥॥	"
	रक्त मन्दिर	१॥॥	"
	लाल रेखा	३॥॥	"
	विद्रोही सुभाष	५॥॥	"
कृष्ण शर्मा	अजीब लड़की	॥॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	खूनी चैयरमैन	॥॥॥	"
कृष्णकुमारसिंह	पत्थर की देवी	२॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
कृष्णचंद्र बेरी	जेकोस्लोवाकिया लूटा गया	२॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
कृष्णचंद्र शर्मा	चोर या प्रेतात्मा	॥॥॥	"
	ठंडी कोठरी	॥॥॥	"
	निर्दोष खूनी	॥॥॥	"
कृष्णदेवप्रसाद वर्मा	रानी	१॥॥	चिनगारी प्रकाशन
गंगाप्रसाद मिश्र	काँटों का ताज	२॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
गङ्गासरण सेठ	नर्गिस की चोरी	॥॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	बे गुनाह	॥॥॥	"
	भयङ्कर खून	॥॥॥	"
	भयानक जालसाज	॥॥॥	"
	मनहूस पत्थर	॥॥॥	"
गिरजाशकर पांडेय	अट्टारह वर्ष बाद	४॥॥	आनन्द पुस्तक भण्डार
	चेतसिंह का सपना		"
	(२ भाग)	प्रत्येक ४॥॥	"
गुलशन नन्दा	घाट का पत्थर	४॥॥	शारदा मन्दिर
	जलती चट्टान	३॥॥	"
गुलाबरल बाजपेयी	सेवा और त्याग	३॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
गोपाक्षदास नागर	कोलाहल से दूर	१॥॥	चिनगारी प्रकाशन
	मिट्टी का खिलौना	१॥॥	"
गोविन्दसिंह	आतापी	१॥॥	"
	ईंट की बेगम	१॥॥	"
	घिनौने	२॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	पत्थर के देवता	२॥॥	चिनगारी प्रकाशन
	पान का बादशाह	१॥॥	"

गोविन्दसिंह	मिटती रेखाएँ	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
	मौत की मौत	१॥)	”
	रक्तगङ्गा	॥३)	”
	राजरानी	१॥)	”
	लगन	२॥)	”
	लाल हथेली	२)	”
	स्मृतियों का तूफान	१॥)	”
चंडीचरण सेन	अवध की नवाबी	२॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
चन्द्रकान्त काकोड़कर	कीर्तिमन्दिर	३॥)	आनन्द पुस्तक भवन
	मुक्तनारी	२॥)	”
चन्द्रदत्त पाण्डेय	आखिरी बदला	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	आवारा खूनी	॥॥)	”
	एनवर्स सेडन	॥॥)	”
	कोयले की खान का रहस्य	॥॥)	”
	चण्डालों का फंदा	॥॥)	”
	जबर्दस्त बदला	॥॥)	”
	बमपार्टी	॥॥)	”
	मार्सैठन का शैतान	॥॥)	”
	रहस्यमय चोरी	॥॥)	”
	रहस्यमय जालसाजी	॥॥)	”
	वैज्ञानिक की मौत	॥॥)	”
	शाही कैदी	॥॥)	”
	सबका दुश्मन	॥॥)	”
	साठ मील फी घण्टा	॥॥)	”
	सार्जेंट ग्रे का अपराध	॥॥)	”
चन्द्रदत्त शर्मा	काली बिल्ली	॥॥)	”
	प्रतिशोध या बर्बरता	॥॥)	”
	मौत की मन्जिल	॥॥)	”
चन्द्रभूषण	मार्फिया का इंजेक्शन	१)	चिनगारी प्रकाशन
छविनाथ पाण्डेय	चित्तकबरा फेंटा	३॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
ज्योतिर्नाथ मिश्र	बिन्दिया		छात्रहितकारी पुस्तकमाला
आज्ञाप्रसाद 'केशर'	कसक	२॥)	चिनगारी प्रकाशन

ज्वालाप्रसाद 'केशर'	कापालिक	॥३॥	चिनगारी प्रकाशन
	कामरेड	१॥॥	"
	चितचोर	२॥॥	"
	चिताएँ	१॥॥	"
	तीन फायर	२)	"
	पुखराज	३॥॥	"
	भटकती रूह	२॥॥	"
	रक्तार्चन	३॥॥	"
	संगीनें	२॥॥	"
	सितारा	१॥॥	"
जमनादास 'अङ्गतर'	आग	२॥॥	एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
	आँसू	३)	"
	काश्मीर की बेटी	३)	"
	पायल	४)	"
	फाँसी की कोठरी	३॥॥	"
जयगोपाल	पति-पत्नी प्रेम	२)	"
जयप्रकाश शर्मा	निशा डूबती है	२॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
टीकाराम त्यागी	एक स्वप्न	१॥॥	राष्ट्रीय प्रकाशन_मन्दिर
तीर्थराम फिरोजपुरी	क्रान्तिकारी रमजी	४॥॥	एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
	विजय किसकी	४)	"
	शैतान पुजारी	२॥॥	"
दत्तभारती	गुनाह	३)	"
	चोट	४)	"
दयाशंकर मिश्र	छोटी चाची	३॥॥	राजहंस प्रकाशन
	छोटी बहू	३॥॥	"
	फ़ीनी	४॥॥	"
	पाथेय	३॥॥	"
	रजनी गंधा	३॥॥	"
दीनानाथ कश्यप	खूनी कौन	॥॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	जवाहिरात का रहस्य	॥॥॥	"
	बम षड्यंत्र	॥॥॥	"
	सन्देह का शिकार	॥॥॥	"

## देववृत विद्यार्थी

तथा भारती	हार या जीत	१॥॥)	राजहंस प्रकाशन
देवबलीसिंह	अन्याय का प्रतिकार	४)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
देवीप्रसाद धवन 'विकल'	दोषो कौन ?	२)	विनोद पुस्तक मन्दिर
धरेन्द्र	सीधे-साधे रास्ते	३॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
नलिनकुमार 'नलिन'	पाषाणी	५)	नव साहित्य प्रकाशन
नवलकिशोर वाजपेयी	फोपड़ी	१)	चिनगारी प्रकाशन
नानकसिंह	अभिनेत्री का खून	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
नारायणी कुशवाहा	सार्जेन्ट बिल मार्टिन	॥॥)	"
नारायणलाल परमार	जीवन संग्राम	५)	"
निहालचन्द्र वर्मा	पराये बस में	२॥॥)	चिनगारी प्रकाशन
प्यारेलाल 'बवारा'	प्यार की लाज	१)	"
	आनन्द भवन	३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	जादू का महल	३)	"
	मोती महल	६)	"
	ओस और आँसू	१॥॥=)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	घायल	४)	चिनगारी प्रकाशन
	तिनके		कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	रोते नैना	२॥॥)	"
प्यारेलाल	चलती फिरती दीवारें	४॥॥)	श्रीभारत भारती लि०
प्रताप	इस्पात	२॥॥)	चिनगारी प्रकाशन
	रोटी और रोमांस	३॥॥)	"
प्रभाकर माचवे	साँचा	२॥॥)	नव साहित्य प्रकाशन
परदेशी	औरत रात और रोटी		राजहंस प्रकाशन
परमानन्द खत्री	काँसे की मूर्ति (२ भाग)		
	प्रत्येक	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	किस्मत का चक्कर	॥॥)	"
	गुप्त हत्यारा	॥॥)	"
	जुए का अड़्डा	॥॥)	"
	नकाबपोश डाकू	॥॥)	"
	बदले की ज्वाला	॥॥)	"
	भीषण दगाबाज (२भाग)	१॥॥)	"

परमानन्द खत्री	मौत का कमरा रहस्यमय हत्या (२ भाग)	॥१॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
		प्रत्येक ॥१॥	"
ब्रजेन्द्र खन्ना	बालू के टीले	५)	"
ब्रजेन्द्र गौड़	पैरोल पर	२॥॥	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
ब्रह्मदेव 'मधुर'	चोट	२॥॥	चिनगारी प्रकाशन
	छैला (२ भाग) (परदेशी ३, ४)	५)	"
	लपटें	२॥॥	"
बहुभा	षड्यंत्र की प्रतिष्ठा	१)	"
बाबूराम अर्गालकर	भूतमहल का बन्दो	२)	"
बेनीप्रसाद वाजपेयी 'मंजुल'	पाटलिपुत्रक	३)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
भगवतशरण उपाध्याय	सबेरा	१॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
भगवतीप्रसाद वाजपेयी	पतिता को साधना भूदान	२॥॥ ६)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला श्रीभारत भारती लि०
मग	दो दिनों की दुनिया	३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मनोहरलाल वर्मा	सुरा-सुन्दरी	१)	चिनगारी प्रकाशन
महावीरशरण अग्रवाल	साथी	२॥॥	नव साहित्य प्रकाशन
सुरारीमोहन	हिमालय की गोद में	१)	चिनगारी प्रकाशन
मोहन चोपड़ा	बाँहें	२॥॥	नव साहित्य प्रकाशन
मोहन लहरी	स्वर्णिम अतीत	३॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मोहनलाल महतो वियोगी	एकाकी	३)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
	फरार	२॥॥	"
	विसर्जन	२)	"
यादवचन्द्र जैन	अँधेरा सबेरा	४)	राजहंस प्रकाशन
	दो धारा	३)	शारदा मन्दिर
यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	मिट्टी का कलंक	३)	एन० डी०सहगल एण्ड सन्स
रजत वर्मा	चंचला	२॥॥	आनन्द पुस्तक भवन
रजनी पनिकर	पानी की दीवार	३)	राजहंस प्रकाशन
	मोम के मोती	३॥॥	शारदा मन्दिर
रतनलाल दाभीचि	साड़ी के छोर	२)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स

रमा दुबे	तकदीर हँसती है	१)	चिनगारी प्रकाशन
रमेश वर्मा	कंगारू	१॥)	"
	गद्दार	१॥)	"
	गिद्ध और बाज़	१॥)	"
	रेडियम	१॥)	"
	संग्राम	१॥)	"
	सिसकती रात	३)	"
रामेशचंद्र झा	चलती लकीरें	१॥)	"
	धरती की धूल	१)	"
	धार के फूल	१॥)	"
	पास की दूरी	१॥)	"
	रूप की राख	१॥)	"
राजाराम गुप्त 'राजेश'	रत्न मन्दिर	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
राजेन्द्रलाख शर्मा	कौए	५॥)	नव साहित्य प्रकाशन
राजेन्द्र मेंढ	उलटी गंगा	१)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
रामजीलाख 'सहायक'	बंधन मुक्ति	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	शकारि विक्रमादित्य	२)	"
रामदुलारे त्रिपाठी	कब्रिस्तान की आहें	१)	चिनगारी प्रकाशन
राधाकृष्ण	फुटपाथ	२)	लोकसेवक प्रकाशन
राधाप्रसाद	अगला कदम	२)	चिनगारी प्रकाशन
	मन की भूख	१)	"
रांगेय राघव	देवकी का बेटा (श्रीकृष्ण)	३)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	भारती का सपूत (भारतेन्दु हरिश्चन्द्र)	३)	"
	यशोधरा जीत गई		
	(गौतम बुद्ध)	३)	"
	रत्ना की बात (तुलसीदास)	३)	"
	लोई का ताना (कबीर)	३)	"
रामनन्दन प्रजापति	रहस्यमयी	१)	चिनगारी प्रकाशन
रामप्रसाद सिंह	प्रतीक्षा	१॥)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
लक्ष्मीचन्द्र वाजपेयी	मेघपुष्प	३॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
लक्ष्मीनारायण 'सरोज'	खूनी आँखें	॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

क्षेत्रीनारायण 'सरोज'	दरोगा पफ्तर	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	भाई-भाई	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
	माँ	१)	"
	मोतियों की माला	१॥)	"
	मौत की रोशनाई	१॥)	"
	युद्ध का गुप्त रहस्य	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	रक्त संघ	२॥)	चिनगारी प्रकाशन
	शैतानी चक्कर	१)	"
व्यथित हरि	बेरहम	१)	"
	मदभरी रात	१)	"
	मेंहदो	१)	"
वनकाम सुनील	हरावती	५)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	धूलि और नर्तन	४)	"
	सामन्त बीजगुप्त	५)	"
व० ह० पिटके	क्रान्तिकाल	३॥)	आनन्द पुरतक भवन
विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त	आग और आँसू	१)	चिनगारी प्रकाशन
	किनारे की और	१॥)	"
	नीली साड़ी	१॥)	"
विनोदशंकर व्यास	मर्म-कथा	२)	हिन्दी साहित्य कुटीर
विनोदशंकर शर्मा	खतरनाक आदमी	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
	जमोन आसमान	२॥)	"
	जाल	१॥)	"
	दो सितारे	२॥)	"
	धूप-छाँह	१॥)	"
	प्रेतात्मा	१॥)	"
	पर्दे के पीछे	१॥)	"
	लाट साहब	१॥)	"
विरवम्भरनाथ शर्मा			
'कौशिक'	भिखारिणी	४)	विनोद पुस्तक मन्दिर
वीरेन्द्रकुमार जैन	मुक्तिदूत	५)	भारतीय ज्ञानपीठ
श्रीकृष्ण	कातिल का खंजर	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	खतरे की बगटी	॥॥)	"



श्रीकृष्ण	लालघर	॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
श्रीकृष्ण शर्मा	१३ नं० कमरा	॥॥	"
	गुप्त सुरङ्ग	॥॥	"
श्रीगोपाल आचार्य	विपथगामी	४	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
श्रीराम बेरी	प्यार की जीत	१॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
श्रीशरण	अम्बर	४॥॥	नव साहित्य प्रकाशन
	काला ब्राह्मण	२॥॥	"
	जूही की कली	२॥	"
	पंखहीन	३॥॥	"
शम्भूदयाल सक्सेना	चित्रपट	३॥॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
	दिगन्त रेखा	१॥	"
	प्रीति की रीति	२॥॥	"
	बहू रानी	४	"
	भाभी	२	"
	मगरमच्छ	६	"
	सजला	३	"
	सलाइयाँ	२॥॥	"
शशिकला	बुलबुले	१	चिनगारी प्रकाशन
शशि प्रभा	मौत का सामान	१	"
शान्तिप्रिय द्विवेदी	दिगम्बर	२	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
शान्तिस्वरूप गौड़	दशकंधर	३	विनोद पुस्तक मन्दिर
शि० चौगुले	जमींदार की बेटी	३	आनन्द पुस्तक भवन
शिवव्रतलाल वर्मन	एक ही पतवार	३॥	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
	शाही लकड़हारा	३॥॥	"
शिवमूर्ति शिव	धरती के हरे लँहगे	३	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
शिवरानी विशनोई	उपकार	२॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	दुर्भाग्य	२॥॥	"
स्वर्णमयी देवी	अधखिली कली	३॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सत्यदेव शर्मा	वह हार गई	२॥॥	नव साहित्य प्रकाशन
सत्यनारायण शर्मा	आत्महन्ता	३	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सत्यनारायण शर्मा	टूटती हुई जंजीरें	३॥	"
सत्यभूषण शर्मा	खूनी पापात्मा	॥॥	"

सत्यभूषण खत्री	छिपा दगाबाज	॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	जहर की चोरी	॥॥	"
	दो कागज के टुकड़े	॥॥	"
	पीतल का पिरामिड	॥॥	"
सन्तोष सचदेवा	रूप और छाया	२॥	नव साहित्य प्रकाशन
सरदार नानकसिंह	पवित्र पापी	॥॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
साधुशरण	मालिन	५॥	"
सिद्धिविनायक द्विवेदी	मुक्तिदान	२॥	"
	श्वेतपद्मा	१॥॥	"
सुगंध गुप्ता	खून के छींटे	२॥	चिनगारी प्रकाशन
	समुद्र के गर्भ में	२॥	"
सुदर्शन	प्रेम-पुजारिन	२॥	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
सुधाकर पांडेय	साँस-सकारे	५॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
सुन्दररयाम पर्वेज	उसकी कहानी	३॥	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
सुनीता चट्टोपाध्याय	मरीचिका	३॥॥	शारदा मन्दिर
	समिधा	४॥	"
हर्षनाथ	राजा रिपुमर्दन	३॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
हरीश	अधूरा स्वप्न	१॥॥	चिनगारी प्रकाशन
	आँसुओं का मूल्य	१॥॥	"
	चौराहा	१॥॥	"
	पथ की प्रेरणा	१॥	"
	बदलती तसवीरें	३॥॥	"
हरेन्द्रभूषण वर्मा	साकार सपने	१॥	"
हिमांसु श्रीवास्तव	नया इंसान	२॥॥	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
	सिन्दूर का जखम	२॥॥	"
त्रिलोक कुशवाहा	काल गद्दी	२॥	चिनगारी प्रकाशन
विविध	आखिरी काँटा	१॥॥	देहाती पुस्तक भण्डार
	एक सपेरा	२॥॥	"
	कंचनगढ़ (चारों भाग)	३॥	"
	कमल कुमारी	१॥॥	"
विविध	कामरूप	१॥॥	"
	कैदी सम्राट्	॥॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

## विविध

खूनी डाक्टर	२)	देहाती पुस्तक भण्डार
गढ़ दीपक	२)	देहाती पुस्तक भण्डार
चालाक सुन्दरी	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
चौराहा	३॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
ठठरी का भेद	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
तिलिस्म गढ़	१॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
नया कदम	॥=)	भारतीय प्रकाशन मण्डल
प्रेत की आवाज	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
पागल का भेद	॥॥)	"
फ्रांस की लूट (२भाग)		"
	प्रत्येक ॥॥)	
फूल में काँटा	१॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
बर्मा की रानी	३)	"
बेगुनाह	४॥)	"
भयंकर षड्यंत्र	१)	"
भूचाल	३॥)	"
भेदभरी हत्या	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मधुकरि	१॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
मुजरिम	२॥)	"
मौत की वसीयत	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
रहस्यमय कंकाल	१)	भारतीय प्रकाशन मण्डल
लपटें	२॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
लौह दुर्ग	३॥)	"
समुद्र गर्जन	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सिन्दूरी बेला	२॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
सुनहरो रात	२॥)	"
हीरे की खान	१॥)	"
त्रिशूल	१॥)	"

## अनूदित उपन्यास

अगाध क्रस्टी	मौत और मूर्तियाँ	१)	चिनगारी प्रकाशन
अज़ीमबेग चगताई	कोलतार	२॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
	फुलबूट	१॥)	”
	शरीर बीबी	१॥॥)	”
	लेफ्टिनेन्ट	१॥॥॥)	”
डी० एच० लारेंस	दो दिलों के बीच	४॥)	चिनगारी प्रकाशन
तुरकर गोरेन्द्र	रहस्य के बादल	१)	”
पर्लबक	आश्रो प्रियतम	४॥)	राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर
	माँ	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
बंकिमचन्द्र चटर्जी	आनन्द मठ	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	आनन्द मठ	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	इन्दिरा	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	इन्दिरा	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	कपाल कुण्डला	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	कपाल कुण्डला	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	कमलाकान्त का पोथा	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	कृष्णकांत का वसीयतनामा	२)	”
	कृष्णकांत का वसीयतनामा	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	चन्द्र शेखर	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	चन्द्र शेखर	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	दुर्गेशनन्दिनी	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	दुर्गेशनन्दिनी	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	देवी चौधरानी	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	देवी चौधरानी	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	बङ्गशार्दूल सीताराम	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	मृगालिनी	२)	”
	युगलाङ्कुरीय	॥)	”
	रजनी	२)	”

बंकिमचन्द्र चटर्जी	रजनी	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	राजसिंह	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	राजसिंह	३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	राधारानी	॥)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	राधारानी	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	लोक रहस्य	२)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
	विषवृत्त	२)	"
	विषवृत्त	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	सीताराम	२॥)	"
बीचर स्त्रो	टाम काका की कुटिया	१॥)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
मण्टो	हवा के घोड़े	२॥)	नव साहित्य प्रकाशन
मैक्सिम गोर्की	माँ	१॥)	भारतीय प्रकाशन मण्डल
रमणलाल वसन्तलाल			
देसाई	पैसा	४॥)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
रवीन्द्रनाथ टैगोर	आँख की किरकिरी	३)	चिनगारी प्रकाशन
	आँख की किरकिरी	३॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	कौन किसी का	२॥)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
	घर और बाहर	३॥)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	ठकुरानी बहू का बाजार	२)	भारती प्रकाशन मण्डल
	दो बहनें	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
	नौका डूबी	३॥)	"
	पाँच सदस्य		कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	राजर्षि	३॥)	"
राकाल बन्धोपाध्याय	शशाङ्क	५)	चिनगारी प्रकाशन
रूपनारायण पांडे (अनु०)	राजधानी	२)	राजहंस प्रकाशन
रेनाल्ड	पतन की ओर	२॥)	चिनगारी प्रकाशन
	पतन की तस्वीरें	२॥)	"
	पतन की सीमा	२॥)	"
	लण्डन रहस्य (४ भाग)		
	प्रत्येक	४)	"
शरतचन्द्र चटर्जी	अनुराधा	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	काशीनाथ	१)	"
	चन्द्रनाथ	१॥)	चिनगारी प्रकाशन

शरदचन्द्र चटर्जी	छोटी माँ	१)	चिनगारी प्रकाशन
	देवदास	२)	”
	देवदास	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	देहाती समाज	२)	चिनगारी प्रकाशन
	परिणीता	१)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	बड़ी दीदी	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
	भाभी का प्यार	१)	”
	वैकुण्ठ का वसीयतनामा	१॥)	”
	स्वामी	१)	”
	समाज का अत्याचार	२॥॥)	एन०डी० सहगल एण्ड सन्स
	हरि लक्ष्मी	१)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
शौकत थानवी	चार सौ बीस	३)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
	जोड़ तोड़	४)	नव साहित्य प्रकाशन
सरलाक होम्स	खूनी की खोज	२)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
साने गुरुजी	आस्तिक	३॥)	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर

## कहानियाँ

अज्ञीमवेश चगताई	चगताई की कहानियाँ (२ भाग)		
	प्रत्येक	१॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
अयोध्याप्रसाद गोयलीय	गहरे पानी पैठ	२॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
	जिन खोजा तिनपाइयाँ	२॥)	”
आनन्दप्रकाश जैन	अतीत के कंपन	३)	”
कंचनलता सम्बरवाल	चयनिका	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'	आकाश के तारे धरती के फूल	२)	भारतीय ज्ञानपीठ
कान्त (संपादक)	जनरव	३॥)	नव साहित्य प्रकाशन
	ढाक के तीन पात	२)	”
फारु नीलकंठ पिल्ले	मलयानिल	२)	राजहंस प्रकाशन
किरणकुमारी गुसा	पुरस्कार	२)	विनोद पुस्तक मन्दिर

कृष्णचन्द्र	एक खत एक खुशबू	३॥ एन०ड० सहगल एण्ड सन्स
गीता बन्धोपाध्याय,	गद्यमाधुरी (२ भाग) प्रत्येक ॥२॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
कमलाकांत पाठक	मौत के खिलाड़ी	१॥ श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
चितरंजन	आपरेशन (संकलन)	२॥ चिनगारी प्रकाशन
ज्वालाप्रसाद 'केशर'	प्रदर्शनी	२॥॥ विनोद पुस्तक मन्दिर
देवीप्रसाद धवन 'विकल'	चट्टान से पूछ लो	३॥॥ राजहंस प्रकाशन
देवेन्द्र सन्यार्थी	हिन्दी की श्रेष्ठ कहानियाँ	२॥॥ विद्या मन्दिर
नन्ददुलारे वाजपेयी (सं०)	और कुछ	३॥ नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
पदुमलाल पुत्रालाल बरूही	कलकत्ते का कल्लेआम	१॥ राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
ब्रजेन्द्र गौड़	जमाने की हार	२॥ आनन्द पुस्तक भवन
ब्रह्मानन्द श्रीवास्तव	प्रतिनिधि हिन्दी कहानियाँ	१॥॥ नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
बच्चनसिंह (सं०)	गल्पगगन की तारिकाएँ	२॥ ”
बलभद्रप्रसाद गुप्त 'रसिक'	जब सारा आलम सोता है	१॥॥ विनोद पुस्तक मन्दिर
बेचन शर्मा 'उग्र'	काश्मीर की राजतरंगिणी	
बेनीप्रसाद वाजपेयी	कहानियाँ	२॥ ”
भिष्णु धर्मरक्षित	जातकद्वय कथा (पाली)	६॥ भारतीय ज्ञानपीठ
भीष्म साहनी	भाग्यरेखा	१॥॥ राजहंस प्रकाशन
मण्टो	तुरपचाल	२॥॥ नव साहित्य प्रकाशन
मोपांसा	पगली	२॥ ”
यश (संपादक)	कथा मंजरी	... राजहंस प्रकाशन
रजनी पनिकर	सिगरेट के टुकड़े	३॥॥ ”
रतनलाल बंसल	शतरंज की मुसीबत	१॥ विनोद पुस्तक मन्दिर
रमणलाल बसंतलाल		
देसाई	हम क्यों रुकें	२॥॥ भारतीय प्रकाशन मण्डल
रवीन्द्रनाथ टैगोर	चाँद सितारे	२॥॥ एन०डी० सहगल एण्ड सन्स
	पराया	२॥॥ भारतीय प्रकाशन मण्डल
	सीमान्त	२॥॥ एन०डी० सहगल एण्ड सन्स
राजेन्द्र यादव	खेल-खिलौने	२॥ भारतीय ज्ञानपीठ
राजेन्द्रप्रसाद अवस्थी	मकड़ी के जाले	२॥ हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
राधाकृष्ण	सजला (२ खंड)	४॥ लोकसेवक प्रकाशन
रामप्रसाद विद्यार्थी 'रावी'	किसके लिए ?	१॥ विनोद पुस्तक मन्दिर
	पहला कहानीकार	२॥॥ भारतीय ज्ञानपीठ

रामसरन शर्मा	कुछ पैसे	१।)	राजहंस प्रकाशन
	जलधारा	२।)	शारदा मन्दिर
लक्ष्मीनारायण शास्त्री	हिन्दी कथा मंजरी	२।।)	श्रीभारत-भारती लि०
विजयशङ्कर मल्ल (सं०)	आधुनिक कहानियाँ	२।।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
विनोदशङ्कर व्यास (सं०)	मधुकर (४ खंड) प्रत्येक	३।)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
विमल	पुष्पछटा	२।।)	साहित्यरत्न भण्डार
विष्णुप्रभाकर	संघर्ष के बाद	३।)	भारतीय ज्ञानपीठ
विश्वम्भरनाथ शर्मा			
‘कौशिक’	कल्लोल	३।)	विनोद पुस्तक मन्दिर
वीरेन्द्र पाण्डेय	बंगाल के आँसू	॥=)	राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर
शकुन्तला अग्रवाल			
(संपा०)	सपूत	२।)	राजहंस प्रकाशन
शिवप्रसाद सिंह	आरपार की माला	२।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शिवरानी विशनोई	जीवन की अनुभूतियाँ	२।।)	”
	भीगी पलकें	...	”
शिखरानी निगम	आँचल और आँसू	३।।)	एन०डी० सहगल एण्ड सन्स
सुधाकर पाण्डेय	कहानी—मूल और शाखा	२।)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	विशिष्ट कहानियाँ	१।।।)	”

## नाटक

कन्हैयालाल मा० मुंशी	दो पौराणिक नाटक	१।।।)	हिन्दी साहित्य कुटीर
कालिदास	अभिज्ञान शाकुन्तल	१।)	एन०डी० सहगल एण्ड सन्स
	कुमारसम्भव	१।)	”
	नलोदय	१।)	”
	मालविकाग्निमित्र	१।)	”
	मेघदूत	१।)	”
	रघुवंश	१।)	”



कालिदास	विक्रमोर्वशी	११) एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
डी० एल० राय	चन्द्रगुप्त	११) राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर
	दुर्गादास	११॥) ”
	मेवाड़ पतन	११) ”
	राणाप्रताप सिंह	२१) ”
दयाशंकर शर्मा	ध्रुवतारा	१) श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
ब्रजरत्नदास	आदर्श राम नाटक	११) हिन्दी साहित्य कुटीर
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	कर्पूर मंजरी	११) विनोद पुस्तक मन्दिर
	भारत दुर्दशा	११॥) ”
	मुद्राराक्षस	११॥) साहित्यरत्न भंडार
	सत्य हरिश्चन्द्र	११॥) ”
	सत्य हरिश्चन्द्र	१) विनोद पुस्तक मन्दिर
मनुदेव 'मनुज'	भीष्मव्रत	११) शारदा मन्दिर
मोहनलाल जिज्ञासु	पर्वदान	३) श्रीभारत भारती लि०
मोहनलाल महतो	अफजल वध	११) छात्रहितकारी पुस्तकमाला
रवीन्द्रनाथ टैगोर	डाकघर	११=) एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
	मेरे नाटक	३१॥) ”
राजा लक्ष्मणसिंह	शकुंतला नाटक	११॥) विनोद पुस्तक मन्दिर
	शकुंतला नाटक	११॥) साहित्यरत्न भण्डार
रामचंद्रप्रसाद 'आलू'	वीर अभिमन्यु नाटक	१) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	सत्य हरिश्चन्द्र	१) ”
विरवनाथप्रसाद मिश्र	सत्य हरिश्चन्द्र नाटक	१॥) मन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शम्भूदयाल सक्सेना	आर्यमार्ग तथा अन्य एकाङ्की	२१॥) नवयुग ग्रन्थ कुटीर
	गङ्गाजली	११॥=) ”
	चीवर धारिणी	११) ”
	नंदरानी	११) ”
	पंचवटी	११॥) ”
	पर्णकुटी	११॥) ”
	वल्कल	११॥) ”
	विद्यापीठ	११=) ”
	सगाई	१) ”
	साधना पथ	२१॥) ”

सत्यनारायण शर्मा  
सुधाकर पांडेय

आँसुओं का देश  
अवशेष

३) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय  
२) लोकसेवक प्रकाशन

## एकांकी

अज्ञीमवेश चगताई	मिर्जा जंगी	१)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
देवदत्त अटल	स्वर्ग में गांधी	१)	राजहंस प्रकाशन
देवीलाल सामर	मृत्यु के उपरान्त	१॥॥)	”
पद्मनारायण आचार्य	सफल एकांकी	१॥॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
बच्चन सिंह	हिन्दी एकांकी	१॥॥)	”
भारतभूषण अग्रवाल	और खाई बढ़ती गई	२॥॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
मोहन चोपड़ा	समय के स्वर	२॥॥)	नव साहित्य प्रकाशन
रागेय राघव	इन्द्रधनुष	१॥॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
रामकुमार वर्मा	तीन एकांकी	१)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	रजत रश्मि	२॥॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
रूपनारायण पाण्डेय	एकांकी सप्तक	१॥॥)	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
व्यथित हृदय	मुक्ताफल	१॥॥)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
विद्यानिवास मिश्र	पंचशर	१॥॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
शारदा मिश्र	त्रिकोण	३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सरनदास भनोत (सं०)	एकांकी सर्वस्व	३)	श्री भारत भारती लि०
	सर्वश्रेष्ठ एकांकी	२॥॥)	”
चेमचन्द्र	नीर क्षीर	२॥॥)	राजहंस प्रकाशन

# काव्य : नवीन

अनूप शर्मा	वर्द्धमान	६)	भारतीय ज्ञानपीठ
अयोध्याप्रसाद	शेरो-शायरी	८)	"
गोयलीय (सं०)	शेरो-मुखन (५भाग) क्रमशः		
	८), ३) ३), ३), ३)		"
अशेष मंगलायन	मधुरिमा	१॥)	चिनगारी प्रकाशन
कलीमुखला फारुकी	रुहे-मुखन	३)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
कांत (सं०)	तूलिका	१॥॥)	नव साहित्य प्रकाशन
	५५ की श्रेष्ठ कवितायें	४॥)	"
केदारनाथ गुप्त (सं०)	कवियों की क्राँको	५)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
कृपाशंकर शर्मा	जब रामराज आएगा	१)	विनोद पुस्तक मन्दिर
गिरजाकुमार माथुर	धूप के धान	३)	भारतीय ज्ञानपीठ
घनश्याम अस्थाना	भोर के सपने	१॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
देवीरत्न अवस्थी 'करीख'	देवार्चन	५)	साहित्यरत्न भंडार
नरोत्तमदास स्वामी	पद्मपराग	१॥)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
निराला	गीत गुंज	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश'	धरती पर उतरो	२॥॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
ब्रह्मदत्त दीक्षित	कविता कलाप	२)	हिन्दी प्रचा. क पुस्तकालय
बच्चन	मिलन यामिनी	४)	भारतीय ज्ञानपीठ
बलभद्रप्रसाद गुप्त	काव्यकुञ्ज की कोकिलाएँ	२)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
बेचनशर्मा 'उग्र'	कञ्चनघट	१॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
महेन्द्र भटनागर	श्रंतराल	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
माधोसिंह दीपक	सात सौ गीत	७)	शारदा मन्दिर
रमा जैन (सं०)	आधुनिक जैन कवि	३॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
राजकुमार जैन	मदन पराजय	८)	"
राजेन्द्रदेव सेंगर	सारँधा	५)	विनोद पुस्तक, मन्दिर
रामविलास शर्मा	रूपतरङ्ग	२)	"
लक्ष्मीनारायण शास्त्री	सुमन सौरभ सानुवाद	२)	श्रीभारत।भारती लि०
लालधर त्रिपाठी	वीर छत्रसाल	१)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

विष्णुराम नागर	आधुनिक काव्य संज्ञ	३)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
श्यामनारायण प्रसाद	चिंता को लहर	१॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
श्यामनारायण पांडेय	आरती	४)	आनन्द पुस्तक भवन
	गोरावध	१)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	जौहर	५)	"
श्रीमन्तकुमार व्यास	अलगोजो	२)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
शकुंतला वर्मा	अवकाश के क्षण	॥॥)	साहित्यरत्न भण्डार
शम्भूदयाल सक्सेना	अमरलता	॥॥)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
	उत्सर्ग	१-	"
	नीहारिका	१॥॥)	"
	रैन बसेरा	१॥)	"
	भिखारिन	१-	"
	मन्वन्तर	१॥)	"
शान्ति	पंचप्रदीप	२)	भारतीय ज्ञानपीठ
शाह नसीर फरीदी	वतन के गीत	२॥॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
सम्पूर्णानन्द (सं०)	जयहिन्द	२॥)	आनन्द पुस्तक भवन
सुखवासीखाल दुबे	सुभाष सत्तावनी	॥॥)	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
सुधाकर पाण्डेय	जो गाता हूँ	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	नीहारिका	१॥)	"
सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव	जागरण के गीत	२॥)	आनन्द पुस्तक भवन
सूर्यदेव मिश्र	ध्रुवचरित्र (महाकाव्य)	३)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
हरिऔध	चुभते चौपदे	२॥)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	चोखे चौपदे	१॥॥)	"
	प्रिय प्रवास	३-	"
	पद्य प्रमोद	५)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	पारिजात	५)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	रस कलस	४॥)	"
	व्याकुल ब्रज	॥॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	वैदेही वनवास	३)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	हरिऔध सतसई	१)	"
हुकुमचन्द्र बुखारिया	मेरे बापू	२॥॥)	भारतीय ज्ञानपीठ

## काव्य प्राचीन

उद्यनारायण तिवारी(सं०)	तुलसी दल	१।)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
नरेन्द्रदेव सिंह	तुलसी काकली	२।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
नरोत्तमदास	सुदामा-चरित	॥=)	साहित्यरत्न भण्डार
नरोत्तमदास स्वामी (सं०)	चन्द्रसखी के भजन	।=)	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
	रजिया रा दूहा	॥।)	”
	क्रिसन रुक्मणी री वेलि	५।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
पद्मावती शबनम (सं०)	चन्द्रसखी और उनका काव्य	२।)	लोकसेवक प्रकाशन
	मीरा बृहत् पद संग्रह	६।)	”
रामचन्द्र श्रीवास्तव 'चंद्र'	कबीर साखी सुधा	३=)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
विद्यापति	विद्यापति पदामृत	॥।।)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
विश्वनाथप्रसाद मिश्र	घनानन्द कवित्त	३।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक'	उत्तरकाण्ड सटीक	...	राजहंस प्रकाशन
साधूराम	पुरातन काव्य लहरी	२।)	श्री भारत भारती लि०
सेनापति	कवित्त सरसो	१।)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
हरिहरनाथ टंडन	पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय)	१।।)	विनोद पुस्तक मन्दिर

## आलोचना

अक्षयचन्द्र शर्मा	संचिता	१।।।)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
अग्निदेव गुप्त विद्यालंकार	संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद	३।)	भारतीय ज्ञानपीठ
इन्द्रपालसिंह 'इन्द्र'	हिन्दी साहित्य चिन्तन	६।)	विनोद पुस्तक मन्दिर
एस० पी० खत्री	हास्य की रूपरेखा	६।)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
ओमप्रकाश अग्रवाल	हिन्दी गीतिकाव्य	३।)	साहित्यरत्न भण्डार

किशोरीलाल गुप्त	भारतेन्दु और अन्य सहयोगी कवि १०)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	भारतेन्दु, उनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कवि ॥१)	साहित्यरत्न भण्डार
केदारनाथ भट्ट तथा रमेशकुमार शर्मा	हिन्दी और उसके आचार्य १॥)	"
केदारनाथ शुक्ल	प्रसाद की कहानियाँ २॥१)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
केसरीनारायण शुक्ल	आधुनिक काव्यधारा ४॥१)	"
	आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत ३॥१)	"
	भारतेन्दु के निबन्ध ५)	"
	रूसी साहित्य ४॥१)	"
कृष्णकुमार सिन्हा	आधुनिक कवि पंत ४)	नावेल्टी एण्ड कं०
	प्रसाद की भ्रुवस्वामिनी १)	साहित्यरत्न भण्डार
	ब्रजभाषा के प्रमुख कवि ३॥१)	नावेल्टी एण्ड कं०
	सुदामा चरित १॥)	"
कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 'गिरीश'	साहित्य प्रवाह ५)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
गुलाबराय	गुप्तजी की काव्य धारा ३॥१)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
गौतम यजुर्वेदीय	प्रसादजी की कला ४)	साहित्यरत्न भण्डार
चन्द्रबली पाण्डेय	हिन्दी के निर्माता १॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
	तसवुफ़ अथवा सूफ़ीमत ४)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	साहित्य संदीपिनी २॥१)	"
	हिन्दी कवि चर्चा ३॥१)	"
जगन्नाथप्रसाद शर्मा	अजातशत्रु-समीक्षा १॥)	"
	कहानी का रचना विधान ५)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	चन्द्रगुप्त समीक्षा ॥२)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन ५॥१)	"
	स्कंदगुप्त समीक्षा ॥३)	"
	हिन्दी गद्य के युग निर्माता ३॥१)	"
जयकिशनप्रसाद	महादेवी का वेदना भाव ३॥१)	विनोद पुस्तक मंदिर

जयकिशनप्रसाद	हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ ६) हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ (न० सं०) ६)	विनोद पुस्तक मंदिर ”
जितेन्द्रनाथ पाठक	प्रेमचन्द्र और गबन २) प्रेमचन्द्र और गोदान २।)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स ”
तपेशकुमार चतुर्वेदी	विनयपत्रिका दर्शन १।।)	विनोद पुस्तक मंदिर
तारकनाथ बाली	जयशंकर प्रसाद और अजातशत्रु २) सुमित्रानन्दन पंत १।।) सुमित्रानन्दन पंत और 'आधुनिक कवि' २।।) सुमित्रानन्दन पंत और उत्तरा ३)	” ” ” ”
देवमित्र	कहानी के रूप और तत्त्व १।।) निबंध के रूप और तत्त्व १।।।)	नावेल्टी एण्ड कं० ”
देवेन्द्र सत्यार्थी	बेला फूले आधी रात (लोक सा०) १०)	राजहंस प्रकाशन
नगेन्द्र	आधुनिक हिंदी नाटक २) साकेत : एक अध्ययन ३।।) सुमित्रानन्दन पंत ३)	साहित्यरत्न भण्डार ” ”
नरेन्द्रदेवसिंह शास्त्री तथा राजेन्द्र शर्मा नरोत्तमदास स्वामी	भ्रमर गीत सार (टीका तथा समा०) ५) वल्लरी १।।) सूर समीक्षा २) हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन (२ भाग) प्रत्येक २।।)	विनोद पुस्तक मन्दिर नवयुग ग्रन्थ कुटीर ”
नेमिचन्द्र शास्त्री	(२ भाग) प्रत्येक २।।)	भारतीय ज्ञानपीठ
प्रसुनारायण शर्मा 'सहृदय'	साहित्यालोचन-सिद्धान्त १।।) हिन्दी आलोचना के भिन्न-भिन्न स्रोत और उनके विकास का इतिहास १।)	विनोद पुस्तक मन्दिर ”
पद्मावती शबनम	मीरा : एक अध्ययन ३।।)	लोकसेवक प्रकाशन
परमेश्वरीप्रसाद गुप्त	'प्रसाद' के नाटक १)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

पुरुषोत्तम लाल मेनारिया	राजस्थानी भाषा को रूबरखा १)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
फूलचन्द्र जैन 'सारंग'	शैलियाँ १॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	हिन्दी और उसके कलाकार ६)	,,
ब्रजेन्द्र पाण्डेय	भारतेन्दुकालीन व्यंग परम्परा २॥)	कल्याणदास पण्डित ब्रदर्स
बटे कृष्ण	बौरस का शास्त्रीय विवेचन ३॥)	नन्दकिशोर पण्डित ब्रदर्स
बाबू बजरत्नदास	हिन्दी उपन्यास साहित्य ५)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	हिन्दी नाट्य साहित्य २॥॥)	,,
भवानीशङ्कर शास्त्री	आधुनिक महाकवि २)	श्रीभारत-भारती लि०
भारतभूषण 'सरोज'	आधुनिक तीन महाकाव्य (कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत) ३॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	उद्धव शतक (अध्ययन) २॥)	,,
	कामायनी ,, १)	,,
	जायसी ,, २॥)	,,
	तुलसी ,, २॥)	,,
	प्रियप्रवास ,, १)	,,
	बिहारी ,, २॥)	,,
	साकेत ,, २॥)	,,
	साहित्यालोचन २॥)	,,
महेन्द्र भटनागर	आधुनिक साहित्य और कला २)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मोहन वल्लभ	आलोचना शास्त्र २॥)	श्रीभारत-भारती लि०
रघुनाथप्रसाद 'साधक'	समालोचना शास्त्र १२)	नव साहित्य प्रकाशन
राजनाथ शर्मा	कबीर २॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	निराला २॥)	,,
	प्रेमचन्द्र २॥)	,,
	सार संचयन ६)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
	हिन्दी साहित्य के प्रमुख वाद २॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
राजेन्द्रसिंह गौड़	आधुनिक कवियों की काव्य- साधना ३)	श्रीराम मेहरा पण्डित कं०
	हमारी नाट्य साधना २॥)	,,
	हमारे नाटककार ३)	,,



रांगेय राघव	काव्य कला और शास्त्र ३)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	काव्य के मूल विवेच्य ३)	”
	काव्य यथार्थ और प्रगति ३)	”
	महाकाव्य विवेचन ३)	”
	समीक्षा और आदर्श ३)	”
रामबन्धर शर्मा	माखनलाल चतुर्वेदी ३॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
रामगोपालसिंह चौहान	हिन्दी के गद्यकार और उनकी शैलियाँ ४)	साहित्यरत्न भण्डार
रामचन्द्र शुक्ल	सूरदास ३॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
रामजीलाल बधौतिया	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र २॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
रामनाथ सुमन	कवि प्रसाद की काव्य साधना ३॥)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
रामनारायण मिश्र	हमारे प्रमुख साहित्यकार २॥)	”
रामलाल सावल	प्राचीन महाकवि २॥)	श्रीभारत-भारती लि०
रामविलास शर्मा	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी समालोचना ५)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ ३॥)	”
रामविलास शर्मा	भारतेन्दु युग ३)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	लोकजीवन और साहित्य ३॥)	”
रामस्वरूप चतुर्वेदी	शरत् के नारी पात्र ४॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
राममीसहाय सिन्हा	महादेवी वर्मा २॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
बालधर त्रिपाठी 'प्रवासी'	दिनकर के काव्य ४)	आनन्द पुस्तक भवन
वासुदेव शर्मा शास्त्री	सूरदास २॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
विजयशंकर मल्ल	हिन्दीकाव्य में प्रगतिवाद २॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
विनयमोहन शर्मा	दृष्टिकोण ४)	”
विनोदशंकर व्यास	उपन्यास कला १॥)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	प्रसाद और उनका साहित्य ३॥)	”
	यूरोपीय साहित्य २)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
विरवन्धरनाथ उपाध्याय	हिन्दी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि ६॥)	साहित्यरत्न भण्डार
विरवनाथप्रसाद मिश्र	चनानन्द ६)	विद्यामन्दिर

विरवनाथप्रसाद मिश्र	बिहारी	३॥॥	विद्यामन्दिर
	बिहारी की वाग्विभूति	२॥॥	"
	भूषण	४॥	"
	रसखानि	२॥	"
	वाङ्मय विमर्श	५॥	हिन्दी साहित्य कुटीर
	हिन्दी का सामयिक साहित्य	४॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
श्रीकृष्णलाल	मानस दर्शन		आनन्द पुस्तक भवन
श्रीपति शर्मा	कहानीकला और प्रेमचन्द्र	२॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
श्रीराम वशिष्ठ	गीतकार विद्यापति	२॥॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
	प्रेमचन्द्र और कर्मभूमि	२॥॥	"
	महाकवि धनानन्द	३॥॥	"
शकुन्तला वर्मा	हिन्दी काव्य में सौंदर्य भावना	४॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शम्भूदयाल सक्सेना	काव्यालोचन	१॥॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
शम्भूनाथ पाण्डेय	कवि प्रसाद	२॥॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
	गद्यकार प्रसाद	२॥॥	"
	चन्द्रगुप्त अध्ययन	२॥	"
शम्भूनाथसिंह	छायावाद युग	६॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शशिभूषण दास गुप्त	राधा का क्रम विकास	८॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
शिवनाथ	आचार्य रामचंद्र शुक्ल	४॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	भारतेन्दु युगीन निबन्ध	२॥॥	"
शिवनारायण लाल	हिन्दी उपन्यास	५॥	"
शुकदेव बिहारी मिश्र,	हिन्दी की गद्य शैली का		
मिश्रबंधु	विकास	२॥	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
सत्येन्द्र	गुप्तजी की कला	२॥	साहित्यरत्न भण्डार
	प्रेमचन्द्र कहानी कला	३॥	"
	ब्रज लोक साहित्य का		
	अध्ययन	६॥	"
	साहित्य की झाँकी	१॥॥	"
	हिन्दी एकांकी	२॥॥	"
सरस्वतीकुमार	काव्य प्रवेशिका	१॥॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
सिद्धनाथ कुमार	रेडियो नाट्य शिल्प	२॥॥	भारतीय ज्ञानपीठ
सीताराम चतुर्वेदी	शैली और कौशल	६॥	हिन्दी साहित्य कुटीर

सीताराम जायसवाल	आधुनिक आलोचना और साहित्य २।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
सुधाकर पाण्डेय	मीरा, जीवन और काव्य ॥३॥ हिन्दी साहित्य और साहित्यकार १)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
सुधीन्द्र	रास पंचाध्यायी तथा भंवर गीत २)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	साहित्य समीक्षाजलि ४)	विनोद पुस्तक मन्दिर
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'	रवीन्द्र कविता कानन ॥३॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सूर्यबलीसिंह	विद्यापति २।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	हिन्दी कविता ३।)	"
सुशीलादेवी तथा विमलादेवी	प्रसाद के उपन्यास तथा कहानियाँ २।)	"
सोमनाथ गुप्त	कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन, (पूर्व व उत्तर भाग) प्रत्येक २।)	श्रीभारत-भारती लि०
'हरिऔध'	रस, साहित्य तथा समीक्षाएँ ४)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
हरिहरनाथ टंडन	चिन्तामणि दर्शन (चिन्तामणि प्रथम भाग) ३)	विनोद पुस्तक मन्दिर
हरीकांत	भारतीय प्रेमाख्यान काव्य १०)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
हिकमत	फारसी साहित्य की रूपरेखा २)	"
हीरालाल चोपड़ा	इकबाल और उनकी शायरी ३।)	"
	इकबाल और उनकी शायरी (संक्षिप्त) ॥३॥	"
त्रिभुवनसिंह	हिन्दी उपन्यास और यथार्थ-वाद ५)	"

# निबन्ध

उदयभानुसिंह	जीवन और साहित्य	१॥॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
उमेशचन्द्र मिश्र	अतीत के बिखरे पत्ते	१)	”
कन्हैयालाल मिश्र	उच्च जीवन	१।	”
केसरीनारायण शुक्ल	जिन्दगी मुस्कराई	४)	भारतीय ज्ञानपीठ
टाल्लस्टाय	किंजल्क	४)	विद्यामन्दिर
	कला क्या है		
	(२ भाग) ॥॥॥॥, १)	१)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
नंददुलारे वाजपेयी	नया साहित्या नये प्रश्न	६)	विद्या मन्दिर
प्रकाशचन्द्र गुप्त	साहित्यधारा	४)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
प्रभाकर माचवे	बेरंग	२॥॥	नव साहित्य प्रकाशन
परशुराम चतुर्वेदी	नव निबन्ध	२॥॥	लोकसेवक प्रकाशन
	मध्य कालीन शृङ्गारिक प्रवृत्तियाँ		
	तथा नव निबन्ध	३)	”
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव	प्रगति के पथ पर	१।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
भगवतीशरण सिंह	मानव के मूल में	१॥॥	विद्यामन्दिर
महावीरप्रसाद द्विवेदी	रसज्ञ रंजन	१।)	साहित्यरत्न भण्डार
मूलचन्द्र	विचार वाटिका	२॥॥	श्रीभारत-भारती लि०
रवीन्द्रनाथ टैगोर	स्वदेश	२॥॥	भारतीय प्रकाशन मण्डल
राजनाथ शर्मा	साहित्यिक निबन्ध	७॥॥	विनोद पुस्तक मंदिर
राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी	जीवन का रहस्य	१॥॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
रामचन्द्र शुक्ल	चिन्तामणि (भाग २)	३)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
रामजीलाल बघौतिया	हिन्दी निबन्ध	३॥॥	विनोद पुस्तक मंदिर
रामबिलास शर्मा	स्वाधीनता और राष्ट्रीय		
	साहित्य	३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
राबी	क्या मैं अंदर आ सकता हूँ	२॥॥	भारतीय ज्ञानपीठ

राहुल सांकृत्यायन	अतीत से वर्तमान	५)	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय
वशिष्ठ	निबन्ध वल्लरी	१॥॥)	श्री भारत-भारती लि०
विजयशंकर मरुत	आधुनिक निबन्ध	२॥॥)	विद्यामंदिर
वैल बिहारी गुप्त	हिन्दी निबन्ध	२॥)	"
श्रीमधुकर	भारतीय विचार	२)	भारतीय ज्ञानपीठ
	विचार और समस्यायें	६)	"
	साहित्य सुमन	४)	"
शंकर बंधु	दिन के सपने	२)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	बिखरी किरणें	१॥)	"
शरण	निबन्ध कौमुदी	३॥॥)	नवसाहित्य प्रकाशन
शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय	स्वदेश और साहित्य	१॥३॥॥)	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय
शान्तिप्रिय द्विवेदी	साकल्य	४)	"
शिवनारायण लाल	निबन्ध निधि	२॥)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	प्रबन्ध पयोधि	२॥॥)	"
सत्येन्द्र	कला, कल्पना और साहित्य	४)	साहित्यरत्न भंडार
संसारचंद्र	गद्य सुषमा	२॥॥)	श्रीभारत भारती लि०
'हरिऔध'	बोलचाल	६॥)	हिंदी साहित्य कुटीर

## हास्य-व्यंग्य

कुटिलेश	चकाचक	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	ठंठी सड़क	१॥॥)	"
कुशवाहा 'कांत'	उड़ते-उड़ते	२॥॥)	चिनगारी प्रकाशन
कौतुक बनारसी	कलम कुल्हाड़ा	२॥॥)	आनन्द पुस्तक भण्डार
कृष्णगोपाल 'आबिद'	एक दिल सौ घाव	२॥॥)	नवसाहित्य प्रकाशन
चिरंजीव	दादी माँ जागी	२॥॥)	"
जहूर बख्श	पदो और हँसो	१)	आप्रहितकारी पुस्तकालय

जी० पी० श्रीवास्तव	कम्बखती की मार	२॥॥	भारतीय प्रकाशन मण्डल
	चुटकियाँ	२॥॥	”
	बौछार	२)	”
	भक्तिन	१॥॥	”
	भय्या अकिल बहादुर	२॥॥	”
	लकड़बध्वा	१॥॥	”
भूपसटराय बनारसी	गरमचाय	१॥॥	”
नटवर	दाँव-पेंच	२)	”
बेढब बनारसी	उपहार	१॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	गाँधीजी का भूत	१॥॥	लोकसेवक प्रकाशन
	धन्यवाद	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	बिजली	२)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	बेढब की बहक	२)	”
	महत्व के गुमनाम पत्र	१॥॥	लोकसेवक प्रकाशन
	लफटएट पिगसन की डायरी	४)	आनन्द पुस्तक भवन
	हास परिहास	२॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
मुरखीवर व्यास	दाढ़ी पर टैक्स	॥॥॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
विष्णुचलप्रसाद गुप्त	उलटा उस्तुरा	२)	चिनगारी प्रकाशन
शौकत थानवी	हँसती बोलती तस्वीरें	१॥॥	ज्ञानहितकारी पुस्तकमाला
सागर बाबूपुरी (सं०)	भारत में विदेशी नेता	२)	नवसाहित्य प्रकाशन
बिबिध	रिमरिम	१॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स

## पत्र, संस्मरण तथा यात्रा-विवरण

अयोध्याप्रसाद गोबलीय	जैन जागरण के अग्रदूत	५)	भारतीय ज्ञानपीठ
आर० आर० दिवाकर	गाँधीजी-जैसा मैंने देखा	१॥॥	राजहंस प्रकाशन
कमलापति त्रिपाठी	बापू के चरणों में	१॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
कल्याणदेवप्रसाद गौड़	जापान वृत्तान्त	॥॥	”
देवेन्द्र सत्सार्थी	एक युग, एक प्रतीक	४)	राजहंस प्रकाशन

धुनिराम त्रिपाठी	संस्मरण और आत्मकथाएँ	१॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
बनारसीप्रसाद चतुर्वेदी	रेखाचित्र	४॥	भारतीय ज्ञानपीठ
	संस्मरण	३॥	"
	हमारे आराध्य	३॥	"
जैजनाथसिंह 'विनोद'	द्विवेदी पत्रावली	२॥॥	"
राजकुमार	अमेरिका में नेहरू	१॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	चीन और नेहरू	१॥॥	"
	नेहरू की रूस यात्रा	१॥॥	"
रामेश्वरनाथ मिश्र	कार्यचक्र	१॥	"
रामस्वरूप श्रीवास्तव	अफ्रीका की विजय	१॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शंकरलाल 'पारीक'	आदर्श की पगडंडियाँ	२॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
स्वामी सत्यदेव परित्राजक	अमरीका दिग्दर्शन	१॥॥	नवयुग ग्रंथ कुटीर
	अमरीका भ्रमण	॥॥॥	"
सत्यनारायण शर्मा	संघर्ष के पथ पर	१॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
विविध	इंगलैण्ड यात्रा	॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	काश्मीर दर्शन	॥॥	"
	लंका के मोती	॥॥	"

## आत्मकथा तथा जीवनी

कमलापति त्रिपाठी	युगपुरुष	२॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
चंद्रशेखर पाठक	महाराणा प्रतापसिंह	२॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
धुनिराम त्रिपाठी	संस्मरण और आत्मकथाएँ	१॥	"
परमानन्द शास्त्री	स्वातन्त्र्य संग्राम के महारथी	३॥	श्रीभारत-भारती लि०
	भारत की दिव्य विभूतियाँ	२॥	"
रतनलाल बंसल	चन्द्रशेखर आजाद	१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
	तीन क्रांतिकारी शहीद	३॥	"
	सरदार भगतसिंह	१॥	"
रामस्वरूप कौशल	महापुरुषों के दर्शन	३॥	शारदा मन्दिर

स्वामी भवानीदयाल	प्रवासी की आत्मकथा	८]	राजहंस प्रकाशन
सत्यनारायण कस्तूरिया	सम्राट् चन्द्रगुप्त	३]	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सूर्यदेवसिंह	महाराणा हम्मीरसिंह	१॥]	”
सैयद कासिम अली	शान्तिदूत अमर बापू	२॥]	”
हनुमानप्रसाद शर्मा	राणा साँगा	१]	”
विबिध	पंडित नेहरू	१५]	विनोद पुस्तक मन्दिर

## इतिहास : साहित्यिक

कामताप्रसाद जैन	हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास	२॥=]	भारतीय ज्ञानपीठ
गुलाब राय	हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास	३]	साहित्यरत्न भण्डार
जयकिशनप्रसाद	आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास	३॥]	विनोद पुस्तक मन्दिर
द्वारिका प्रसाद	संस्कृत साहित्य का इतिहास	२॥]	”
परशुराम	हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग	१॥]	श्रीभारत-भारती लि०
मजरलदास	उर्दू साहित्य का इतिहास	३॥]	हिन्दी साहित्य कुटीर
	खड़ी बोली हिन्दी साहित्य का इतिहास	३]	”
राजनाथ शर्मा	हिन्दी साहित्य का इतिहास	२॥]	विनोद पुस्तक मन्दिर
	हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास	१॥]	”
विरवनाथप्रसाद मिश्र	हिन्दी का अतीत	...	विद्यामंदिर
शकुन्तला अग्रवाल	हिन्दी साहित्य का इतिहास (आधुनिक)	१=]	राजहंस प्रकाशन
सीताराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य सर्वस्व	११]	हिन्दी साहित्य कुटीर



हंसराज अग्रवाल

संस्कृत साहित्य का

इतिहास ४॥१॥, ७॥१॥

राजहंस प्रकाशन

## भाषा-विज्ञान

कपिलदेव सिंह	ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोलं ८)	विनोद पुस्तक मन्दिर
चन्द्रबली पायडेय	राष्ट्रभाषा पर विचार २॥१॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय'	भाषा-विज्ञान तत्त्व १॥१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
भारतभूषण 'सरोज'	भाषा-विज्ञान २॥१॥	"
राजनाथ शर्मा	हिन्दी भाषा का इतिहास २॥१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
राममूर्ति मेहरोत्रा	लिपि विकास १॥१॥	साहित्यरत्न भण्डार
सत्यदेव चौधरी	हमारी भाषा परम्परा १॥१॥	श्रीभारत-भारती लि०
सीताराम चतुर्वेदी	भाषालोचन ६)	हिन्दी साहित्य कुटीर

## व्याकरण तथा रचना

अष्टभुजाप्रसाद पायडेय	हिन्दी स्पष्ट रूप में ३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
आदित्यप्रसाद	हिन्दी व्याकरण ज्ञान (पहला) १॥१॥	"
तरुण	मौखिक निबन्ध रचना १॥१॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
राजेश्वरसिंह गौड़	हिन्दी रचना १॥१॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०

## रस अलंकार तथा पिंगल

जसवंतसिंह	भाषा भूषण	१)	साहित्यरत्न भण्डार
भिस्नारीदास	काव्य निर्णय	१२)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र	काव्याङ्ग कौमुदी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) १।), १।।।), ३)		नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
श्रीप्रवासी तथा संपूर्णानंद	रस अलंकार और पिंगल	१)	आनन्द पुस्तक भवन
शम्भुनाथ पांडेय	काव्य शास्त्र	३)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	रस, अलंकार, पिंगल	२।।)	”
संसारचंद्र	अलंकार प्रदीप	१।।।=)	श्रीभारत भारती लि०
हरिदामोदर वेल्लणकर	सभाष्य रत्न मंजूषा	२)	भारतीय ज्ञानपीठ

## कोष तथा संदर्भ-ग्रन्थ

देवकीनन्दन शर्मा	आलेखन कला	२)	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
भालचंद्र पाठक	आर्थेटिक जूनियर डिक्शनरी	३।।।=)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
भुजबली शास्त्री	कन्नड़ प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रंथ सूची	१३)	भारतीय ज्ञानपीठ
रामचंद्र वर्मा	प्रामाणिक हिन्दी कोष	१२।।)	हिन्दी साहित्य कुटीर
लालधर त्रिपाठी	प्रचारक हिन्दी शब्दकोष (गुटका, मम्बोला, वृहद्)	२।।।=), ८), १२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
शम्भुनाथ त्रिपाठी	नाममाला सभाष्य	३।।)	भारतीय ज्ञानपीठ

## संस्कृत-वाङ्मय

नरोत्तमदास स्वामी	संस्कृत विहार	१॥१॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
मनोहरलाल गौड़	संस्कृतानुवाद	१॥१॥	”
	संस्कृत सरणि	१॥१॥	”
संसारचंद्र	नागानन्द (हर्ष प्रणीत)	३॥	श्रीभारत-भारती लि०
विविध	संस्कृत प्रबंध	१॥३॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	संस्कृत प्रवेशः	१॥३॥	”

## इतिहास तथा संस्कृति

अवधबिहारी पांडेय	भारतवर्ष का इतिहास	३॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
देवेन्द्रनाथ शुक्ल	भारत का अभिनव इतिहास	४॥१॥	”
ओमप्रकाश चतुर्वेदी	विश्व इतिहास का दिग्दर्शन	२॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
नंदकिशोर वरगाही	इंग्लैण्ड का सरल इतिहास	२॥१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
प्यारेलाल शर्मा	विश्व इतिहास की रूपरेखा	६॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
परमात्माशरण	भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास	५॥	”
	मध्य कालीन भारत	३॥	”
बेनीप्रसाद वाजपेयी	प्राचीन भारत की जनसत्ता और संस्कृति	३॥१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
बुजेश्वर वर्मा	भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास	१॥१॥	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०

भगवत्शरण उपाध्याय	कालिदास का भारत (२ भाग) प्रत्येक ४)	भारतीय ज्ञानपीठ
मंगलदेव शास्त्री	भारतीय संस्कृति : वैदिकधारा ७)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मुनिकांत सागर	खण्डहरों का वैभव ६) खोज की पगडंडियाँ ६)	भारतीय ज्ञानपीठ
रम शंकर त्रिपाठी	प्राचीन भारत का इतिहास १०)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
रामवृक्षसिंह, हीरालालसिंह	आधुनिक यूरोप का इतिहास ७)	"
रामविलास शर्मा	मानव सभ्यता का विकास ५)	विनोद पुस्तक मन्दिर
लक्ष्मीशंकर व्यास	चौलुक्य कुमारपाल ४)	भारतीय ज्ञानपीठ
विश्वनाथ मुखर्जी	काशी : अतीत और वर्तमान २॥)	"
सत्यनारायण दूबे	आधुनिक भारत का इतिहास ४॥)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	मध्यकालीन भारत का इतिहास ३॥)	"

## राजनीति तथा नागरिक-शास्त्र

एस० के० झा	प्रारम्भिक नागरिक-शास्त्र २)	नावेस्टी एण्ड क०
एस० बी० पुणताम्बेकर	नागरिक नीति ३)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
ओमप्रकाश गुप्ता	नेहरूविश्वशान्ति की खोज में ४॥)	एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
कन्हैयालाल वर्मा	अमेरिका का संविधान ६) नागरिक-शास्त्र के मूलतत्त्व ४) पाश्चात्य राजनीति विचारों का इतिहास ८॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स " "
	भारत का संविधान ७)	"
	भारतीय नागरिकता की भूमिका ५॥)	"

कन्हैयालाल वर्मा	भारतीय राजनीति और शासन-पद्धति ८)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	भारतीय राजनीति और शासन विकास ७॥)	"
	राजनीतिक भारत ४॥)	"
	हाईस्कूल नागरिक-शास्त्र २)	"
कमलापति त्रिपाठी	बापू और भारत ५)	"
	बापू और मानवता ५)	"
कृष्णानन्द राय	भारत और जनतंत्र ॥)	राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर
गोविन्द सहाय	कांग्रेस ही क्यों ॥=)	"
चेत	भारतीय स्थानीय स्वशासन ४॥)	नावेलटी एण्ड कं०
जे० एच० वारेन	इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन प्रणाली ५॥)	"
डी० एल० आनन्दराव		"
तथा राधेश्याम विद्यार्थी	समाज सेवा १॥)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
दिवाकर जी	भारतीय राष्ट्रीयता किधर ॥)	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
देववृत्त विद्यार्थी	भारतीय राष्ट्रीयता १॥)	साहित्यरत्न भण्डार
नवीननारायण अग्रवाल	आजाद हिंद का प्रस्तावित विधान १॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	बापू का बलिदान हमारे लिए खुली चुनौती है १)	"
प्रमोद	नेहरू और भारतीय राजनीति ३)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
महात्मा गांधी	गांधीवाद की विवेचना १॥)	"
मालसिंह	अनधिकृत डंगर प्रवेश एकट तथा नियम १६५४ ॥)	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
	राजस्थान पंचायत कानून २)	"
मौलाना आजाद	कौल फैसल १॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
रतनलाल वंसल	रेशमी पत्रों का पड्यंत्र ४)	विनोद पुस्तक मन्दिर
राजबहादुरसिंह	कांग्रेस का सरल इतिहास ३)	राजहंस प्रकाशन
विरवनाथ राय	पार्लमेन्टरी सरकार ३)	लोकसेवक प्रकाशन
श्रीनेत्र पाण्डेय	नागरिक-शास्त्र दिग्दर्शन ४)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	भारतीय संविधान दिग्दर्शन ३)	"

शुभदा तैलङ्ग	नागरिक और नागरिकता ३॥॥	लोकसेवक प्रकाशन
सूर्यबलीसिंह	राजनीति परिचय २॥॥	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
सूर्यभान पालीवाल	नागरिक-शास्त्र के मूल सिद्धान्त २)	शारदा मन्दिर
त्रिलोचन पंत	इंगलैण्ड का संविधानिक इतिहास (२ भाग)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स

## अर्थशास्त्र, वाणिज्य तथा भूगोल

अवधेशकुमार सिन्हा	प्रवेशिका आर्थिक और वाणिज्य भूगोल २॥॥	नावेल्टी एण्ड कं०
	प्रवेशिका व्यापार संगठन और पत्र व्यवहार १॥॥	”
	माध्यमिक आर्थिक और वाणिज्य भूगोल ४)	”
आनन्दकुमार	बीमा का प्रारम्भिक सिद्धांत ५)	”
	व्यापार संचालन और बाजार सूचनाएँ (२ भाग) ३॥॥, ३॥॥	”
एम० के० ओम्का	व्यापारिक पद्धति, कार्यालय-प्रबन्ध और सहकारिता १॥	”
एम० एल० भार्गव	सुगम गणना तालिका २॥	नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स
कामताप्रसाद	वाणिज्य विधि की रूपरेखा ७॥	नावेल्टी एण्ड कं०
कामेश्वर झा	प्रारम्भिक आर्थिक और वाणिज्य भूगोल १॥॥	”
केदारनाथ गुप्त	प्रवेशिका बही लेखन ३॥॥	”
	विक्रय तत्व ४॥॥	”
जे० एन० झा	ग्राम्य अर्थशास्त्र और सहकारिता १॥=)	”
	प्रवेशिका अर्थशास्त्र २॥	”
जैन और भार्गव	आधुनिक अर्थशास्त्र ७)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स

डी० एन० रामस्वामी पी० झा	ज्ञान का आर्थिक विकास १।) उच्च वाणिज्य अंकगणित ५) नवीन व्यापारिक अंक गणित १।।।)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स नावेस्टी एण्ड कं० ” ”
बालचंद्र श्रीवास्तव बी० के० सिंह रतनकुमार जैन	बीमा का प्रारम्भिक अध्ययन ६।) अमेरिका का आर्थिक विकास २।) भारतीय औद्योगिक कानून ३।) भारतीय प्रमण्डल अधिनियम ४।) भारतीय वाणिज्य विधान ६।) भारतीय वाणिज्य विधान १२।।)	नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स ” ” ” ” ”
रत्नापति शुक्ल	भारतीय अर्थशास्त्र (भाग १) ६।।)	”
रामजी सहाय	इंग्लैण्ड का आर्थिक विकास ३।।।)	”
रामलोचन सिंह	बनारस ८।) बनारस (पुस्तकालय एडीशन) १२।।)	” ”
रामवतार लाल बैदेहीवल्लभ त्रिपाठी	भारत की आर्थिक समस्या ५।।।) प्रायोगिक भूगोल और मानचित्र पठन १।।।)	नावेस्टी एण्ड कं० नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स
श्रीवास्तव तथा तिवारी	मुद्रा, साख तथा बैंक- व्यवस्था २।।।)	”
शंकरसहाय सबलेना	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त १२।।।) आर्थिक विकास की कहानी २।) प्रारम्भिक अर्थशास्त्र ६।।।।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं० ” ”
तथा प्रेमनारायण माथुर	भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा (२ भाग) ८।, ७।।।)	”
शिवराम श्रीवास्तव सुधाकर पांडेय सुरेशकुमार दिवाकर	आयक विधान और खाता ५।।) आधुनिक परिवाहन १।।।) भारत का आर्थिक भूगोल ३।।)	नावेस्टी एण्ड कं० हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय नंदकिशोर एण्ड ब्रदर्स

## कृषि तथा पशु-पालन

चन्द्रनाथ मिश्र	भारतीय कृषि-विज्ञान (३ भाग) प्रत्येक २॥॥	श्रीप्रभाकर साहित्यालोक
रामेश्वर 'अशांत'	अच्छी खाद २॥॥	देहाती पुस्तक भंडार
	अच्छे बीज ॥॥॥	"
	आधुनिक कृषि विज्ञान ६)	"
	आम की बागवानी ३॥॥	"
	आलू की खेती ॥॥॥	"
	कपास की खेती १	"
	खेत की तैयारी २॥॥	"
	खेती और बागवानी २॥॥	"
	खेती की कहानी १)	"
	गन्ने की खेती ॥॥॥	"
	गोभी की खेती ॥॥	"
	जीरा, घनिया, अजवाइन ॥॥॥	"
	टमाटर की खेती ॥॥	"
	तम्बाकू की खेती २॥॥	"
	तरकारियों की खेती १॥॥	"
	तिलहन की खेती ॥॥=)	"
	धान की खेती १॥॥	"
	फसल रक्षक औषधियाँ २॥॥	"
	फूल फुलवारी २॥॥	"
	व्याधियों की रोक-थाम १॥॥॥	"
	संतरे की बागवानी २॥॥	"
	सोयाबीन ॥॥	"
शङ्करराव जोशी	आलू की खेती १॥॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
	कपास की खेती १॥॥	"
	गन्ने की खेती १॥॥	"



शङ्करराव जोशी	गेहूँ की खेती	१॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	धान की खेती	१॥)	”
दत्तप्रसाद शर्मा	पुष्प-विज्ञान	१॥)	हिन्दी साहित्य कुटीर
विविध	उन्नत सिंचाई	२)	देहाती पुस्तक भण्डार
	कर्मशैयल पोल्ट्री	४)	”
	खेती बाड़ी (किसान गाइड)	१॥)	”
	खेती और ट्रैक्टर	६)	”
	गेहूँ की खेती	१॥)	”
	जौ की खेती	१॥)	”
	ट्रैक्टर प्राइमर	१॥)	”
	डैरीफार्म का व्यापार	३॥)	”
	तरकारी साग-भाजी की खेती	३॥)	”
	पशु चिकित्सा	४)	”
	पशु चिकित्सा बड़ी पुस्तक	४)	”
	पशु रोग और चिकित्सा	६)	”
	पोल्ट्री फार्मिङ्ग	४)	”
	पोल्ट्री सरजन	४)	”
	फल संरक्षण	२॥)	”
	फलों की खेती (फल्दार बागवानी)	३॥)	”
	वैशमिक पशु-पालन व चिकित्सा	४)	श्रीप्रभाकर साहित्यालोक

## विज्ञान, गणित तथा सामान्य ज्ञान

आर० डी० विद्यार्थी	प्रारम्भिक जन्तु विज्ञान	२॥)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	प्रारम्भिक वनस्पति विज्ञान	२॥)	”

गङ्गाशरण भार्गव तथा

मनोहरलाल भार्गव	हाई स्कूल रसायन-शास्त्र	३।।	नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स
ज्वालाप्रसाद गुप्त	सुबोध गणित	१=)	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
जगदीशप्रसाद रस्तोगी एवं			
कन्हैयालाल अग्रवाल	अङ्कगणित दर्पण	२।।	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
डी० सी० गग	सामान्य ज्ञान	२।।।)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
दयामसाद लखडेलवाल	पदार्थ और शक्ति	३=)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	पदार्थ-शक्ति और विश्व	२।।।)	,,
नारायण प्रसाद जैन	ज्ञान गंगा	६।)	भारतीय ज्ञानपीठ
नेमिचन्द्र जैन	केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि	४।)	,,
	भारतीय ज्योतिष	६।)	,,
प्रफुल्लकुमार मोदी	करलक्षणा	।।।)	,,
पी० का	प्रारम्भिक नियामक		
	ज्यामिति	२।।।)	नावेल्टी एण्ड कं०
पृथ्वीनाथ भार्गव	आधुनिक कार्बनिक रसायन	४।।।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
	प्रायोगिक रसायन शास्त्र	२।।।)	,,
	माध्यमिक रसायन गणित	१।।।।)	,,
फूलदेव सहाय वर्मा	विज्ञान और वैज्ञानिक	१।।।)	नावेल्टी एण्ड कं०
भूरलसिंह एवं जगदीश- प्रसाद टंडन	अकार्बनिक रसायन शास्त्र	१२।।।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
मनोहरलाल भार्गव तथा			
गङ्गाशरण भार्गव	हाई स्कूल भौतिक शास्त्र	३।।।)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
राजेन्द्रसिंह शर्मा	सामान्य ज्ञान बृहद्	३।।।।)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
रामचरण मेहरोत्रा तथा	प्रारम्भिक रसायन शास्त्र	२।।।)	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
रामदास तिवारी	सामान्य-विज्ञान	२।।।)	,,
	कार्बोनिक रसायन	४।)	,,
वंशगोपाल सिंगरन एवं			
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव	प्रायोगिक भौतिक विज्ञान	४।।।)	,,
विश्वनाथ त्रिपाठी	प्रभाकर जंत्री	।।।)	श्रीप्रभाकर साहित्यालोक
बी० आर० चारियर तथा			
मोलासिंह	प्रारम्भिक स्थिति-विज्ञान	५।)	नावेल्टी एण्ड कं०

# स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा वैद्यक

केदारनाथ गुप्त	प्राकृतिक चिकित्सा शरीर विज्ञान तात्कालिक चिकित्सा	४) छात्रहितकारी पुस्तकमाला १)	”
	स्वास्थ्य और जल चिकित्सा	२)	”
	हम सौ वर्ष कैसे जीवें ?	२)	”
केशवकुमार ठाकुर	फल उनके गुण तथा उपयोग	२)	”
	स्वास्थ्य और व्यायाम	२)	”
ज्योतिर्मयी ठाकुर	उपवास	२)	”
जोशिया ओल्ड फील्ड	किशमिश चिकित्सा	॥१)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
देवीप्रसाद खत्री	मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता	॥१)	”
देवेन्द्रनाथ भट्टाचार्य	स्वास्थ्य परिचय	॥२)	”
महेन्द्रनाथ पांडेय	धातु रोग और उसका इलाज	१॥१)	छात्रहितकारी पुस्तकालया
मुकुंद स्वरूप वर्मा	संक्षिप्त शल्य विज्ञान	८)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
लक्ष्मीनारायण चौधरी	आदर्श भोजन	११)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
लालबहादुर लाल	प्राथमिक सहायता	२)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
सैयद वाजिद हुसेन	मधु के चमत्कार	...	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
हनुमानप्रसाद गोयल	दूध ही अमृत है	२॥१)	छात्रहितकारी पुस्तकमाला
शानेन्द्रनाथ शुक्ल	हमारा भोजन	१॥१)	श्रीप्रभाकर साहित्यालोक
विविध	अंगूर के गुण तथा उपयोग अन्नार के गुण तथा उपयोग	॥११)	देहाती पुस्तक भण्डार ”
	अरंड के गुण तथा उपयोग	१॥१)	”
	आधुनिक इंजेक्शन बुक	५)	”
	आधुनिक एलोपैथिक गाइड	८॥१)	”
	आक के गुण तथा उपयोग	१॥१)	”

## विविध

आँखों का डाक्टर	२॥१)	देहाती पुरतक भण्डार
आम के गुण तथा उपयोग	१॥१)	”
औषधियों का भण्डार (अनुभूत योग चिंतामणि सम्पूर्ण)	१०)	”
कद् के गुण तथा उपयोग	॥=)	”
कम्पाउंडर्ज गाइड	३)	”
कौड़ी के गुण तथा उपयोग	॥॥)	”
गडुँवा (इन्द्रायण) के गुण तथा उपयोग	॥॥=)	”
गाजर के गुण तथा उपयोग	॥=)	”
गुलाब पुष्प के गुण तथा उपयोग	१)	”
घर का वैद्य (बड़ा)	६)	”
घोकबार ग्वार (गवार पट्टा) के गुण तथा उपयोग	२॥१)	”
घृत के गुण तथा उपयोग	॥॥=)	”
टोटका चिकित्सा	॥॥॥)	”
ढाक के गुण तथा उपयोग	१)	”
तम्बाकू	१॥१)	”
तरबूज के गुण तथा उपयोग	॥=)	”
तीन प्रमुख योग	२॥१)	”
तुलसी के गुण तथा उपयोग	२)	”
दही के गुण तथा उपयोग	२॥१)	”
दाँतों का डाक्टर	२॥१)	”
देहाती अनुभूत योग संग्रह (नं० १ नं० २)	१६), ५)	”
देहाती जड़ी बूटियाँ	७)	”
देहाती प्राकृतिक चिकित्सा	५)	”
दूध के गुण तथा उपयोग	२)	”

	देहाती पुस्तक अक्षर
धतूरा के गुण तथा उपयोग १=)	”
घनियौं के गुण तथा उपयोग ॥)	”
नमक के गुण तथा उपयोग ॥)	”
नाड़ी ज्ञान तिरंगिनी २)	”
नीबू के गुण तथा उपयोग १)	”
नीम के गुण तथा उपयोग १।)	”
प्याज (प्लाँडू) के गुण तथा उपयोग ॥।)	”
पिया बाँसा के गुण तथा उपयोग १।)	”
पीपल के गुण तथा उपयोग ॥)	”
पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा १।)	”
पेटेंट अदवियात ६)	”
पैसे-पैसे के चुटकुले ४।।)	”
फलों द्वारा चिकित्सा २)	”
फिटकिरी के गुण तथा उपयोग २।।)	”
ब्रह्मचर्य के अनुभव ॥।)	”
ब्रह्मचर्य साधन १)	”
बरगद के गुण तथा उपयोग ॥।=)	”
बबूल के गुण तथा उपयोग ॥।=)	”
बादास के गुण तथा उपयोग ॥।।)	”
बाल रोग चिकित्सा ॥।)	”
मट्टा (छाछ) के गुण तथा उपयोग १)	”
मधु के गुण तथा उपयोग २।।)	”
मिर्च के गुण तथा उपयोग ॥=)	”
मूली के गुण तथा उपयोग ॥।।)	”
मेटेरिया मेडिका ६)	”
मेंहदी के गुण तथा उपयोग ॥।।)	”
योगासन (छोटा) ॥।।)	”

## विविन

		वेहाती पुस्तक भण्डार
योग आसन (बड़ा)	२॥)	
रीठा के गुण तथा उपयोग	॥॥=)	"
लहसुन के गुण तथा उपयोग	॥=)	"
लेडी डाक्टर (वैद्यरानी)	२॥)	"
व्यायाम-शिक्षा	२॥)	"
वैद्यराज (घर का डाक्टर)	२॥)	"
बृहद बूटी प्रचार	२॥)	"
शहतूत के गुण तथा उपयोग	॥॥)	"
स्वप्नदोष चिकित्सा	१॥)	"
स्त्रीरोग चिकित्सा	१)	"
सत्यानासी कहेली (स्वर्ण क्षीरी) के गुण तथा उपयोग	॥॥)	"
संतरा के गुण तथा उपयोग	॥)	"
सन्यासी चिकित्सा शास्त्र	५)	"
सरल चिकित्सा अरुणोदय	३)	"
सिरस के गुण तथा उपयोग	१=)	"
सेव के गुण तथा उपयोग	॥)	"
सौंफ के गुण तथा उपयोग	१)	"
हम स्वस्थ कैसे रहें	६)	"
हल्दी के गुण तथा उपयोग	॥॥=)	"
त्रिफला के गुण तथा उपयोग	१॥)	"

# यौनविज्ञान

अग्निदेव विद्यालंकार	परिवार नियोजन	३॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
विजयबहादुर सिंह	कामकला	४॥)	हिन्दी साहित्य कुटीर
त्रिविध	यौवन की बहार	४)	देहाती पुस्तक भंडार

## शिक्षा-शास्त्र तथा मनोविज्ञान

उमाशङ्कर शास्त्री	भाषा शिक्षण विधि	२॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	बृहद् शिक्षा सिद्धान्त	३)	"
	संक्षिप्त शिक्षा सिद्धान्त	१)	"
कालीकांत झा	महान् बनो	॥=)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
के० सी० जैन	बुनियादोशिक्षा : सिद्धान्त और		नवयुग ग्रंथ कुटीर
	व्यवहार	३॥)	
कृष्णगोपाल तिवारी	मुखाकृतिविज्ञान	३॥)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
बोविन्द	अपने को पहचानो	१॥)	"
चंद्रकांत शाह	सरल शिक्षा सिद्धांत	॥)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
नवलकिशोर श्रीवास्तव	शिक्षालयों का सङ्गठन	१)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
माधोराम पालीवाल	भाषाशिक्षण की रूपरेखा	१॥)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
योगेन्द्रनाथ शर्मा	भाषा कैसे पढ़ावें	२)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
शिवकरण छंगाणी	व्यायाम शिक्षण	१॥)	नवयुग ग्रंथ कुटीर
साधुशरण मल्ल	बाल मनोविज्ञान प्रवेशिका	१॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सीताराम चतुर्वेदी	भारतीय शिक्षा का		
	इतिहास	४॥=)	हिन्दी साहित्य कुटीर
	भाषा की शिक्षा	४)	"
हेमांगिनी जोशी	आपका शिशु	३॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

# धर्म, दर्शन तथा तर्कशास्त्र

अहमद बशीर	कुरान शरीफ सम्पूर्ण	८)	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
ए० चक्रवर्ती	थिरुकुरल	५)	भारतीय ज्ञानपीठ
	समयसार	८)	"
गोपालदास जीवा भाई	कुन्द कुन्दाचार्य के		
पटेल	तीन रत्न	२)	"
मंदकिशोर अवस्थी	कुरान पर एक दृष्टि	१-	श्री प्रभाकर साहित्यालोक
पन्नालाल	आदि पुराण (२ भाग)		भारतीय ज्ञानपीठ
	प्रत्येक १०)		
	उत्तर पुराण	१०)	"
	पुराण सार संग्रह (२ भाग)		
	प्रत्येक २)		"
फूलचंद्र जैन	महाबन्ध (भाग २, ३, ४, ५)		
	प्रत्येक ११)		"
	सर्वार्थसिद्धि	१२)	"
महेन्द्रकुमार	तत्त्वार्थ वृत्त	१६)	"
	तत्त्वार्थ राजवार्तिक		"
	(भाग १)	१२)	
	न्याय विनिश्चय विवरण		"
	(२ भाग)	प्रत्येक १५)	
राजकुमार जैन	अध्यात्म पदावली	४॥॥)	"
रामकृष्ण परमहंस	ईश्वरीय बोध	१॥॥)	ज्ञानहितकारी पुस्तकमाला
रामगोविन्दसिंह	वैदिक साहित्य	६)	भारतीय ज्ञानपीठ
रैल्फ वाल्डो ट्राइन	ईश्वर के सम्पर्क में	२)	ज्ञानहितकारी पुस्तकमाला
खिली एलेन	मन की अपार शक्ति	॥=)	"
	मौन की वाटिका में	॥)	"
	हमारे मानसिक शिशु	॥)	"





रामजीलाल बधौतिया	उपमन्यु के पत्र	१)	विनोद पुस्तक मन्दिर
वेणीमाधव शर्मा	चरित्र निर्माण	१)	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
शिवानन्द स्वामी	ब्रह्मचर्य ही जीवन है	१॥)	छात्र हितकारी पुस्तकमाला
विविध	उपदेशामृत (४ भाग)		
	॥), ॥=), ॥॥), १)		शारदा मन्दिर

## कला तथा दस्तकारी

एच० आर० मित्रल	लो कास्ट हाउसिंग टैक्निक (इंगलिश)	५)	देहाती पुस्तक भंडार
	लो कास्ट हाउसिंग टैक्निक (हिन्दी)	५)	"
एच० सी० कपूर	आइस प्लांट (बफमशीन)	४॥)	"
	स्टीम इंजीनियर्स गाइड	१०)	"
	स्टीम ब्वायलर्स और इंजन	६)	"
एस० एन० चोपड़ा	कपड़े की बनावट और उसके डिजायन	३॥)	"
	वीविंग कैल्कुलेशन	२)	"
	वीविंग गाइड	४)	"
	सूती ऊनी कपड़ों की रँगई छपाई और धुलाई	३॥)	"
कालीचरण गुप्त	कुकरी बुक (अंग्रेजी खाने)	४)	"
	डेरी फार्म का व्यापार	२॥)	"
	धूप, अगारबत्ती, हवन सामग्री बनाना	२॥)	"
	फिनायल साजी (कीटाणु नाशक श्रोषधियाँ बनाना)	२॥)	"
	फेसक्रोम या फेस पाउडर बनाना	२॥)	"

		देहाती पुस्तक भण्डार
कालीचरण गुप्त	मुँह देखने का शीशा बनाना (आइनासाजी) २॥॥	११
	मोमबत्ती का व्यापार २॥॥	११
	व्यापार बढ़ाने की तरकीबें २॥॥	११
के० प्रसाद	इलैक्ट्रिसिटी रूलज़ सम्पूर्ण १॥॥	११
	रेडियो मास्टर २॥॥	११
गणपतलाल खण्डेलवाल	साबुन शिक्षा तथा साबुन उद्योग २॥॥	११
	हरफन मौला १॥॥	११
चन्द्रभान सहगल	छपाई पारिजात (कैनीको प्रिंटिंग) ३॥॥	११
	तम्बाकू का कारबार २॥॥	११
	पान की दूकान २॥॥	११
	हलवाई मास्टर २॥॥	११
जगदीशप्रसाद	व्यापारसिद्धि (३ भाग) १॥, १३॥, १॥॥	
जयनारायण शर्मा	इलेक्ट्रिक तथा गैस वैल्विंग ४॥॥	हिंदी मचारक पुस्तकालय देहाती पुस्तक भण्डार
	फाउण्ट्री प्रैक्टिस (ढलाई) ६॥	११
जे० सी० दास	अचार चटनी मुरब्बा बहार १॥॥	११
	अप्टूडेट इंकमास्टर (स्याहीबनाना) २॥॥	११
	आतिशबाजी का व्यापार २॥॥	११
	चित्रकारी अथवा मुसव्वरी ४॥	११
	कन्फेक्शनरी (अँगरेजी-मिठाइयाँ बनाना) २॥॥	११
	प्लास्टिक गाइड २॥॥	११
	परफ्यूमरी मास्टर २॥॥	११
	पैन्ट्री का काम ४॥॥	११
	बूट पालिश २॥॥	११
	बेकरी बहार (बिस्कुट, डबल-रोटी, कैक) २॥॥	११
	रंगसाजी २॥॥	११

जे० स्त्री० दास	वार्निश मास्टर (वार्निश साजी)	२॥॥	देहाती पुस्तक भण्डार
	हेयर आइल (खुशबूदार तेल)	२॥॥	"
देवीचन्द्र बेरी नरेन्द्रनाथ	धन कमाने की कुंजी	२॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
	आयल व गैस इंजन गाइड १०)		देहाती पुस्तक भंडार
	इलैक्ट्रिक इंजीनियरिङ्ग बुक	११)	"
	इलैक्ट्रिक गाइड	६)	"
	इलैक्ट्रिकल परीक्षा पेपर्स (सम्पूर्णा)	६)	"
	इलैक्ट्रिक वायरिङ्ग	४)	"
	इलैक्ट्रिक बैट्रीज	३॥॥	"
	इलैक्ट्रिकल सुपरवाइजर परीक्षा पेपर्स	४॥॥	"
	इलैक्ट्रिक लाइटिंग	६)	"
	क्रूड आयल	४॥॥	"
	घरेलू बिजली तथा रेडियो मास्टर	२॥॥	"
	छोटे डायनुमो तथा इलैक्ट्रिक मोटर बनाना	३॥॥	"
	टाँका लगाने का ज्ञान	२॥॥	"
	प्राॅक्टिकल आर्मेचर बाइंडिंग	६)	"
	मोटर वायरिंग	४॥॥	"
	रेडियो सर्विस्सिंग (रेडियो मैकनिक)	६)	"
	वायरलेस रेडियो गाइड	६)	"
	सुपरवाइजर तथा वायरमैन परीक्षा पेपर्स	३॥॥	"
निर्मलकुमार गुप्त	प्राॅक्टिकल फोटोग्राफी शिक्षा	२॥॥	

प्रेमनाथ चाफळा	इलेक्ट्रोप्लेटिंग (बिजली द्वारा मुलम्मा)	४॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
पुष्पनाथ पंगोत्रा	खूब वैल गाइड	३॥)	,,
मगीराम गुप्त तथा पुस्तुखाण	पुस्तक कला जूनियर	॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
मुकुंदलाल अग्रवाल	शिशु व्यापार प्रणाली	॥)	,,
राजेश गुप्त	लांड्री टीचर (धुलाई शिक्षा)	२॥)	देहस्ती पुस्तक भंडार
	सत्य व्यापार लक्ष्मी भण्डार	४॥)	,,
रामभवतार 'वीर'	ग्रामोफोन	२॥)	,,
	प्राॅक्टिकल घड़ीसाजी	३ ।)	,,
	बुक बाइंडिंग	३)	,,
	भवननिर्माणकला (बिल्डिंग कंस्ट्रक्सन)	१०)	,,
	विश्वकर्मा दर्पण	१०)	,,
	साइकिल रिपेयरिंग गाइड	२॥)	,,
	सिलाई मशीन रिपेयरिंग	२॥)	,,
	हारमोनियम मरम्मत	२॥)	,,
रामविहारीसिंह	पुस्तक कला बेसिक	॥)	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
रामलखन पांडेय	वहद इन्द्रजाल	३)	,,
वेदप्रकाश	एम्प्लीफायर लाउड स्पीकर	१।)	देहाती पुस्तक भंडार
	बच्चों का टेलीफोन	॥)	,,
	बच्चों का रेडियो	१।)	,,
	बच्चों का वायरलेस	१।)	,,
	बच्चों का वैज्ञानिक खेल	१।)	,,
	बिन बिजली का रेडियो	१।)	,,
	रेडियो का साधारण ज्ञान	१।)	,,
	लोकल रेडियो सैट	१।)	,,
	सर्किट डायग्राम्ज आफ रेडियो	३॥)	,,

श्यामनारायण खाख	बेसिक कताई	॥॥	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय
	वस्त्रोत्पादन कला (२ भाग)		
		प्रत्येक २॥॥	”
श्रीकृष्णानंद	आटोमोबाइल		देहाती पुस्तकभंडार
	इंजीनियरिंग	१०)	
	खेती और ट्रैक्टर		”
	(ट्रैक्टर गाइड)	६)	”
	मोटरकार इन्स्ट्रक्टर	१०)	”
	मोटर ड्राइविंग	४)	”
	मोटरकार प्राइमर	१॥)	”
	मोटर मैकेनिक टीचर	६)	”
	मोटर साइकिल गाइड	४॥॥)	”
श्रीकृष्ण शाकस्य	हिंदी टाइप राइटिंग	१॥॥)	नंदकिशोर एयड ब्रदर्स
हरिचंद्र रत्ता	लोकोशैडफिटर गाइड	१२॥॥)	देहाती पुस्तक भंडार
हुकुमचंद्र गुसा	शर्बत विज्ञान	२॥॥)	”
विविध	आइल इंजन गाइड	६)	”
	कूड आयल इंजन गाइड	४॥॥)	”
	खराद तथा वर्कशाप ज्ञान	६)	”
	खराद शिक्षा (टर्नर गाइड)	३)	”
	जंत्री पैमाइश चौब (लकड़ी)		”
	(इंगलिश)	१॥॥)	”
	जंत्री पैमाइश चौब (लकड़ी)		”
	(हिन्दी)	१॥॥)	”
	ट्यूब वैल गाइड	३॥॥)	”
	रैफ्रिजरेटर गाइड		”
	वर्कशाप गाइड		”
	(फिटरट्रेनिंग)	३)	”
	बृहद् रेडियो ज्ञान	११)	”

# बाल-साहित्य

एन०डी० सहगल एण्ड सन्स अक्ल बड़ी या भैंस, श्रीकृष्ण गुप्त	॥१
आज के महापुरुष जय बच्चे ये (२ भाग) देसराज, गंधर्व	॥२
	प्रत्येक ॥३
काठ की हाँडी, श्रीकृष्ण गुप्त	॥४
घमण्ड का सर नीचा, श्रीकृष्ण गुप्त	॥५
जैसी करनी वैसी भरनी, श्रीकृष्ण गुप्त	॥६
भूँठे की हार, सस्वती कुमार दीपक	॥७
धरती का लाल, श्रीशरण	॥८
नकटा राजा, सरस्वती कुमार 'दीपक'	॥९
परिश्रम का फल, श्रीशरण	॥१०
बचो और बचाओ, श्रीशरण	॥११
राई का पहाड़, देसराज	॥१२
सच्चे मित्र, श्रीकृष्ण गुप्त	॥१३
साँच को आँच, श्रीशरण	॥१४
सुनहरा सपना, श्रीशरण	॥१५
सोने की खेती, श्रीशरण	॥१६
लालच बुरी बला है, श्रीकृष्ण गुप्त	॥१७
विज्ञान के चमत्कार, देसराज व गंधर्व	॥१८
विज्ञान के मनोरञ्जन, श्रीशरण	॥१९
शैतान की मौत, टालस्टाय	॥२०
<b>छात्र हितकारी पुस्तकमाला अकबर</b>	॥२१
अब्दुल गफ्फार खाँ	॥२२
अबुल कलाम आजाद	॥२३
अहिल्या बाई	॥२४
आचार्य कृपलानी	॥२५
आहुतियाँ, गणेश पांडेय	१
इब्राहिम लिंकन	॥२६
एस० राधा कृष्णन	॥२७

ज्ञान हितकारी पुस्तकमाला कस्तूर बा

कार्ल मार्क्स

कुँश्नर सिंह

खुदीराम बोस

खोज के पथ पर, शुक्रदेव दुबे

गणेश शङ्कर विद्यार्थी

गुरु गोविन्द सिंह

गुरु नानक

गोविन्दवल्लभ पन्त

गोस्वामी तुलसीदास

चन्द्रशेखर आजाद

जगदीशचन्द्र बोस

जयप्रकाश नारायण

जवाहरलाल नेहरू

जे० एन० ताता

डा० राजेन्द्रप्रसाद

त्याग, साहस और शौर्य की कहानियाँ

दादा भाई नौरोजी

नेपोलियन

पट्टाभि सीतारमैया

पावन स्मृतियाँ, गणेश पांडेय

ब्रन्दा वैरागी

महर्षि रमण

महात्मा ईसा

महात्मा गांधी

महात्मा गोखले

महात्मा टालस्टाय

महात्मा बुद्ध

महात्मा मेजिनी

महात्मा लेनिन

महात्मा हुंसराज

महामना मालवीय





द्वारा हितकारी पुस्तकमाला	महाराज छत्रसाल	।=)
	महाराजा पृथ्वीराज	।=)
	महाराणा प्रताप	।=)
	महाराणा सांगा	।=)
	महारानी दुर्गावती	।=)
	महारानी लक्ष्मीबाई	।=)
	महारानी संयोगिता	।=)
	मीराबाई	।=)
	मुस्तफा कमला पाशा	।=)
	मुसोलिनी	।=)
	मोतीलाल नेहरू	।=)
	योगी अरविन्द	।=)
	रणजीत सिंह	।=)
	रवीन्द्रनाथ ठाकुर	।=)
	राजगोपालाचार्य	।=)
	राजर्षि टंडन	।=)
	राजा राममोहन राय	।=)
	रानाडे	।=)
	रामकृष्ण परमहंस	।=)
	लाला लाजपतराय	।=)
	लोक० तिलक	।=)
	विजयलक्ष्मी पंडित	।=)
	विजयी भारत	।=)
	विद्यासागर	।=)
	वीर दुर्गादास	।=)
	वीर बादल	।=)
	वीर सावरकर	।=)
	वीर हम्मीर देव	।=)
	वैज्ञानिक कहानियाँ	।=)
	शिवाजी	।=)
	श्रीकृष्ण	।=)

छात्रहितकारी पुस्तकमाला	श्रीमती एनीबेसेन्ट	॥३॥
	श्रीमती कमला नेहरू	॥३॥
	स्टालिन	॥३॥
	स्वामी दयानन्द	॥३॥
	स्वामी रामतीर्थ	॥३॥
	स्वामी विवेकानन्द	॥३॥
	स्वामी शंकराचार्य	॥३॥
	स्वामी श्रद्धानन्द	॥३॥
	सन्त तुकराम	॥३॥
	सन्त विनोबा भावे	॥३॥
	सन्त ज्ञानेश्वर	॥३॥
	सम्राट् अशोक	॥३॥
	सरदार पटेल	॥३॥
	सरदार भगतसिंह	॥३॥
	सर० सी० वी० रमन	॥३॥
	सरोजिनी नायडू	॥३॥
	सी० एफ० एण्ड्रूज	॥३॥
	सी० आर० दास	॥३॥
	सुभाषचन्द्र बोस	॥३॥
	हिटलर	॥३॥
नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स	नारी रत्न, परिपूर्णानन्द वर्मा	॥३॥
	बालकथाएँ, सीताराम जायसवाल	॥३॥
	बालरत्न, परिपूर्णानन्द वर्मा	॥३॥
	भीष्म पितामह, गोपालचन्द्र	॥३॥
	शूरवीर, वेणीमाधव शर्मा	॥३॥
नवयुग ग्रन्थ कुटीर	अलीबाबा की कहा०, गोपीचन्द्र सक्सेना	॥३॥
	उड़नछू, गोपीनाथ तिवारी	॥३॥
	ओरी निदिया आ री आ, शंभूदयाल सक्सेना	॥३॥
	चन्द्रलोरी, शंभूदयाल सक्सेना	॥३॥
	जलपरियों के साथ, शंभूदयाल सक्सेना	॥३॥
	तलवार बहादुर, मुकुटबिहारीलाल श्रीवास्तव	॥३॥
	तैमूर कालकड़दादा, नाथूराम खड्गावत	॥३॥

## नवयुग ग्रंथ कुटीर

दुपहरिया के फूल (२ भाग), शम्भूदयाल सक्सेना	प्रत्येक	१)
देवताओं की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		२)
पालना, शम्भूदयाल सक्सेना		३)
फूलों की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		४)
फूलों की जन्मकथा, शम्भूदयाल सक्सेना		५)
फूलों की सुनहरी कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		६)
फूलों की गीत, शम्भूदयाल सक्सेना		७)
बाप बेटे की कहानी, शम्भूदयाल सक्सेना		८)
बाल-भारती, प्रह्लादचन्द्र सक्सेना		९)
भगवान बुद्ध, शम्भूदयाल सक्सेना		१०)
भूतों की कहानियाँ, मुकुटबिहारीलाल श्रीवास्तव		११)
मधुलोरी, शम्भूदयाल सक्सेना		१२)
महाभारत का बालयोद्धा, धर्मसिंह वर्मा		१३)
मिट्टी की गाड़ी, शेखरचन्द्र जैन		१४)
राखी, शम्भूदयाल सक्सेना		१५)
रेशम भूला, शम्भूदयाल सक्सेना		१६)
शानदार सितारे, श्रीमन्तकुमार व्यास		१७)
सतयुग की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		१८)
सद्गुणों की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		१९)
सदाचार की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		२०)
सदुपदेश की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		२१)
सिंदबाद की कहानी, शम्भूदयाल सक्सेना		२२)
प्रह्लाद की कहानी, शम्भूदयाल सक्सेना		२३)
हवाई किला, शम्भूदयाल सक्सेना		२४)
ज्ञान की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		२५)
ऋषियों की कहानियाँ, शम्भूदयाल सक्सेना		२६)
भारतीय प्रकाशन मण्डल उड़न खटौला, जी० पी० श्रीवास्तव		२७)
कथा कुञ्ज (२ भाग), अशोक		२८)
जंगली बेर, विनोद		२९)
बालमनोरंजन, अज्ञात		३०)
बीरबल का जवाब, श्रीनाथ प्रसाद		३१)
साहसी राजकुमार, विनोद		३२)

भारतीय प्रकाशन मण्डल	हँसो हंसाश्रो, श्रीनाथ प्रसाद	१=)
राजहंस प्रकाशन	आदर्श बालक, चतुरसेन शास्त्री	१।)
	गुब्बारा, दहा जी	१।।)
	चूँ चूँ, दहा जी	१।।)
	बड़ों का बचपन, विश्वमित्र शर्मा	...
	हाय नागिन, जहूरबख्श	...
	अमर ज्योति, विविध	१=)
लोकसेवक प्रकाशन	अंगूरों का गुब्बारा, रमापति शुक्ल	१)
	पशु से मानव, उदयन	१)
श्रीप्रभाकर साहित्यालोक	चण्ड चौकड़ी, विमल प्रभाकर मिश्रा	१-)
	डायन रानी, विमल प्रभाकर मिश्रा	१-)
	महाराज कपोलफोड़, विमल प्रभाकर मिश्रा	१-)
	मायावी सपेरा, विमल प्रभाकर मिश्रा	१-)
श्रीराम मेहराण्ड कं०	आविष्कारों की कहानियाँ, श्यामनारायण कपूर	१=)
	जीवन की रेखायें, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	तीसमार खाँ, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	नकको रानी, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	बड़े बहादुर, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	बाल एकांकी, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	बिजली तथा अन्य कहानियाँ, श्यामनारायण कपूर	।।।)
	म्याऊँ की फाँसी, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	रणबाँकुरे, उमेशचन्द्र मिश्र	१=)
	लकड़ सुँधवा, राजेन्द्रसिंह गौड़	१=)
	वीर गाथा, उमेशचन्द्र मिश्र	१=)
	सन्त्री कहानियाँ, उमेशचन्द्र मिश्र	।।)
	साहस के पुतले, प्रेमनारायण गौड़	१=)
	हमारे नेता, उमेशचन्द्र मिश्र	।।)
शारदा मन्दिर	आदर्श नगर, विविध	।।)
	पशु पक्षी मित्र	।।।)
	सरल अक्षर	१), १।)
	सरल अक्षर बोध	।।।), १)

शारदा मन्दिर	सरल शब्द बोध (२ भाग)	॥१॥, १)
	होनहार बच्चे	॥१॥
साहित्यरत्न भण्डार	दिमागी खेल (५ भाग), राममूर्ति मेहरोत्रा	प्रत्येक ॥२॥
	बच्चों के बापू, सत्येन्द्र	॥१॥
	बुद्धि परीक्षा (२ भाग), राममूर्ति मेहरोत्रा	प्रत्येक ॥२॥
	सप्त एकांकी, कृष्णमूर्ति मेहरोत्रा	॥१॥
	सात वैज्ञानिक, कृष्णमूर्ति मेहरोत्रा	॥२॥
	समरु के खेल (२ भाग), राममूर्ति मेहरोत्रा	प्रत्येक ॥२॥
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय	अनिता सर्कस गई, बालबन्धु	१॥
	अरुणा आसफ़अली, वासुदेव	॥२॥
	आदि पुरुष, योगेन्द्रनाथ शर्मा	१॥
	एडलर हिटलर, अधिकारी	॥२॥
	ऐतिहासिक कहानियाँ, निहालचन्द्र वर्मा	॥३॥
	कार्लमार्क्स, अधिकारी	॥२॥
	खूब छकाया, बालकृष्ण पांडेय	३॥
	खेल-तमाशा, हरिऔध	१॥
	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, दयाराम बेरी	॥२॥
	चन्द्रशेखर आजाद, वासुदेव	॥२॥
	चाँद-सितारे, हरिऔध	१॥
	चुन्नू चाचा, बालकृष्ण पांडेय	३॥
	जादू का अक्षर, राममूर्ति शर्मा	३॥
	दूध बताशा, सुधाकर पांडेय	१॥
	दो भाइयों की करामात, बालकृष्ण पांडेय	३॥
	नीलम और मसहरी की देवी, शारदा मिश्र	१॥
	नेताजी, बेरी बन्धु	३॥
	नेताजी सुभाष, दयाराम बेरी (सम्पादक)	॥२॥
	नेपोलियन बोनापार्ट, वासुदेव	॥२॥
	पट्टाभि सीता रमैया, अधिकारी	॥२॥
	पटेल साहब, गंगाशरण सेठ	३॥
	पढ़ लो बेटा पढ़ लो, बेणीमाधव शर्मा	॥३॥
	फलों का फोला, मोहन लहरी	१॥
	बड़ा मजा आया, बालकृष्ण	३॥

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बहादुर दमकल वाले और मोती, बालबंधु	॥३॥
बहिन जी, राजकिशोरसिंह	३॥
बापू जी, बेरी बंधु	३॥
बाल इतिहास परिचय, निहालचन्द्र वर्मा	॥३॥
बाल महाभारत, रघुनन्दन मिश्र	१।)
बाल रामायण, रघुनन्दन मिश्र	१)
बिज्जुराज, बालकृष्ण पाण्डेय	॥१॥
बिल्ली का चिड़ियाघर, हरिऔध	१।)
बेताज सम्राट पंडित नेहरू, दयाराम बेरी	॥३॥
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, दयाराम बेरी	॥३॥
भोंपों इंजन और छकछक, बालबंधु	॥३॥
महात्मा गांधी, दयाराम बेरी	॥३॥
महारानी लक्ष्मी बाई, बासुदेव	१)
माँ की सहायता, विमला लूथरा	॥३॥
यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, अधिकारी तथा बासुदेव	॥३॥
रवीन्द्रनाथ टैगोर, बलदेवराज शर्मा 'उपवन'	॥३॥
राजेन्द्रप्रसाद, दयाराम बेरी	॥३॥
रानीघोड़ी, बालबंधु	॥३॥
लेनिन, बासुदेव	१)
विजयलक्ष्मी पंडित, अधिकारी	॥३॥
शिशु विनय माला ( २ भाग ), बालबंधु प्रत्येक	॥३॥
शिशु विनय माला ( ३ भाग ), विविध प्रत्येक	३)
शिशु श्रीराम कथा, निहालचन्द्र वर्मा	॥३॥
स्तालिन, अधिकारी	१)
स्वदेश की कथा ( भाग ४,५ ), कृष्णचन्द्र बेरी प्रत्येक	॥३॥
स्वदेश की कथा ( ३ भाग ), योगेन्द्रनाथ शर्मा प्रत्येक	॥३॥
सच्चा सिपाही, गंगाशरण सेठ	३॥
संघर्ष के पथ पर ( ४ भाग ), निहालचन्द्र वर्मा प्रत्येक	॥३॥
समाज की ओर ( ३ भाग ), विविध	॥३॥, ॥१॥, ॥२॥
सरदार पटेल, अधिकारी	१)
सरदार भगवत सिंह, बासुदेव	१)
सितारों की बारात, एस्० पी० खत्री	॥३॥

हन्दी प्रचारक पुस्तकालय हमारा जवाहर, बेरीबन्धु	७॥
हमारा संसार ( ३ भाग ), योगेन्द्रनाथ शर्मा	प्रत्येक ॥१
हाथी दादा, बालबन्धु	१॥
शान की कहानियाँ ( ४ भाग ), सी० एस० भंडारी	प्रत्येक ॥३॥

## किशोर-साहित्य

ज्ञानप्रदितकारी पुस्तकमाला आदर्श सेवा, विरागी	॥१
चरित्र निर्माण की कहानियाँ, व्यथित हृदय	१॥
देश की आन पर, गणेश पांडेय	१॥
नीति की राह, गेनालाल भा	॥१
पुण्य स्मृतियाँ, गांधी जी	१॥
पृथ्वी के अन्वेषण की कथाएँ, जगपति चतुर्वेदी	१॥१
बापू के प्रति श्रद्धांजलियाँ, सं० प्रभाकर ठाकुर	१॥
बुद्ध और उनके अनुचर, आनन्द कौसल्यायन	१॥
बौद्ध कहानियाँ, व्यथित हृदय	१॥१
भाग्य पर विजय	॥१॥
रत्न समुच्चय, जगपति चतुर्वेदी	१॥
विज्ञान के महारथी, जगपति चतुर्वेदी	२॥
विज्ञान जगत की माँकी, नारायणसिंह परिहार	२॥
वीरों की सच्ची कहानियाँ, जहूर बख्श	१॥
सफलता की कुञ्जी	१॥
हमारे हरिजन, विरागी	॥१
देखती पुस्तक भण्डार मल्लयुद्ध अखाड़ा ज्ञान,	१॥
लाठी शिखा,	१॥
नन्दकिशोर पण्ड ब्रदर्स अनमोल रत्न, रामबहोरी शुक्ल	१॥
आदर्श पतिव्रतायें, शिवकुमार सिंह	१॥
आदर्श मातायें, शिवकुमार सिंह	१॥

नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स	आविष्कारों की कहानियाँ, द्विवेदी	॥=)	
	उपनिषदों की कहानियाँ, आर० आर० दिवाकर	१॥॥)	
	चन्द्रलोक की यात्रा, बैजनाथ लाल श्रीवास्तव	१॥॥)	
	जीवन ज्योति, सूर्यबली सिंह	१॥॥)	
	धर्मराज युधिष्ठिर, गंगाप्रसाद उपाध्याय	१)	
	नैतिक प्रकाश, सीताराम जायसवाल	१)	
	प्रसिद्ध उड़ाने, भारतीय	॥॥)	
	पराक्रमी दुर्गादास, देखीमाधव शर्मा	॥=)	
	पशु परिचय, कमला कांत पाण्डे	॥=)	
	पालतू पशु, कमला कांत पाण्डे	॥=)	
	महात्मा गौतम बुद्ध, गंगाप्रसाद उपाध्याय	१)	
	मौर्यराज, गंगाप्रसाद उपाध्याय	१)	
	राष्ट्रनायक, देखीमाधव शर्मा	॥॥)	
	विश्व की कहानी, भारतीय	१॥॥)	
	नवयुग ग्रंथ कुटीर	आदर्श पत्र लेखन, शंभूदयाल सक्सेना	१॥)
		टाम काका की कुटिया, शंभूदयाल सक्सेना	१)
दो नगरों की कहानी, शंभूदयाल सक्सेना		२)	
नए एशिया के निर्माता, विजय वर्मा		२)	
बौनों के देश में, रोशनलाल चपलोट		॥॥)	
विज्ञान के पथ पर, पुरुषोत्तमदास स्वामी		२)	
स्काउटिंग, जे० एल० पारीक		॥=)	
सभ्यता की कहानी, पुरुषोत्तमदास स्वामी		१)	
राजस्थान की वीरांगनाएँ, शकुंतला वर्मा		॥॥)	
मानवता के आधार, राजेश्वरप्रसाद चतुर्वेदी		१)	
विनोद पुस्तक मन्दिर	श्रीराम मेहरा एण्ड कं०		
	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय		
	भारत की प्रमुख महिलाएँ, कमलेश	१॥॥)	
	भारत के महापुरुष, शिवशंकर मिश्र	१)	
	मोती लाल नेहरू, नरोत्तमदास (संपादक)	॥॥)	





## विविध

मशीन वर्क	१)	देहाती पुस्तक भंडार
मार्डन कशीदाकारी	३।।)	एन० डी० सहगल एण्ड कं०
मिडवाइफरी (दाईगिरी शिक्षा)	३।।)	देहाती पुस्तक भंडार
मिला जुला काम	३।।)	
मोतियों का काम (फ्रेंच नोट्स)	।।)	"
मोनोग्राम्ज	।।।)	"
रंग रंगीले गीत	३)	"
रसोई शिक्षा	।।।)	"
रानी कशीदाकारी	३।।)	"
रानी शिल्प कला	४)	"
लेडी डेजी क्रास और लोप स्टिच	।।।)	"
शाक रत्नाकर	२।।)	"
शान्ता कशीदाकारी	१।)	"
शशे का काम	१।।)	"
स्त्री भजन माला	३)	"
स्त्री रोग चिकित्सा	१।)	"
स्त्री शिक्षा (चतुर गृहणी)	२।।)	"
सरला भारतीय कशीदाकारी	५)	"
सिलाई कताई गाईड	१।)	"
सुन्दर कशीदाकारी	१।)	"
सुन्दर हारमोनियम पुष्पाजली	२।।)	"
सुशीला क्रास स्टिच वर्क	३)	"
हमारी माताएँ	३)	"

# ग्रामोपयोगी तथा प्रौढ-साहित्य

अहमद बशीर	हजरत अली	1=) श्रीप्रभाकर साहित्यालोक
	हजरत उमर	1=) "
	हजरत उस्मान	1=) "
उमेशचन्द्र मिश्र	अछूत कोई नहीं	1-) श्रीराम मेहरा एण्ड कं०
	समाज सेवा	1-) "
ओंकारनाथ मिश्र	ग्रामीण ज्ञानोदय	१॥॥ छात्रहितकारी पुस्तकमाला
ओमप्रकाश बेरी	अकबर बीरबल (बड़ा)	३) हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
कृष्णप्यारे हुबे	गाँवों में सहकारिता	१॥॥ [छात्रहितकारी पुस्तकमाला]
चंद्रोदय दीक्षित	ग्रामोद्योग पंचायत	१।) राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
	सर्वोदय समाज विश्व	१) "
जगदेवसिंह देव	खाद का उपयोग	॥) "
	खेती-की रक्षा	॥) "
	खेती की सामान्य रीति	॥) "
	खेती के अनुसंधान	॥) "
	खेती में यंत्रीकरण	॥) "
	पशुपालन और चिकित्सा	॥) "
	सहकारी खेती	॥) "
	सागभाजी की खेती	॥) "
	सिंचाई के साधन	॥) "
जगपति चतुर्वेदी	देशी खाद	॥) [छात्रहितकारी पुस्तकमाला]
	फसल की रक्षा	॥) "
	मवेशियों के कृमि-रोग	॥) "
	मवेशियों के छूत के रोग	॥) "
	मवेशियों के विविध रोग	॥) "
	मवेशियों के साधारण रोग	॥) "
	बैज्ञानिक खाद	॥) "

जगपति चतुर्वेदी	हमारे गाय बैल	॥१॥ छात्राहितकारी पुस्तकमाला
दयाशंकर दुबे तथा अन्य	आज का गाँव	॥१॥ ”
	गाँवों की समस्याएँ (१) :	
	कर्जदारी	॥१॥ ”
	गाँवों की समस्याएँ (२) :	
	सुकदमेबाजी	॥२॥ ”
	गाँवों की समस्याएँ (३) :	
	ग्राम सुधार	॥१॥ ”
धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी	हमारी खनिज सम्पत्ति	॥१॥ राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
नन्दकुमार अवस्थी	हजरत अबूबकर	॥२॥ श्रीप्रभाकर साहित्यालोक
नित्यनन्द	हरिजन सेवा	॥२॥ नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
प्रभाकर ठाकुर	देश विदेश के किसान	॥१॥ छात्राहितकारी पुस्तकमाला
	हमारा संविधान	॥१॥ ”
	हमारी पंचायतें	॥१॥ ”
मालसिंह	पंचशील	१) नवयुग ग्रन्थ कुटीर
बल०.पी० भारद्वाज	ग्राम युवक संघटन	१॥ राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
	नमूने का गाँव	॥१॥ ”
	हमारे आधुनिक तीर्थ	॥१॥ ”
बसुदत्त शर्मा	विश्व शांति के पथ पर	॥१॥ हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
रतिभानुसिंह नाहर	हमारे रीति-रिवाज व	
	परम्पराएँ	२) छात्राहितकारी पुस्तकमाला
रमेश वर्मा	खेती और घरेलू धन्धे	॥१॥ साहित्य रत्न भण्डार
	गाँव का जीवन	॥१॥ ”
	गाँव की कहानियाँ	॥१॥ ”
	गाँव की बातें	॥१॥ ”
	गाँव की बोली	॥१॥ ”
	गाँव की सेहत	॥१॥ ”
	गाँव के गीत : पुरुषों के	॥१॥ ”
	गाँव के गीत : स्त्रियों के	॥१॥ ”
	घरेलू इलाज	॥१॥ ”
	दोरों का इलाज	॥१॥ ”
	संयोगिनी का डोला	॥१॥ ”

राजेन्द्रदेव सेंगर	भगवान बापू	॥॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
रुद्रकुमार स्वामी	सात्तर पदावली	॥॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
श्रीचन्द्र जैन	खेती ही धन की खान	॥॥	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
	जनकवि घाष	॥॥	”
	भड्डरी बचनावली	॥॥	”
श्रीमन्तकुमार व्यास	कांग्रेस गाँव मांय बड़गी	१॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
श्रीशरण	चावल की खेती	॥॥	एन० डी० सहगल एण्ड सन्स
शंभूदयाल सक्सेना	गाँवों को सुधारो	१॥	नवयुग ग्रन्थ कुटीर
सत्यजीवन वर्मा	उपयोगी ज्ञान (४ भाग)		
		प्रत्येक ॥॥	नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स
सीताराम चतुर्वेदी	अजन्ता	॥॥	हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
सुधाकर पांडेय	अमर साहित्यकार		
	(४ भाग)	प्रत्येक ॥॥	राष्ट्रीय प्रकाशन मन्दिर
विविध	कथा कुंज	१॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स

## संगीत

ललितकिशोर सिंह	ध्वनि संगीत	४॥	भारतीय ज्ञानपीठ
विविध	अप्टुडेट फिल्मि हारमोनियम		
	गाइड	२॥	देहाती पुस्तक भण्डार
	तबला गाइड	॥॥	”
	फिल्मी बैजों गाइड	१॥	”
	बाँसुरी गाइड	६॥	”
	म्यूजिक टीचर	३॥	”
	सितार गाइड	१॥	”
	हारमोनियम गाइड (छोटा) १॥		”
	हारमोनियम, तबला, सितार,		
	बाँसुरी साहित्य	५॥	”

प्रचारक का  
सर्वश्रेष्ठ "बच्चों की दुनियाँ"

प्रकाशन

पढ़ लो बेया पढ़ लो	॥॥॥
मुन्नु किसान की दुनियाँ	॥॥॥
भोपों इंजन और छुकछुक	॥॥॥
सितारों की बारात	॥॥॥
रानी घोड़ी	॥॥॥
हाथी दादा	॥॥॥
बहादुर दमकल वाले और मोती	॥॥॥
अनीता सर्कस गई	१।)
फलों का भोला	१।)
ज्ञान की कहानियाँ, भाग १	१।)
ज्ञान की कहानियाँ, भाग २	१।)
ज्ञान की कहानियाँ, भाग ३	१।)
ज्ञान की कहानियाँ, भाग ४	१।)
चाँद सितारे	१।)
दूध बताशा	१।)
आदि पुरुष	१।)
खेल तमाशा	१।)
नीलम और मसहरी देवी	१।)

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

पो० बा० नं० ७० वाराणसी

हमारा बाल-साहित्य

परिस्तान : अनु० रघुपतिसहाय फिराक ३।।)
नन्हे लंगूर की कहानी : (अभी अप्राप्य)
पी लीबत्तक : चीन की कहानियाँ १५
तीरन्दाज़ 'ई' : चीन की कहानियाँ १)
बरफीले देश में : रूस की कहानियाँ १)
पहला शिकार : रूस की कहानियाँ १)
सच्ची नागरिकता : मनरो लीफ १।।।)
एक कदम आगे : मनरो लीफ १।।।)
अमृत के घड़े : पृथ्वीकुमार अग्रवाल ॥।।)
सोने का नीबू : किरण १)
बच्चों की कचहरी : केशवचन्द्र वर्मा १)
जंगल में शेर : कुदसिया जैदी १)
रामायण के गीत : शिवनाथ राघव ॥।।)
आओ दोस्त बनाएँ : सईदा सय्यदैन ॥।।)
बचपन की कहानियाँ : शरत्चन्द्र चैटर्जी १।)
चमचम चमके चन्दा मामा : ॥।।)
धुएँ की फाँसी : एस० ए० ताहिर १।।।)
पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (भाग १) : १)
पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (भाग २) : १)
पञ्चतन्त्र की कहानियाँ (भाग ३) : १)
बाल पञ्चतन्त्र : शकुन्तला देवी १।।।)
हमारे बापू : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)
हमारे नेहरू : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)
हमारे गुरुदेव : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)
मुन्शी प्रेमचन्द : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)
लेनिन : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)
अब्राहम लिंकन : डॉ० इन्द्रनाथ मदान ॥।।)

राजकमल प्रकाशन

दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास

इस सूची-पुस्तिका में संकलित पुस्तकें  
हमसे मँगवाइए

हिन्दी पुस्तकों का बृहत् भण्डार,



हिन्दी के सभी विषयों की और प्रतिष्ठित लेखकों व प्रमुख  
प्रकाशकों की पुस्तकें प्राप्त होने का एक विशेष स्थान



नवयुग साहित्य सदन

खजूरी बाजार, इन्दौर नगर, (म० प्रदेश)



हमारी विशेषतायें—

- ❁ हिन्दी के सर्वमान्य, नवीन से नवीन प्रकाशनों का समुचित संग्रह ।
- ❁❁ पुस्तकालयों व प्राइकों के आदेश-पालन की तत्परता ।
- ❁❁❁ सूचना प्राप्त होने पर पुस्तक-सूची भेजी जाती है ।

# अशक साहित्य

तथा

( नीलाभ प्रकाशन से प्रकाशित अन्य पुस्तकें )

- प्रसाद और प्रेमचन्द के बाद हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में किसी एक लेखक ने इतना ठोस और महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जितना साहित्य के अथक साधक श्री उपेन्द्रनाथ अशक ने।
- क्या उपन्यास, क्या नाटक, क्या कविता, क्या कहानी, क्या आलोचना, क्या संस्मरण और निबन्ध, प्रत्येक क्षेत्र में अशक जी ने एक सरीखी गति से हिन्दी-साहित्य के उद्यान को सींचा है।
- अशक-साहित्य जगह-जगह बिकरा होने के कारण एक साथ उपलब्ध न था। अब नीलाभ प्रकाशन ने अशक जी की समस्त पुस्तकें एक जगह से छापकर उसे सबके लिए मुलभ बना दिया है।
- हिन्दी का कोई भी पुस्तकालय अशक-साहित्य के बिना पूर्ण नहीं कहला सकता। अशक-साहित्य बिहार, यू० पी०, राजस्थान, मध्य भारत, दिल्ली, पंजाब, सौराष्ट्र के स्कूल-कालेजों और सरकारी लायब्रेरियों तथा प्रौढ़-शिक्षा और पंचायत-विभाग के लिए स्वीकृत है।
- नीलाभ प्रकाशन ने अशक जी की ही नहीं, राष्ट्र-भाषा के अन्य साधकों की उच्च-कोटि की कृतियाँ भी प्रकाशित की हैं।

## अशक साहित्य

उपन्यास :—

गिरती दीवारें

१०)

गर्मराख

८)

चेतन

६।।।)

चेतन (संक्षिप्त)

३।।)

पथर-अल-पथर

२।)

बफी बफी आँखें

३।।।)

सितारों के खेल

३।।)

ये आदमी ये चूहे (अनु०)

५)

रंग साज (अनु०)

(प्रिस में)

कहानियाँ :—

छूँटि

५)

जुदाई की शाम का गीत

३।।।)

काळे साहब

३।)

बैगन का पौधा

३।)

पिंजरा

३।)

दो धारा (कौशल्या व अशक)

३।।)

संस्मरण :—

मन्दो मेरा बुरमब

५)

ध्यादा अप्पनी कम धरायी

५)

नाटक :—

आदि मार्ग

५।

जय पराजय

३।।)

पैंतरे

३।)

कैद और उद्दान

३।।।)

अंजो दीदी

३।।।)

अलग अलग रास्ते

३।)

छूटा बेटा

२।)

स्वर्ग की झलक

१।।।)

एकांकी :—

पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ

३।।।)

पक्का गाना

३।)

चरवाहे

३।)

देवताओं की छाया में

३।।।)

अंधी गली

३।)

नये रंग एकांकी (सं०)

३।)

प्रतिनिधि एकांकी (सं०)

३।)

काव्य :—

दीप जलोगा

३।।)

चाँदनी रात और अजगर

३।)

बरगद की बेट्टी

३।)

आलोचना :—

उद् काव्य की एक नयी धारा

३।।)

रेखायें और चित्र

५।



# हमारे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

उपन्यास

हास्य तथा निबन्ध

मृगजल :	शेवड़े ५)	तीसरी भूख :	शेवड़े २॥)
ज्वाला मुखी :	शेवड़े ४॥)	बहाने बाजी :	म०आ० कौसल्यायन ३॥)
निशा गीत :	शेवड़े ३)	खरगोश के सींग :	प्रभाकर माचवे ३॥)

बया का घोंसला और साँप :

आलोचना

लक्ष्मीनारायण लाल ३॥)

नाटककार अरक : (सम्पादित) ७)

मिलन : हिकमतुल्ला खाँ ३॥)

चेतन एक अध्ययन : दुप्यन्त तथा

लकीरें : श्रोमप्रकाश श्रीवास्तव २॥)

कमलेश्वर २॥)

गुनाह बेलज्जत : द्वारकाप्रसाद २॥)

नाटक तथा एकांकी

आधा इन्सान : के० ए० अब्बास २॥)

कुंद माला : सत्येन्द्र शरत १॥)

आग और पानी : तेजबहादुर चौधरी २॥)

सुबह के घन्टे : नरेश मेहता ३)

कहानियाँ

ओ मेरे सपने : जगदीशचन्द्र माथुर ३)

मेरी दुनियाँ : उर्दू के सुप्रसिद्ध लेखक २॥॥)

भोर का तारा : जगदीशचन्द्र

अवध की शाम, के० ए० अब्बास २॥॥)

माथुर ३)

मेरा बेटा मेरा दुरमन : के० ए०

काव्य

अब्बास ३॥॥)

बदली की रात : बैरागी ३)

लाल और पीला : के० ए० अब्बास ३॥॥)

मनोविज्ञान

शिमले की क्रीम : वीरेन्द्र मेंहदीरत्ता २॥)

मानव मनोविज्ञान : द्वारकाप्रसाद ६)

कुहासा और किरण : सत्येन्द्र शरत ३)

अपने बच्चे से कैसे कहूँ : द्वारका

लालाजवन्ती : राजेन्द्रसिंह बेदी (यन्त्रस्थ)

प्रसाद १॥)

दीवाला : राजेन्द्रसिंह बेदी (यन्त्रस्थ)

बच्चों के लिए

कच्चे धागे : धर्म प्रकाश आनन्द (यन्त्रस्थ)

घर बैठे सैर : जरमनी ॥)

घर बैठे सैर : लण्डन ॥=)

संकेत

(शताधिक हिन्दी साहित्यकारों की उत्कृष्ट रचनाओं का अभूतपूर्व संकलन)

प्रधान सम्पादक : उपेन्द्रनाथ अरक

मूल्य १५)

नीलाभ प्रकाशन • ५ खुसरूबाग रोड, इलाहाबाद—१



## \* काव्य कृतियाँ

दीवान गालिब (नया संस्करण)	...	...	२॥
इक़बाल : रामवृद्ध बेनीपुरी द्वारा संपादित	...	...	२॥
रात और शहनाई : रमानाथ अग्रवस्थी	...	...	२
लोक और आलोक : केदारनाथ अग्रवाल	...	...	२

## \* उपन्यास

घड़ी की सूई : ओंकार शरद	...	...	२॥
आँचल का आसरा : " (तीसरा संस्करण)	...	...	१॥
ससुराल : शौकत थानवी (दूसरा संस्करण)	...	...	१॥
सुदा न खास्ता : "	...	...	२॥
बजाळा : बलवन्त सिंह	...	...	२॥
निकम्मा : जितेन्द्र	...	...	२॥
नारी का रूप : पाल बर्जे, अनु० शरद (तीसरा संस्करण)	...	...	२॥

## \* कहानियाँ

मौत का सदा : ओंकार शरद	...	...	२
हमारा गांधी वापस करो : " (दूसरा संस्करण)	...	...	१
महुए का पेड़ : मार्कण्डेय	...	...	२
कस्बे का आदमी : कमलेश्वर	...	...	२
महापुरुषों की प्रेमकथाएँ : इलाचन्द्र जोशी	...	...	२॥
पंजाब की कहानियाँ : बलवन्त सिंह	...	...	३
शैतान : शफीकुल्रहमान	...	...	१॥

## \* राजनीति

इतिहास चक्र : डा० राममनोहर लोहिया	...	...	२
हिन्दू बनाम हिन्दू : "	...	...	१॥

## \* और

पुस्तकालय संगठन और संचालन : द्वारकाप्रसाद शास्त्री	...	...	३
राधिकारमण सिंह : व्यक्तित्व और कला : ओंकार शरद	...	...	१॥

सभी सजिल्द, रङ्गीन आवरण, सुन्दर तथा शोभनीय, संप्रहणीय

ल ह र प्र का श न : इ ला हा वा द २



# प्रेमचंद साहित्य

हमारे प्रकाशन

प्रेमचंद के देहांत को बीस बरस पूरे हो गये; लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे साहित्यकार प्रेमचंद की आकृति विशाल से विशालतर होती जा रही है। आज दुनिया के कोने-कोने में प्रेमचंद का स्वर पहुँच रहा है।

प्रेमचंद की यह निरन्तर बढ़ती हुई लोकप्रियता आकस्मिक नहीं है। इसके मूल में भारतीय जीवन, भारतीय आत्मा से उपलब्ध वह प्राणतत्त्व है जो प्रेमचंद को आज भी जीवित रखे है और आनेवाली शताब्दियों में भी जीवित रखेगा। धरती के जीवन्त संस्पर्श में ही कलाकार का वास्तविक अमरत्व होता है।

प्रेमचंद ने भारत के किसान को वाणी दी है, मगर केवल किसानों को नहीं। प्रेमचंद ने समग्र भारतीय जीवन-शैली को, समाज के हर अंग को अपने यहाँ चित्रित किया है। और यही पाठकों के बीच उनकी इस असाधारण लोकप्रियता का रहस्य है।

उपन्यास

अहंकार  
कर्मभूमि  
गबन  
निर्मला  
प्रतिज्ञा  
वरदान  
सेवादान  
गबन(संक्षिप्त)

कहानी

कफ़न  
नवनिधि  
पाँचफूल  
सतसुमन  
प्रेमपचीसी  
समर यात्रा  
मानसरोवर (आठ भाग)  
प्रेमद्वादशी  
गल्पसमुच्चय  
हिन्दी की आदर्श कहानियाँ  
ग्राम साहित्य माला (दस भाग)  
नाटक

प्रेम की वेदी  
होरी (गोदान का रूपान्तर)  
जीवनी-आत्मचरित्र

दुर्गादास  
रामचर्चा

आलोचना

साहित्य का उद्देश्य

॥  
६॥  
॥  
॥  
॥  
॥  
॥  
॥

॥  
॥  
॥  
॥  
॥  
॥  
॥

॥  
॥

॥  
॥

॥  
॥

॥  
॥

हंस प्रकाशन, जीरो रोड, इलाहाबाद

हमारी उकाउटिंग की पुरतकें-



न्यू लिटरेचर-२५० चक, जीरो रोड-इलाहाबाद

- |  |                                   |                               |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| राष्ट्री झन्डा और उसका प्रयोग :                    | रसोइया :                          | पं० श्रीराम वाजपेयी ।=)       |
| श्री डी० एल० आनन्दराव ॥)                           | कोमलपद शिक्षण :                   | श्री वाजपेयी जी १)            |
| आग बुझाने का हुनर :                                | खेल :                             | पं० श्रीराम वाजपेयी २ ॥)      |
| पं० श्रीराम वाजपेयी १)                             | कैम्प फ्रायर :                    | श्री जानकी शरण वर्मा १)       |
| ध्वज शिष्टाचार :                                   | गुरुपद शिक्षण :                   | श्री वृन्दाप्रसाद जी खत्री २) |
| पं० श्रीराम वाजपेयी ॥)                             | खेन्न पचासा :                     | पं० श्रीराम वाजपेयी १)        |
| ध्रुवपद शिक्षण :                                   | स्काउट ड्रिल :                    | पं० श्रीराम वाजपेयी १ ॥)      |
| पं० श्रीराम वाजपेयी १ ॥)                           | हमारे सोलह गीत और बारह सिंह-नाद : | ला० सीताराम गुप्त 'विनोद' =)  |
| कोमलपद शिक्षण :                                    | मोर्स चार्ट :                     | ला० सीताराम गुप्त 'विनोद' ।)  |
| पं० श्रीराम वाजपेयी १ ॥)                           |                                   |                               |
| महावीर दल शिक्षावली : ला० सीताराम गुप्त 'विनोद' १) |                                   |                               |
| ममोमा चार्ट : ला० सीताराम गुप्त 'विनोद' ।=)        |                                   |                               |

हमारे अन्य प्रकाशनों के लिए वृहत् सूचीपत्र मँगाएँ  
न्यू लिटरेचर : जीरो रोड : इलाहाबाद

## कृषि सम्बन्धी तथा देहात-सुधारक पुस्तकें

आलू की खेती	॥॥	पोल्नी सर्जन	४
टमाटर की खेती	॥	आयल इन्जन गाइड	६
गोभी की खेती	॥	क्रुड आयल इंजन गाइड	४॥
जीरा, धनिया, अजवाइन	॥॥	खेती और ट्रैक्टर	६
तरकारियों की खेती	१॥	फल संरक्षण	२॥
अच्छे बीज	॥॥	भारतीय कृषि कहावतें	३
अच्छी खाद	२॥	किचन गार्डन	१॥॥
कपास की खेती	१	पपोते की खेती	१॥
गन्ने की खेती	॥॥	<b>स्त्री उपयोगी पुस्तकें</b>	
फूल फुलवारी	२॥	स्त्री शिक्षा [चतुर प्रहणी]	२॥
धान की खेती	१॥	मिलाई-कटाई गाइड	१
संतरे की बागवानी	२॥	रसोई शिक्षा	॥॥
आम की बागवानी	३	स्त्रीसुबोधनी	६
आधुनिक कृषि विज्ञान	६	पाक भारती	६
तिलहन की खेती	॥॥	स्त्री भजनमाला	३
सोयाबीन	॥	भजन पुष्पांजलि	१
तम्बाकू की खेती	॥	रंग रंगीले गीत	३
खेत की तैयारी	२॥	नवीन वृहत् पाक विज्ञान	३
फसल रक्षक औषधियाँ	२॥	स्त्रीरोग चिकित्सा	१॥
व्याधियों की रोक थाम	१॥	भारतीय वीराङ्गनाएँ	३
खेती और बागवानी	२॥	हमारी मातायें	३
खेती की कहावतें	—	मिडवाइफरी [दाईगिरी शिक्षा]	३॥
खेती बाड़ी (किसान गाइड)	१॥	सुन्दर हारमोनियम पुष्पांजलि	२॥
पशुओं का घरेलू तथा डा०इलाज	६	जीवन का आनन्द (दोनों भाग)	४॥
फलों की खेती	३॥	दर्जी मास्टर (फैशन बुक सहित)	२॥
तरकारी साग भाजी की खेती	३॥	शाक रत्नाकर	२॥
थ्यूब वैल गाइड	३॥	महिला मन्जरी	६
उन्नत सिंचाई	२	मारवाड़ी गीत संग्रह	४
ट्रैक्टर प्राइमर	१॥	श्रीमद्भगवत गीता महात्म्य सहित	२॥
डैरीफार्म का व्यापार	३॥	लोक परलोक सुधार	१॥
पोल्नी फार्मिङ्ग	४	अचार चटनी मुरब्बा बहार	२॥
कमर्शियल पोल्नी	४		

देहाती पुस्तक भण्डार

बाघड़ी बाजार, दिल्ली—६

## हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन

पालि साहित्य का इतिहास

लेखक : श्री भरतसिंह उपाध्याय

ईसा पूर्व और बाद की कई शताब्दियों के भारतीय इतिहास के साथ पालि साहित्य का प्रामाणिक इतिहास इसमें उपलब्ध है। मूल्य १०)

मत्स्यपुराण और वायुपुराण

अनुवादक : श्री रामप्रताप त्रिपाठी,

संस्कृत के पुराणों का हिन्दी में प्रामाणिक और प्रवाहपूर्ण सरल अनुवाद किया गया है। मूल्य क्रमशः २०) और १२)

भोजपुरी ग्राम गीत : भाग १—२ :

मूल्य ६) और ११), डा० कृष्णदेव उपाध्याय

भोजपुरी लोकगीत में करुणारस मूल्य ६)

श्री दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह

राजस्थानी लोकगीत, मूल्य २)

श्री सूर्यकिरण पारीक, एम० ए०

मैथिली लोकगीत, मूल्य ५)

श्री रामइकबालसिंह 'आकेश'

लोक संस्कृति अंक :

'सम्मेलन पत्रिका' का यह अग्रद्य खचित्र विशेषांक लोक-जीवन और लोक संस्कृति की परम्परागत मान्यताओं का अभूतपूर्व समुच्चय है। मूल्य ५)

सामान्य भाषा विज्ञान

डा० बाबूराम सक्सेना ६)

शिशुपाल वध महाकाव्य :

अनुवादक : श्री रामप्रताप त्रिपाठी

मूल श्लोकों के साथ काव्यगत निर्देशों और टिप्पणियों से युक्त सरल भाषानुवाद, परीक्षार्थियों एवं हिन्दी प्रेमियों के लिए उपयोगी है। मूल्य ८)

आदर्शनगर व्यवस्था :

अनुवादक : श्री भोलानाथ शर्मा

एम० ए०

प्लैटो के विश्वविख्यात ग्रन्थ

'पोलि तेइया' का यह अनुवाद साहित्य दर्शन, इतिहास, शिक्षा, राजनीति और प्रजनन आदि सार्वजनिक जीवन से निकट सम्पर्क रखनेवाले सभी विषयों का यह आकर ग्रन्थ है। मूल्य १०)

पारिभाषिक शब्दावली

शासन शब्दकोश १५)

प्रत्यक्ष, शरीर कोश ८)

जीव रसायन कोश ६)

भूतत्व विज्ञान कोश २॥)

चिकित्सा विज्ञान कोश ७॥)

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता: प्रेस में

महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्य

\*हमारे समस्त प्रकाशनों का परिचयात्मक सूचीपत्र निःशुल्क मँगाएँ

## हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

क्रास्ववेट रोड, इलाहाबाद

परिशिष्ट

जनवरी—जून १९५७ की अवधि में प्रकाशित होने वाले

## हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन

### उपन्यास

फणीश्वरनाथ रेणु : परती परिकथा प्रकाशचन्द्र गुप्त : विशाख  
मुल्कराज आनन्द : बुढ़िया की गाय कंचनलता सम्बरवाल : पराया भार  
आरिगुडि : दूर के ढोल मार्कण्डेय : लोढ़ाचक्र  
कमलेश्वर : एक सड़क सत्तावन गलियाँ मार्कण्डेय : जादू टोना

### अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र

जथार व जथार : भारतीय अर्थशास्त्र राधाकमल मुकर्जी : भारतीय समाज विन्यास

### राजनीति

अम्पादोराय : राजनीति सार

### आलोचनात्मक, साहित्यिक इतिहास

एजाज हुसेन : उर्दू साहित्य का इतिहास हरिमोहन श्रीवास्तव : मध्यकालीन  
हिन्दी-गद्य कृष्णदेव उपाध्याय : संस्कृत और उसका साहित्य अमृता प्रीतम :  
पंजाबी और उसका साहित्य महादेव शास्त्री व दशरथ ओझा : साहित्य दर्पण  
श्रीकृष्ण दास : हमारी नाट्य परम्परा पद्मसिंह शर्मा कमलेश : हिन्दी-गद्य काव्य

### सांस्कृतिक, ऐतिहासिक

कालिदास के नाटक : ( एक जिल्द में ) मोतीचन्द्र : पञ्चतन्त्र ( पुनर्मुद्रण )  
राधाकुमुद मुकर्जी : प्राचीन भारत की विभूतियाँ और विचार (अंग्रेजी, हिन्दी में)  
राधाकुमुद मुकर्जी तथा वासुदेवशरण अग्रवाल : हिन्दू सभ्यता ( पुनर्मुद्रण )  
राय कृष्णदास व राय आनन्दकृष्ण : भारतीय चित्रकला की गाथा (दो भाग, सचित्र)

### विज्ञान

आरोग्य-शास्त्र (सचित्र)

हमारा शरीर (सचित्र)

### शिक्षा, मनोविज्ञान

हुमायूँ कबीर : आधुनिक भारत में शिक्षा  
हंसराज भाटिया : सरल मनोविज्ञान ( परिवर्द्धित संस्करण )

### कहानियाँ

मार्कण्डेय : हंसा जाई अकेला

### बालोपयोगी, प्रौढोपयोगी

आगा हैदर हुसेन : अक्षरों का आरम्भ कुदसिया जौदी : चचा छक्कन के झामे  
इन्द्रनाथ मदान : भगवान बुद्ध इन्द्रनाथ मदान : हमारे नेहरू  
रूस की कहानियाँ : बरफ़ीले देश में ( पुनर्मुद्रण )  
तीरन्दाज़ ई : चीन की कहानियाँ ( पुनर्मुद्रण )

बच्चों व किशोरों के लिए—विश्वबोध—दस भागों में

जानने की बातें : तीन भाग जून ५७ तक प्रकाशित हो जायेंगे।

### राजकमल प्रकाशन

दिल्ली, इलाहाबाद, बम्बई, पटना, मद्रास



# उपन्यास : मौलिक तथा अनूदित

अजीमबेग भगताई	खुरपा बहादुर (अनु०)	२)	किताब महल
	दो उपन्यास (अनु०)	१॥॥)	"
अम्बिकाप्रताप सिंह	इन्द्रसेना	२॥॥)	भारती भण्डार
अमृत राय	नागफनी के देश में	१॥॥)	हंस प्रकाशन
	हाथी के दाँत	२॥॥)	"
अमृतलाल नागर	बूँद और समुद्र	१२)	किताब महल
अलेक्जेंडर कुप्रिन	गाड़ीवालों का कटरा (अनु०)	५)	सरस्वती प्रेस
अज्ञेय	नदी के द्वीप	७)	"
आनन्दप्रकाश जैन	तीसरा नेत्र	२॥॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
आरिगपुडि	दूर के ढोल (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
	भूले भटके	३)	भारती साहित्य सदन
इवान खैचकर	पुराना नौकर (अनु०)	२)	मोतीलाल बनारसीदास
उदयशंकर भट्ट	एक नीड़ दो पंछी	८)	राजकमल प्रकाशन
उर्मि	प्रतीक्षा	१)	सरस्वती प्रेस
उषादेवी मित्रा	पिया	३)	"
ए० एन० कृष्णराव	सन्ध्या राग	३॥॥)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
ओंकार शरद	घड़ी की सूई	२॥॥)	लहर प्रकाशन
कंचनलता सठबरवाल	पराया भार (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
कमल शुक्ल	देवता	२॥॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
कमलेश्वर	एक सड़क सत्तावन गलियाँ (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
कवठेकर	रेशम की गाँठें	१॥॥)	सरस्वती प्रेस
कृष्णचन्द्र	एक गधे की आत्मकथा	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	तूफान की कलियाँ	६)	"
गिरीश अस्थाना	धूल भरे चेहरे	१॥॥)	सरस्वती प्रेस
गुरुदत्त	अन्तिम यात्रा	१)	भारती साहित्य सदन
	असीम की सीमा	६)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	आवरण	५)	भारती साहित्य सदन

गुरुदत्त	उन्मुक्त प्रेम	६)	भारती साहित्य सदन
	कला	५)	"
	दास्ता के नये रूप	६)	"
	पथिक	५)	"
	स्वराज्य दान	६)	"
	स्वाधीनता के पथ पर	६)	"
	सहस्त्रबाहु	६)	ओरिएण्टल बुकडिपो
गोपालराम गहमरी	ठन ठन गोपाल	२॥)	किताब महल
गोविन्दसिंह	निशानी	२॥)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
चतुरसेन शास्त्री	गोली	६॥)	राजहंस प्रकाशन
जमनादास 'अखतर'	बुर्दा फ़रोश	२॥)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
डी० एच० लारेंस	कोनी (अनु०)	२॥)	किताब महल
तुर्गनेव	भाग्य से परे (अनु०)	३)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
देवेन्द्र सत्यार्थी	ब्रह्मपुत्र	७)	राजकमल प्रकाशन
देवेसदास	रक्तराग	३)	भारतीय ज्ञानपीठ
निराला	चोटी की पकड़	२॥)	किताब महल
प्यारेलाल भाबारा	मोहमाया	३॥)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
प्रकाशचन्द्र गुप्त	विशाल	(यन्त्रस्थ)	राजकमल प्रकाशन
प्रेमेन्द्र मित्र	जलूस	१॥)	सरस्वती प्रेस
पृथ्वीनाथ शर्मा	युग संदेश	३॥)	हिन्दी भवन
फणीश्वरनाथ 'रेणु'	परती परिकथा	(यन्त्रस्थ)	राजकमल प्रकाशन
	मैला आँचल	६)	"
बरकेनफेल्ड	सीमाएँ टूटी (अनु०)	२॥)	किताब महल
बलभद्र ठाकुर	राधा राजन	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
बलवंतसिंह	काले कोस	७)	सरस्वती प्रेस
	निशी	२)	"
भगवतीचरण वर्मा	अपने खिलौने	३॥)	भारती भण्डार
भैरवप्रसाद गुप्त	जंजीरें और नया आदमी	५)	हंस प्रकाशन
मंडो	राजो और मिस फरिया	१॥)	सरस्वती प्रेस
मन्मथनाथ गुप्त	श्रवसान	३)	"
मार्कण्डेय	जादू-योना	१॥)	राजकमल प्रकाशन
	लोढ़ाचक्र	३)	"

मार्कण्डेय	सेमल के फूल	१॥)	राजकमल प्रकाशन
मुल्कराज आनन्द	बुढ़िया की गाय	(यन्त्रस्थ)	"
मोहनलाल महतो वियोगी	पूर्णाहुति		राजहंस प्रकाशन
यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	धरती की पीर	३॥)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
	युग देवता		राजहंस प्रकाशन
योगेन्द्रनाथ सिन्हा	वन लक्ष्मी	२॥॥)	हंस प्रकाशन
रमेशचन्द्र प्रेम	चौराहा	२॥॥)	किताब महल
	पाप की छाया	२॥॥)	"
राजेन्द्र यादव	उन्वड़े हुए लोग	७॥॥)	राजकमल प्रकाशन
रांगेय राघव	कब तक पुकारूँ	८)	राजपाल एण्ड सन्स
रामकुमार	देर सबेर	३)	सरस्वती प्रेस
राबी	वीरभद्र की गोष्ठी	३॥॥)	राजकमल प्रकाशन
राहुल सांकृत्यायन	अनाथ	२॥॥)	किताब महल
	जय यौधेय	५)	"
	दाखुंदा	५)	"
	विस्मृत यात्री	५॥॥॥)	"
वाल्तेयर	कांतीद (अनु०)	२)	राजहंस प्रकाशन
	भगवान की मर्जी (अनु०)	१॥॥)	सरस्वती प्रेस
विष्णु शर्मा	सनोवर की छाँह	२॥॥)	किताब महल
	सूरज डूबने से उगने तक	२॥॥)	"
शरत्चन्द्र चटर्जी	अरक्षणीया (अनु०)	१॥)	"
	चन्द्रनाथ (अनु०)	१॥)	"
	नव विधान (अनु०)	१॥)	"
	शुभदा (अनु०)	३)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
शिवदत्त मिश्र	तड़प	१॥॥॥)	"
शिवनाथ सिंह शर्मा	देवता	३॥॥)	"
श्रीराम शर्मा 'राम'	चित्रकार	४)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	जिंदगी की राहें		ओरिएण्टल बुकडिपो
शौकत धानवी	कुतिया	४)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
	साँच को आँच	३॥॥॥)	"
सन्तोषनारायण नौटियाल	हरिजन	४)	आत्माराम एण्ड सन्स
सरस्वती सरन	ऊँची-नीची राहें	३)	किताब महल

सामरसेट माम	ममता के बन्धन (अनु०)	३)	किताब महल
सावरकर	काला पानी	५)	"
हावर्ड फास्ट	आदि विद्रोही (अनु०)	६॥)	हंस प्रकाशन
हुमरूँ कबीर	नदी और नारी	४)	राजकमल प्रकाशन
विविध	पाप गली		आरमाराम एण्ड सन्स

## कहानियाँ : मौलिक तथा अनूदित

अमृत राय	कठघरे	२)	हंस प्रकाशन
	कस्बे का एक दिन	२॥)	"
	बरन-बरन के फूल (अनु०)	२)	"
	भोर से पहले	२)	"
अयोध्याप्रसाद गोयळीय	कुछ मोती कुछ सीप	२॥)	भारतीय ज्ञानपीठ
अज्ञेय	अज्ञेय की कहानियाँ (भाग २)	२)	सरस्वती प्रेस
इन्दुमती	उलझे-बिरवे	३)	"
इलाचन्द्र जोशी	खण्डहर की आत्माएँ	३)	किताब महल
उपेन्द्रनाथ 'अरक'	पत्थर-अल-पत्थर	३)	नीलाभ प्रकाशन
भोकले-गेरोला	हिमालय की लोक कथाएँ	३)	किताब महल
झोंकार शरद्	मौत का सट्टा	२)	लहर प्रकाशन
कृष्णचन्द्र (सं०)	डैड लैटर	३)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
गुलाबराय तथा सुमन (सं०)	कथा कुसुमांजलि (संक्षिप्त)	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	तीन दिन	३)	राजपाल एण्ड सन्स
जैनेन्द्र तथा			
गुलाबराय (सं०)	कथा कुसुमांजलि	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
धर्मवीर भारती	चाँद और टूटे हुए लोग	३)	किताब महल
नरेन्द्रनाथ शास्त्री (सं०)	कथा कुमुदावली	२॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
नरोत्तम नागर (अनु०)	इक्कीस रूसी कहानियाँ	५)	पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस
निर्गुण	जिन्दगी	३)	किताब महल
	दूटे सपने	३)	"

प्रेमचन्द्र	प्यार के भूखे	३॥१	सरस्वती प्रेस
	टास्त्वाय की कहानियाँ		"
	(अनु०)	२॥१	"
	ठाकुर का कुआँ	२॥१	"
	प्रेमचतुर्थी	१॥१	"
	प्रेमचन्द्र की सर्वश्रेष्ठ		
	कहानियाँ	३	राजपाल एण्ड सन्स
	लैला	१	सरस्वती प्रेस
बालकृष्ण	शिकारी की कहानियाँ	२	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
भगवतीचरण वर्मा	राल और चिनगारी	१॥१	भारती भण्डार
भालचन्द्र जोशी तथा			
गुप्त (सं०)	अन्तर्प्रान्तीय भारती	१॥१	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
मार्कण्डेय	हंसाजाई अकेला	२॥१	राजकमल प्रकाशन
मोहनसिंह सेंगर	झूबता सूरज	२॥१	किताब महल
	मुर्दे की मौत	२॥१	"
रघुवरसिंह	शिकार की कहानियाँ	२॥१	"
राजेन्द्रसिंह बेदी	लाजवन्ती (अनु०)	३	नीलाभ प्रकाशन
राधाकृष्ण	गल्पिका	१॥१	हंस प्रकाशन
रांगेय राघव	ऐय्याश मुर्दे	३॥१	किताब महल
रामचन्द्र श्रीवास्तव			
चन्द्र (सं०)	अन्तर्प्रान्तीय कहानियाँ	१॥१	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
रामप्रताप त्रिपाठी	पंचतन्त्र की कहानियाँ	३	किताब महल
राहुल सांकृत्यायन	बचपन की स्मृतियाँ	१॥१	"
	वोल्गा से गंगा	४	"
शरत्चन्द्र चटर्जी	पाँच कहानियाँ (अनु०)	१॥१	"
शिवसहाय चतुर्वेदी	पाषाण नगरी	३॥१	राजकमल प्रकाशन
सत्यप्रकाश सेंगर	अप्रीका का आदमी	२॥१	"
	अवगुंठन	२	"
	कितना ऊँचा कितना नीचा	२	"
	नया मार्ग	२	"
	लम्बे दिन जलती रातें	२	"
सत्येन्द्र शरत्	कुहासा और किरन	३	नीलाभ प्रकाशन

## हास्य-व्यंग्य

अरुण	सचित्र गृह-विनोद	८)	आरमाराम एण्ड सन्स
	सचित्र व्यंग-विनोद	६॥)	"
एस० पी० खत्री	गुदगुदी	१)	भारती भण्डार
कृष्णचन्द्र	एक गधे की आत्मकथा	३)	राजपाल एण्ड सन्स
	स्वराज्य के पचास वर्ष बाद	३)	"
जी० पी० श्रीवास्तव	आकाश पाताल	२॥)	राजहंस प्रकाशन
प्रकाश पण्डित (सं०)	जब पर्दा उठा	३॥)	एन०डी०सहगल एण्ड सन्स
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	व्यंग-कौतुक (अनु०)	१॥)	किताब महल

## नाटक तथा एकांकी

अटल	गोआ अभिषेक	२॥)	मोतीलाल बनारसीदास
उपेन्द्रनाथ अरक (सं०)	नये रंग-एकांकी	३)	नीलाभ प्रकाशन
गोविन्ददास सेठ	दुःख क्यों	२॥)	गणपतिदास एण्ड सन्स
	भारतेन्दु	२)	ओरिएण्टल बुकडिपो
	रहीम	२)	"
चतुरसेन शास्त्री	धर्मराज	३)	राजपाल एण्ड सन्स
जगदीशचन्द्र माथुर	भोर से पहले	३)	नीलाभ प्रकाशन
दशरथ भोक्सा	कलापूर्ण एकांकी	३॥)	राजपाल एण्ड सन्स
देवराज दिनेश	यशस्वी भोज	१॥)	आरमाराम एण्ड सन्स
धर्मेन्द्र गुप्त (सं०)	सूत्रधार (संकलन)	२॥)	राजकमल प्रकाशन
नरेश मेहता	सुबह के घंटे	३)	नीलाभ प्रकाशन
पृथ्वीनाथ शर्मा	दुविधा	॥)	हिन्दी भवन
प्रजरत्न दास (सं०)	भारतेन्दु नाटकावली		
	(पहला भाग)		रामवाराधण छात्र

बी० वी० वरेरकर	कला के लिए	१॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	भूमिकन्या सीता	१॥	”
मधुर	अप्सरा	१॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
महेश रावत	न्याय मन्त्री		साहित्य रत्न भण्डार
रत्नशङ्कर प्रसाद	कुर्णीक	१॥	भारती भण्डार
रमेशचन्द्र वर्मा	इतिहास के आँचल से	१॥	किताब महल
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	व्यंग कौतुक (अनु०)	१॥	”
राकेश	सत्य और कल्पना	२)	मोतीलाल बनारसीदास
रामचन्द्र श्रीवास्तव चन्द्र	छः एकांकी	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
वनमाला मवाळकर	उधार का पति	१॥	आत्माराम एण्ड सन्स
विजय चौहान	आधुनिक एकांकी	१॥	”
विमला लूथरा	पचपन का फेर	३)	भारतीय ज्ञानपीठ
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय			
‘रसपीन’	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस	१॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
वृन्दावनलाल वर्मा	देखा देखी	१॥	मथूर प्रकाशन
सत्येन्द्र	जीवन यज्ञ	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
सीताराम	मीर साहब		किताब महल
हरदयालु सिंह	नाटक नवरत्न	२)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
हरिकृष्ण प्रेमी	बंधन	१॥	हिन्दी भवन

## काव्य : नवीन

अज्ञेय	इन्द्रधनु रेंदे हुए ये	४)	सरस्वती प्रेस
	हरी धारा पर क्षण भर	४)	”
उमारावसिंह कारुणिक,	महाकवि अकबर और		
	उनका काव्य	३॥	राजकमल प्रकाशन
कंचनलता सम्बरवाल	काव्य निर्भरिणी	२)	सरस्वती प्रेस
किशोर साहू	अभिसार	३॥	किताब महल
कुँवरनारायण	चक्रव्यूह	३॥	राजकमल प्रकाशन

कृपा	बादलों की गोद में	२)	किताब महल
जगतप्रकाश चतुर्वेदी	दीप-वेला	१॥)	”
दुष्यन्तकुमार	सूर्य का स्वागत	३)	राजकमल प्रकाशन
नरेन्द्र शर्मा	अग्नि शस्य	२)	भारती भण्डार
	प्रवासी के गीत	२)	”
	पलाश वन	२)	”
	मिट्टी और फूल	२)	”
	रक्त चन्दन	२)	”
	हंसमाला )	२)	”
पन्नालाल	जीवनघट (चम्पू)	४)	भारतीय ज्ञानपीठ
भगवतीचरण वर्मा	मधुकण	२)	भारती भण्डार
	विस्मृति के फूल	४)	”
महादेवी वर्मा	नीरजा	१॥)	”
माखनलाल चतुर्वेदी	युग चरण	३)	”
	समर्पण	३)	”
	हिम किरीटिनी	४)	”
मानव	निराधार	१॥)	किताब महल
	अवसाद	॥॥)	”
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	गीतांजलि (अनु०)	१॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
	गीतांजलि (अनु०)	३)	राजपाल एण्ड सन्स
राजेन्द्र शर्मा	मंगलगीत	२॥)	राजकमल प्रकाशन
रांगेय राघव	रूपछाया	२॥)	किताब महल
रामकृष्ण बेनीपुरी (सं०)	इकबाल	२॥)	खहर प्रकाशन
रामावतार चेतन	श्वासों के स्वर	२)	हिन्दी भवन
रामेश्वरदयाल दुबे	चले चलो	॥॥)	मयूर प्रकाशन
लक्ष्मीनारायण मिश्र (सं०)	काव्य विनोद	२॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	महारथी कर्ण (पूर्वाद्ध)	५)	किताब महल



## काव्य : प्राचीन

कृष्णामुरारीलाल (सं०)	तुलसी दोहावली सार	॥१॥	साहित्य भवन लि०
जगन्नाथ तिवारी (सं०)	संक्षिप्त रामचन्द्रिका	२॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
दुर्गाप्रसाद गुप्त (सं०)	पद्माकर पराग	१॥	”
नर्मदेश्वर चतुर्वेदी (सं०)	कवि तानसेन और उनका काव्य	२॥॥	साहित्य भवन लि०
भगवानदीन 'दीन' (सं०)	केशव कौमुदी : रामचन्द्रिका (पूर्वार्द्ध)	३॥	रामनारायण लाल
भूदेव शर्मा (सं०)	सूर मुक्तावली	१॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
रघुनाथ रसाल	रामचरित्र (सं०)	३॥॥	राजकमल प्रकाशन
हरिशंकर शर्मा (सं०)	सुदामा चरित	॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स

## निबन्ध, संस्मरण, पत्र तथा यात्रा-विवरण

अज्ञेय	किरणों की खोज में	२॥	सरस्वती प्रेस
उपेन्द्रनाथ 'अशक'	ज्यादा अपनी, कम परायी	५॥	नीलाभ प्रकाशन
कन्हैयालाल श्रिम	बाजे पायलिया के घुँघरू	४॥	भारतीय ज्ञानपीठ
	माटी हो गयी सोना	३॥	”
कुट्टिचातन	सबरंग	३॥	सरस्वती प्रेस
खलील जिब्रान	उसने कहा	२॥	राजकमल प्रकाशन
	जीवन दर्शन	६॥	राजपाल एण्ड सन्स
	यात्री	२॥	”
	रेत और भाग	२॥	”
गुरुप्रसाद टंडन	निबन्ध ज्योति	२॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
गुलाबराय	गांधीय मार्ग	२॥	”
	निबन्ध माला	१॥॥	हिन्दी भवन
	मेरे निबन्ध	५॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स

देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त'	साहित्य संचय	३॥॥	सरस्वती प्रेस
नखिन मोहन सान्याल	उच्च विषयक लेखमाला	१॥॥	रामनारायण लाल
बनारसीदास चतुर्वेदी			
तथा शर्मा (सं०)	पद्मसिंह शर्मा के पत्र	६॥	आत्माराम एण्ड सन्स
मिजलाल वियाणी	कल्पना कानन	२॥	भारती भण्डार
महादेवी वर्मा	पथ के साथी	३॥	"
	क्षणदा	३॥	"
महावीरप्रसाद द्विवेदी	अतीत स्मृति	१॥॥	"
	विचार विमर्श	३॥॥॥	"
	संकलन	१॥॥	"
यशपाल	राहबीती	३॥॥	विप्लव कार्यालय
रावी	मुझे आप से कुछ कहना है	२॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
राहुल सांकृत्यायन	किन्नर देश में	६॥	किताब महल
विद्यानिवास मिश्र	तुम चन्दन हम पानी	३॥	भारती भण्डार
विराज	हाथियों की खोज में	१॥॥	राजपाल एण्ड सन्स
शंभुदयाल सम्सेना	प्रबन्ध प्रकाश	२॥	हिन्दी भवन
शांतिप्रिय द्विवेदी	पद्मनाभिका	२॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
सुन्दरलाल त्रिपाठी	दैनन्दिनी	२॥॥	भारती भण्डार
हंसराज 'रहबर'	समय की प्रगति (अनु०)	२॥	आत्माराम एण्ड सन्स
	आधुनिक विज्ञान और		
	आधुनिक मानव (अनु०)	२॥	"

## आत्मकथा, जीवनी तथा संस्मरण

आनन्दकुमार जैन	डा० राजेन्द्रप्रसाद	३॥	विनोद पुस्तक मंदिर
	पं० जवाहरलाल नेहरू	३॥	"
	महात्मा गाँधी	३॥	"
इन्द्रनाथ मदान तथा राकेश	अमर ज्योति	२॥॥	हिन्दी भवन
उपेन्द्रनाथ अशक	मय्यो मेरा दुश्मन	५॥	नीलाभ प्रकाशन

गोकुलचन्द्र सन्त	आलोक स्तम्भ	२॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
पञ्चालाल	धर्मशर्माभ्युदय	३)	भारतीय ज्ञानपीठ
प्रेमनारायण माथुर	गान्धी-ग्रन्थ	५)	रामनारायण लाल
राहुल सांकृत्यायन	कार्लमार्क्स	६)	किताब महल
	अकबर		
श्यामनारायण कपूर	भारतीय वैज्ञानिक	३॥)	साहित्य निकेतन
त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती	जेल में तीस वरग (यन्त्रस्थ)		हिन्दी भवन
विविध	वीर वृषल	५)	देहाती पुस्तक भण्डार

## आलोचना तथा इतिहास-ग्रन्थ

इन्द्रचन्द्र नारंग	पद्मावत का ऐतिहासिक		
	आधार	१)	हिन्दी भवन
इन्द्रनाथ मदान	जयशंकरप्रसाद : चिन्तन		
	व कला	६॥)	
इलाचन्द्र जोशी	विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर	४)	राजकमल प्रकाशन
एजाज हुसेन	उर्दू साहित्य का इतिहास		
	(यन्त्रस्थ)		
कृष्णकुमार सिन्हा	हिन्दी कवियों की आलोचना	४॥)	नावेल्टी एण्ड कं०
कृष्णदेव उपाध्याय	संस्कृत और उसका साहित्य	२)	राजकमल प्रकाशन
केदारनाथसिंह,	कल्पना और छायावाद	३)	हंस प्रकाश
गिरीशचन्द्र तिवारी	कवि निराला और उनका		
	काव्य	३)	साहित्य भवन लि०
गोपीनाथ	काव्यालोक	१)	किताब महल
चन्द्रकांत बाली	हिन्दी गद्य : विकास		
	और विमर्श	१॥)	आत्माराम एण्ड सन्स
चन्द्रशेखर पांडेय तथा श्यामस	संस्कृत साहित्य की रूपरेखा	४॥)	साहित्य निकेतन
जगन्नाथप्रसाद मिश्र	हिन्दी गद्य-साहित्य का		
	इतिहास	२॥॥)	हिन्दी भवन
तारकनाथ बाली	महादेवी : आधुनिक कवि	२॥॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर

दशरथ ओझा	समीक्षा-शास्त्र ६)	राजपाल एण्ड सन्स
देवराज उपाध्याय	आधुनिक हिन्दी कथा साहित्य और मनोविज्ञान १०)	साहित्य भवन लि०
धर्मवीर भारती	सिद्ध साहित्य १०)	किताब महल
नगेन्द्र	देव और उनकी कविता ६)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
प्रभाकर माचवे	रीति-काव्य की भूमिका ५)	"
परशुराम चतुर्वेदी	हिन्दी साहित्य की कहानी २॥)	ओरिएण्टल बुकडिपो
प्रेमनारायण टंडन तथा लक्ष्मीनारायण टंडन	हिन्दी निबन्ध २)	राजकमल प्रकाशन
बलदेव कृष्ण	वैष्णव धर्म ३॥)	"
भगवतशरण उपाध्याय	हमारे गद्दू निर्माता २)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
भगीरथ मिश्र	हिन्दी साहित्य की रूपरेखा २)	"
मखिननाथ	हिन्दी के प्रतिनिधि कवि ४)	"
मुरलीधर श्रीवास्तव	गोदान विवेचन ५)	ओरिएण्टल बुकडिपो
रघुनाथ झालानी	संन्यासी विवेचन ३)	"
रजनीकान्त शास्त्री	हिन्दी के प्रमुख साहित्यकार १॥६)	"
राजेन्द्रसिंह गौड़	अँगरेजी साहित्य की रूपरेखा २॥)	राजपाल एण्ड सन्स
रामकुमार वर्मा	कालिदास और उनका युग ३)	राजकमल प्रकाशन
तथा त्रिलोकी नारायण दीक्षित	हिन्दी रीति साहित्य ४)	राजकमल प्रकाशन
रामबहोरी शुक्ल तथा मिश्र	प्रसाद की ध्रुवस्वामिनी ॥)	नॉवेल्टी एण्ड कं०
रामविहारीलाल	मीरा दर्शन २॥)	साहित्य भवन लि०
	जैनेन्द्र और उनके उपन्यास ५)	"
	मानस मीमांसा ४)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	वैदिक साहित्य परिशीलन ३)	किताब महल
	हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास ५)	"
	साहित्य शास्त्र ४)	साहित्य भवन लि०
	एकांकी कला २॥)	राजकमल प्रकाशन
	हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास १०)	रामनारायण लाल
	संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास २॥)	हिन्दी भवन
		साहित्य निकेतन

राहुल सांकृत्यायन विनोद	संस्कृत-काव्यधारा भारतीय जीवन की समाजवादी समीक्षा २)	१२)	किताब महल ,"
विरागी तथा अविनाशचंद्र	हिन्दी मूल और शाखा ५)	५)	भारती भण्डार
विश्वम्भरनाथ उपाध्याय	पंतजी का नूतन काव्य और दर्शन १०)	१०)	साहित्यरत्न भण्डार
विश्वम्भर मानव वेदपाल खन्ना	नयी कविता हिन्दी नाटक साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन ४)	४)	साहित्य भवन लि०
शिवसहाय पाठक श्रीकृष्णदास	पद्मावत का काव्य-सौन्दर्य ५) लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या ४)	५) ४)	श्री भारत भारती लि० हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर साहित्य भवन लि०
शुकदेव दुबे सत्यपाल	हमारी नाट्य परम्परा १०) पद्माकर कवि २॥) नीरजा विवेचन महादेवी की काव्य साधना २॥)	१०) २॥) २॥) २॥)	राजकमल प्रकाशन साहित्य भवन लि० ओरिएण्टल बुकडिपो ,"
सत्यनारायण पायडेय तथा जोशी	वैदिक साहित्य की रूपरेखा ३)	३)	साहित्य निकेतन
सहज और स्नातक सीतादेवी आदि सुरेशचन्द्र तिवारी	कामायनी दर्शन ४) धूलि धूसरित मणियाँ १५) यशपाल और हिन्दी कथा साहित्य ४)	४) १५) ४)	आत्माराम एण्ड सन्स नैशनल पब्लिशिंग हाउस सरस्वती प्रेस
हरदेव बाहरी हरिमोहन श्रीवास्तव	हिन्दी साहित्य की रूपरेखा २॥) मध्यकालीन हिन्दी गद्य (यन्त्रस्थ)	२॥) २॥)	मोतीलाल बनारसीदास राजकमल प्रकाशन

## टीकाएँ, दिग्दर्शन तथा स्वयं-शिक्षक आदि

सारकनाथ बाली	कामायनी की टीका ५)	५)	विनोद पुस्तक मन्दिर
तोताराम शर्मा	प्रथमा दिग्दर्शन ३॥)	३॥)	,"
नरेन्द्रदेव सिंह तथा शर्मा	बी० ए० हिन्दी गाइड (प्रथम वर्ष) ५)	५)	,"

नरेन्द्रदेव सिंह तथा शर्मा	बी० ए० हिन्दी गाइड (द्वितीय वर्ष)	५)	विनोद पुस्तक मन्दिर
पद्मसिंह शर्मा तथा अन्य	उत्तमा दिग्दर्शन (प्रथम खण्ड)	७॥)	”
	उत्तमा दिग्दर्शन (प्रथम खण्ड)	६)	”
फूलचन्द्र जैन	साकेत की टीका	५)	”
मानव	कामायनी की टीका	५)	किताब महल
वासुदेव शर्मा	मध्यमा दिग्दर्शन	४)	विनोद पुस्तक मन्दिर
विविध	आधुनिक काव्य संग्रह की टीका	२॥)	”
	उत्तमा प्रश्नोत्तर (प्रथम खण्ड)	१०)	”
	उत्तमा प्रश्नोत्तर (प्रथम खण्ड) प्रत्येक	२॥)	”
	उत्तमा प्रश्नोत्तर (द्वितीय खण्ड) प्रत्येक	२॥)	”
	उद्गुरुमुखी टीचर काव्य संग्रह (भाग १) की टीका	१)	देहाती पुस्तक भण्डार
	काव्य संग्रह (भाग २) की टीका	४)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	तुलसी संग्रह की टीका	२)	”
	प्राैक्तिकल हिन्दी-इंगलिश टीचर	५॥)	देहाती पुस्तक भण्डार
	ब्रजमाधुरी सार की टीका	२॥)	विनोद पुस्तक मन्दिर
	हिन्दी अँगरेजी मास्टर	३)	देहाती पुस्तक भण्डार
	हिन्दी इंगलिश ग्रामर	१=)	”
	हिन्दी इंगलिश टीचर	१॥)	”
	हिन्दी इंगलिश बोलचाल	१=)	”
	हिन्दी इंगलिश लैटर राइटिंग	१=)	”
	हिन्दी गुरुमुखी टीचर	१)	”

विविध	हिन्दी रोमन टीचर	१)	देहाती पुस्तक भंडार
	हिन्दी संस्कृत शिक्षा	२)	”

## संस्कृत, पाली तथा प्राकृत वाङ्मय

चूड़ामणि शास्त्री	संस्कृत मुद्रा	१।।)	आत्माराम एण्ड सन्स
जगदीशलाल	भोज प्रबन्ध	३।।।)	मोतीलाल बनारसीदास
द्वारिकाप्रसाद त्रिवेदी	श्रीमद्वाल्मीकि रामायण	२।।)	रामनारायण लाल
	हिन्दी महाभारत (केवल टीका		
	१० खण्ड)	२०)	”
धारादत्त	रघुवश	३)	मोतीलाल बनारसीदास
पांडेय और व्यास	संस्कृत गद्य मजरी	२।)	साहित्य निकेतन
भिष्णु धर्मरक्षित	जातकठ कथा (पाली)	६)	भारतीय ज्ञानपीठ
मोतीचन्द्र (अनु०)	कालिदास के नाटक (एक		
	जिल्द में) यन्त्रस्थ		राजकमल प्रकाशन
रामबिहारीलाल	संस्कृत प्रथम पुस्तक	२)	साहित्य निकेतन
	संस्कृत हिन्दी पुस्तक	३)	”
विरवनाथ	हितोपदेश, मित्रलाभ	१)	मोतीलाल बनारसीदास
सत्यव्रतसिंह	संस्कृत बोध कलिका		गयाप्रसाद एण्ड सन्स
संसारचन्द्र	मेघदूत	५)	मोतीलाल बनारसीदास
विविध	एकादशी महात्म्य (भाषा)	१।)	देहाती पुस्तक भण्डार
	एकादशी महात्म्य (भाषा-टीका)		
		३)	”
	चाणक्य नीति (सटीक)	।।।)	”
	पञ्चतन्त्र (भाषा)	३।।)	”
	भर्तृहरि शतक (सटीक)	१)	”
	महाभारत (बड़ा) भाषा	१२)	”
	विदुरनीति (सटीक)	१।।)	”
	वाल्मीकि रामायण (भाषा)	१३)	”

विविध	वैदिक मनुस्मृति हितोपदेश	४) ३)	देहाती पुस्तक भण्डार
-------	-----------------------------	----------	----------------------

## काव्य-शास्त्र

गोविन्द त्रिगुणायत नगेन्द्र	हिन्दी दशरूपक भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा १५)	५॥)	साहित्य निकेतन नैशनल पब्लिशिंग हाउस
बालगोविन्द मिश्र	काव्य परिचय	१॥)	साहित्य निकेतन
भोलानाथ शर्मा	भरत-मुनि कृत नाट्यशास्त्र	॥॥)	॥
महादेव शास्त्री तथा ओझा	साहित्य दर्पण (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
शालग्राम शास्त्री	साहित्य दर्पण	८)	मोतीलाल बनारसीदास
विविध	पिंगल प्रकाश	२)	देहाती पुस्तक भण्डार

## भाषाविज्ञान, व्याकरण, रचना तथा मुहावरे

कामताप्रसाद गुरु	मध्य हिन्दी रचना	॥८)	रामनारायण खाल
बहादुरचन्द्र शास्त्री	लोकोक्तिर्यौ और मुहावरे	१॥)	हिन्दी भवन
भगवद्दत्त	भाषा का इतिहास		ओरिएण्टल बुक डिपो
भोलानाथ झा	ए-हैन्ड बुक आफ् स्पोकन हिन्दी १॥)		रामनारायण खाल
भोलानाथ व्यास	संस्कृत भाषा का शास्त्रीय अध्ययन ५)		भारतीय ज्ञानपीठ
रामचन्द्र पांडेय	जूनियर हाई स्कूल व्याकरण रचना १)		किताब महल
	हाई स्कूल व्याकरण और रचना १॥)		॥



विराज	प्रामाणिक आलेखन श्रौंगठिष्ण २)	राजपाल एण्ड सन्स
विशान स्वरूप	ए कम्पलीट एण्ड काम्प्रीहेन्सिव ग्रामर आफ हिन्दी १)	रामनारायण लाल
शम्भुनाथ त्रिपाठी	जैनेन्द्र मतावृत्ति १५)	भारतीय ज्ञानपीठ
हरिहरप्रसाद गुप्त	प्रामोद्योग श्रौर उनकी शब्दावली ६)	राजकमल प्रकाशन

## कोश तथा संदर्भ-ग्रन्थ

कपूर (सं०)	भौगोलिक शब्दकोष १०)	किताब महल
चम्पतस्वरूप गुप्त (सं०)	जन्तु विज्ञान कोष ५॥)	रामनारायण लाल
द्वारिका प्रसाद चतुर्वेदी शर्मा (सं०)	संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ १२)	”
हरिशंकर शर्मा (सं०)	हिन्दुस्तानी कोष ६)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
विविध (सं०)	स्ट्रुडैन्ट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी (अंगरेजी-हिन्दी-संस्कृत) १॥)	रामनारायण लाल
	स्ट्रुडैन्ट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी (संस्कृत-हिन्दी-अंगरेजी) २॥)	”

## इतिहास तथा संस्कृति

गणेश सखाराम सर देसाई	मराठा इतिहास की मुख्य धाराएँ (यन्त्रस्थ)	हिन्दी भवन
जगतनारायण	वर्तमान यूरोप का संक्षिप्त इतिहास १॥)	किताब महल

जयचन्द्र विद्यालंकार	गोखली इतिहास की मुख्य धाराएँ (यन्त्रस्थ)	हिन्दी भवन
	भारतीय कृषि का काल ७)	,,
	भारतीय राष्ट्र का विकास, ह्रास और पुनरुत्थान १०)	,,
जे० सी० ताल्लुकेदार	भारतवर्ष का प्रारम्भिक इतिहास २॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
देवनाथ उपाध्याय	वलिया में क्रान्ति और दमन ३॥)	किताब महल
धर्मानन्द कोसम्बी	भगवान बुद्ध ५)	राजकमल प्रकाशन
नरसिंह दास अग्रवाल	भारत की एक भूलक २)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
मन्यथराय	देश विदेश में मनोरंजन ४)	साहित्य भवन लि०
	प्राचीन भारतीय मनोरंजन ५)	राजकमल प्रकाशन
रतिभानुसिंह नाहर	इतिहास के पन्ने (२ भाग) २॥), २)	किताब महल
	भारती इतिहास की रूपरेखा (२ भाग) ७॥), ६)	,,
	सरल विश्व इतिहास १॥)	,,
राधाकुमुद मुकर्जी	प्राचीन भारत की विभूतियाँ और विचार (यन्त्रस्थ)	राजकमल प्रकाशन
राधाकृष्ण शर्मा	दुनिया की कहानी (२ भाग) प्रत्येक ५)	किताब महल
रा० प्र० ना० सिंह	मुगल साम्राज्य की जीवन सन्ध्या	आरमाराम एण्ड सन्स
रायकृष्णदास	भारतीय चित्रकला ८)	भारती भण्डार
तथा राय आनन्दकृष्ण	भारती चित्रकला की गाथा (२ भाग) यन्त्रस्थ	राजकमल प्रकाशन
वासुदेवशरण अग्रवाल	पाणिनि कालीन भारतवर्ष १०)	मोतीलाल बनारसी दास
श्यामसुन्दर द्विवेदी	सरल भारतीय इतिहास १॥)	किताब महल
स्कन्दकुमार	भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास ३)	मोतीलाल बनारसीदास
विविध	राजस्थान का इतिहास १०)	देहाती पुस्तक भण्डार

# राजनीति, नागरिकशास्त्र तथा समाजशास्त्र

अप्या दोराय	राजनीति सार (यन्त्रस्थ)	राजकमल प्रकाशन
आर्शीवादीलाल श्रीवास्तव	नागरिक-विज्ञान तथा	
तथा सालिग्राम चतुर्वेदी	भारतीय शासन २॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
इन्दु मेहता	सरल नागरिक शास्त्र १॥॥	”
एल० जी० नेने	बुनियादी नागरिक शास्त्र	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
कैलाशनाथ जैतली	समाज दर्शन २॥॥	किताब महल
कैलाशनाथ शर्मा	समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत (२ भाग) ६॥॥	”
नरेन्द्रनाथ कौल	भारत और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ३॥॥	राजकमल प्रकाशन
परदेशी	एशिया की राजनीति ६॥॥	भारतीय ज्ञानपीठ
परिपूर्णानन्द वर्मा	प्राणदण्ड ५॥॥	मथूर प्रकाशन
महेन्द्रप्रकाश	संयुक्तराज अमेरिका का शासन ४॥॥	किताब महल
मेकियावली	सोवियत संघ का शासन ३॥॥	”
मोतीलाल जैनी तथा श्रीवास्तव	नरेश (अनु०) ३॥॥	”
योगेन्द्रकुमार मखिलक	नागरिक शास्त्र प्रवेशिका २॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
राधाकमल मुकर्जी	राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत ६॥॥	आत्माराम एण्ड सन्स
राहुल सांकृत्यायन	भारतीय समाज विन्यास (यन्त्रस्थ) भागो नहीं दुनिया को बदलो ३॥॥	राजकमल प्रकाशन
शम्भूरत्न त्रिपाठी	ग्रामीण समाज शास्त्र १॥॥	किताब महल
शिवनाथ सिंह	सुबोध नागरिक शास्त्र २॥॥	”
सतीश गुसा	भारतीय शासन विधान ३॥॥	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
हरिदत्त बेदालंकार	हिन्दू परिवार मीमांसा १०॥॥	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
विविध	कौटिल्य अर्थशास्त्र १०॥॥	भारती भण्डार
		देहाती पुस्तक भण्डार

## वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा भूगोल

अमरनारायण अग्रवाल	अर्थ शास्त्र का परिचय	७॥१)	किताब महल
	बुककीपिंग का परिचय		"
	वाणिज्य अर्थशास्त्र	४॥१)	"
एन० सी० माथुर तथा			
अग्रवाल	सरल अर्थशास्त्र	३)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
ओम्प्रकाश वाजपेयी	जीवन बीमा	४)	किताब महल
कमलापति प्रधान	सरल अर्थशास्त्र	१॥१)	"
गुरुदेवशरण तथा			
नैनी शरण	प्रारम्भिक अर्थशास्त्र	३)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
गोपालनारायण	देशी बहीखाना	१॥१)	सरस्वती प्रेस
जथार व जथार	भारतीय अर्थशास्त्र (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
बुलसीराम शर्मा तथा	भारत का आर्थिक व		
चौहान	व्यापारिक भूगोल	६)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
देवीनन्दन एल० हंस	सांख्यिकी के सिद्धान्त	८॥१॥१)	किताब महल
प्रकाशचन्द्र अग्रवाल			
तथा शाह	भारतवर्ष का भूगोल	३)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
पी० सी० बनर्जी तथा शर्मा	संसार का नवीन भूगोल	४॥१)	"
रामचन्द्र	व्यापारिक भूगोल	२॥१)	"
बिरबनाथ द्विवेदी	मानव भूगोल के सिद्धान्त	७॥१)	किताब महल
श्यामलाल गुप्त तथा			
पुरोहित	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त	५॥१)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
शर्मा तथा बालकृष्ण	आधुनिक अर्थशास्त्र	२॥१)	किताब महल
श्रीनारायण अग्रवाल	भारत का आर्थिक तथा		
	वाणिज्य भूगोल	२॥१)	"
	भारत का आर्थिक भूगोल	२)	"
जुरेराचन्द्र लक्ष्मणा	अंकेक्षण के सिद्धान्त	५॥१॥१)	"

# शिक्षा तथा मनोविज्ञान

पुस० पी० कनक	माता माण्टेसोरी के विचार और विधि ७॥)	आत्माराम एण्ड सन्स ओरिएण्टल बुकडिपो
धर्मप्रकाश बंशीधरसिंह	बुनियादी शिक्षा पद्धति कक्षाध्यापन एवं पाठसूत्र निर्माण ५)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास ५)	”
मिल्लापचन्द्र दुबे	बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत ४)	”
	समवायी शिक्षण ३)	”
श्री० एस० माथुर तथा शची माथुर	शिक्षण प्रविधि २॥)	राजकमल प्रकाशन
हुमायूँ कबीर	आधुनिक भारत में शिक्षा (यन्त्रस्थ)	”
विविध	बालक का विकास कैसे हो २॥)	किताब महल

# गणित, रसायन तथा अन्य विज्ञान

आनन्दस्वरूप सिन्हा	आधुनिक हाईस्कूल ज्योमिति २॥)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	प्रारम्भिक गति विज्ञान ४)	”
	प्रारम्भिक स्थिति विज्ञान ५)	”
आर० एन० सिंह तथा पी० डी० भारद्वाज	माध्यमिक कृषीय भौतिक विज्ञान तथा जलवायु अभ्ययन ६॥)	”
एम० रे, चतुर्वेदी तथा शर्मा	समतल त्रिकोणमिति ४)	”
एम० रे तथा रमाकान्त चतुर्वेदी	नियामक ज्योमिति ३)	”

एल० पी० माथुर	शरीर रचना, क्रिया और स्वास्थ्य विज्ञान	२।।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
एस० घोष तथा गुप्त	माध्यमिक अकार्बनिक रसायन	७।।)	"
कन्हैयालाल सक्सेना आदि	माध्यमिक वनस्पति विज्ञान	१०।)	"
जयरामविह	आधुनिक कृषि-शास्त्र	५।।।)	किताब महल
जी० आर० जैन	प्रारम्भिक भौतिक शास्त्र	३।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
प्रेमनरायण गर्ग	माध्यमिक सरल रसायन शास्त्र	३।)	"
प्रेम श्रीवास्तव आदि	हाईस्कूल गृह-विज्ञान	३।)	किताब महल
रमाकांत चतुर्वेदी तथा शर्मा	घनभूमिति	१।।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
रमेशचन्द्र वर्मा	आधुनिक रसायन	३।)	किताब महल
रामसरनलाल आदि	माध्यमिक बीज गणित	३।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
राहुल साँकृत्यायन	विश्व की रूपरेखा	८।)	किताब महल
दा० वि० भागवत	प्रारम्भिक रसायन-शास्त्र	३।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
वैश्य और शर्मा	हाईस्कूल कृषि-शास्त्र	२।)	रामनारायण लाल
बजवासीलाल	आधुनिक स्थिति-विज्ञान प्रारम्भिक गति विज्ञान	४।।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स
	प्रारम्भिक चलन-कलन	१८।)	"
श्रीप्रकाश तथा हरप्रसाद खरे	बी० एस०-सी० कार्बनिक रसायन	७।)	"
सन्तप्रसाद टंडन	प्रारम्भिक जीव विज्ञान	३।।।)	रामनारायण लाल
	वनस्पति विज्ञान	१।।)	"
हरद्वारीलाल टंडन तथा गुप्ता	आधुनिक हाई स्कूल बीज- गणित	३।।)	गयाप्रसाद एण्ड सन्स

# चिकित्सा तथा वैद्यक

अग्निदेव	सुश्रुत संहिता	१५)	मोतीलाल बनारसदास
आशानन्द	आधुनिक चिकित्सा विज्ञान	१०)	"
	व्याधि विज्ञान	१८)	"
एम० एल० गुजराज	माडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट	२०)	"
अयदेव	चरक संहिता	२५)	"
	भैषज्य रत्नावली	१०॥)	"
जे० डी० शर्मा	सुश्रुत शरीरस्थान भारी	५)	"
ताराशंकर	नाडी दर्शन	२॥)	"
विश्वनाथ	भावप्रकाश निघंटु	७)	"
सदानंद	रस तरंगिणी	१०)	"
विविध	तपेदिक का प्राकृतिक इलाज	४॥)	किताब महल

# ज्योतिष-शास्त्र

विविध	अखण्ड त्रिकालज्ञ ज्योतिष	४)	देहाती पुस्तक भण्डार
	ज्योतिष-विज्ञान	६)	"
	ज्योतिष सर्व-संग्रह	२)	"
	मूक (गुप्त) प्रश्नावली	२)	"
	व्यापार-चमत्कार	५)	"
	व्यापार-रुख	२)	"
	शीघ्रबोध	१॥)	"
	हनुमान ज्योतिष	॥॥)	"
	हस्त सामुद्रिक ज्योतिष	६)	"
	हस्त सामुद्रिक-शास्त्र	६)	"

# तर्कशास्त्र, धर्म, दर्शन तथा चरित्रनिर्माण

आद्याप्रसाद	साख्यतत्व कौमुदी	५)	मोतीलाल बनारसीदास
कृष्णस्वरूप	गीता-मर्म	७॥)	साहित्य निकेतन
जगदीशचन्द्र जैन	भारतीय तत्व चिन्तन	६)	राजकमल प्रकाशन
जेम्स एलेन	आत्म हितैषी	॥६)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स
	आत्म हितैषी बनें	॥६)	”
	आत्म-ज्ञान	१७)	”
	जागो	४॥)	”
	जीवन-मुक्ति	१)	”
	परमानन्द पथ	१६)	”
	मोक्ष-मार्ग	॥॥)	”
धर्मेन्द्रनाथ	न्याय सिद्धान्त मुक्तावली	५॥)	मोतीलाल बनारसीदास
नेमिचन्द्र जैन	व्रतविधि निर्णय	२)	भारतीय ज्ञानपीठ
बिनुजी	मोहन मोहिनी	॥७)	”
भानुप्रताप सिंह	न्यायशास्त्र निगमन	३)	किताब महल
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	साधना	२)	राजपाल एण्ड सन्स
रामचन्द्र शर्मा	सफल जीवन	३)	मोतीलाल बनारसीदास
सत्यव्रत	ब्रह्मचर्य सन्देश	४॥)	राजपाल एण्ड सन्स
सहजानन्द सरस्वती	गीता-रहस्य	१२)	किताब महल

## बाल-साहित्य

आत्माराम एण्ड सन्स	आदिवासियों की लोककथाएँ, राजेन्द्र अवस्थी	१॥)
	गुजरात की लोककथाएँ, श्रीकान्त व्यास	१॥)
	चित्रमय चरणकव्य	१)
	जापान की लोककथाएँ, हंसराज 'रहबर'	१॥)



आत्माराम एण्ड सन्स	फारस की लोककथाएँ, शिवनाथ शांडिल्य	१॥)
	बडे की बडाई और दूसरी कहानियाँ, रामस्वरूप कौशल	१॥)
	महाराष्ट्र की लोककथाएँ, श्रीकान्त व्यास	१॥)
	राजनीतिक लोककथाएँ, हरिमोहनलाल श्रीवास्तव	१॥)
	ला मेरा चने का दाना, कुदमिया जैदी	२)
५	लोभ का फल और दूसरी कहानियाँ, रामस्वरूप कौशल	१॥)
	गितारा (मन्त्रिण), कुदमिया जैदी	२॥)
	मिन्धु की लोककथाएँ, प्यारेलाल	१॥)
	मौन्दर्य की रेखाये, रामस्वरूप दुबे	१)
औरिएटण्ड बुकडिपो	एगडा नेमिया, शर्मा व माथुर	॥)
	कर्तव्य की बलिांगी, प्रशान्त	॥)
	गीत माधुरी, शान्ता सन्त	॥)
	दो लाउले, इन्द्रसेन सिंह	॥)
	नवाव और खराब, इन्द्रसेन सिंह	॥)
	वर्मा, शर्मा व माथुर	॥)
	मटरू सेठ, राधेन्याम	॥)
	माटी का लडका, धर्मपाल शास्त्री	॥)
	मोल का दूब, इन्द्रसेन सिंह	१)
	वर्ण गीतिका, शान्ता सन्त	॥)
	विप परीक्षा, प्रशान्त	॥)
	शिशुपान, शान्ता सन्त	॥)
	शीघ्र दान, प्रशान्त	॥)
	मरम लोक कथाएँ श्रीचन्द्र जैन	॥)
कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स	कथाकुज	१)
	जयगीत	॥)
	मिहनाद	१)
	ज्ञान-कलश	॥)
किलाब महल	राजस्थान की लोककथाएँ, श्रीकान्त व्यास	१)
गयाप्रसाद एण्ड सन्स	अद्भुत कहानियाँ	१)
	अनमोल कहानियाँ	१)
	आदर्श विभूतियाँ, अम्बिका प्रसाद	॥)

<b>गबाप्रसाद एण्ड सन्स</b>	करामाती कहानियाँ	१३
	चटपटी कहानियाँ	१३
	चमकते महकते मोती	॥१॥
	जादू का मंजीरा	१३
	जादू की सारंगी	१३
	भूतों का डेरा	१३
	मजेदार कहानियाँ	१३
	महकते मोती	॥१॥
	महाभारत की कहानियाँ	॥॥
	रोचक कहानियाँ	१३
	विचित्र विज्ञान, हरिशंकर शर्मा	॥१॥
	विज्ञान चर्चा, हरिशंकर शर्मा	॥१॥
	समुद्र परी	॥१॥
<b>देहाती पुस्तक भंडार</b>	किरण देवी	१३
	चंचल कुमारी	१३
	जवाहरलाल नेहरू	॥१॥
	जीजाबाई	१३
	भांसी की रानी	१३
	भांसी की रानी लक्ष्मीबाई	॥१॥
	डा० मुखर्जी	१३
	दमयन्ती	१३
	पद्मिनी	१३
	पद्मिनी का वलिदान	॥१॥
	बाप्पा रावल	॥१॥
	भारत माँ के लाल	॥१॥
	महिला गौरव	॥१॥
	महाराणा प्रताप	१३
	महाराणा रणजीत सिंह	॥१॥
	महारानी सारन्धा	१३
	माता कुन्ती	१३
	माता गान्धारी	१३

देहाती पुस्तक भंडार	रगभेरी	॥१)
	राणा राजसिंह	॥१)
	राणा सांगा	॥१)
	रानी दुर्गावती	॥१)
	राष्ट्रपिता बापू	॥१)
	वीर छत्रसाल	॥२)
	वीर तानाजी, सिंहगढ़ विजय	॥२)
	वीर बन्दा वैरागी	॥२)
	शिवाजी	॥२)
	शिवाजी की नीति कथाएँ	॥१)
	सती अन्नम्भुया	॥१)
	सती द्रौपदी	॥१)
	सती पार्वती	॥१)
	सती सावित्री	॥१)
	सती सीता	॥१)
	संयुक्ता	॥१)
	सरदार भगतसिंह	॥१)
	हरीसिंह नलुआ	॥१)
नैशनल पब्लिशिंग हाउस	काजल रेखा, जगन्नाथ	॥१)
	बाहर कहाँ खोजे बन्दे, सन्तराम वरस	॥१)
	बुद्धि से काम लो, बालकृष्ण	॥२)
	बोल, बोल बंसरी भिन्ना मिलेगी, राधा सुधा	॥१)
	मैंग और मोट, राधा सुधा	॥१)
राजकमल प्रकाशन	अक्षरों का आरम्भ, आगा हैदर	(यन्त्रस्थ)
	चचा छक्कन के ड्रामे, कुदसिया जैदी	(यन्त्रस्थ)
	नन्हें लंगूर की कहानी, (अमी अप्राप्य)	(यन्त्रस्थ)
	भगवान बुद्ध, इन्द्रनाथ मदान	(यन्त्रस्थ)
	रामायण के गीत, राघव	॥१)
	विश्व-बोध (१० भागों में),	(यन्त्रस्थ)
	हमारे नेहरू, इन्द्रनाथ मदान	(यन्त्रस्थ) ॥१)
राजपाल एबट सम्प्र		अपने देश की सैर

राजपाल एण्ड सन्स	आओ सरकम देमें, प्रकाश पण्डित	॥१॥
	चिडियाघर की सैर, प्रकाश पण्डित	॥१॥
रामनारायण खाल	मिन्दबाद, धर्मपाल शास्त्री	॥१॥
	सूक्ष्म-वृक्ष की कहानियाँ, (२ भाग) आनन्दकुमार प्रत्येक	॥१॥
	एलीमेंटी डिजाइन, श्रीकृष्ण देवसरे	२॥
	कला और हस्त कार्य (२ भाग), कलाविशारद नारायण	॥२॥, ॥३॥, ॥४॥, ॥५॥
	चर्म विज्ञान, कृपानारायण	१॥
	चचा नेहरू के गीत, निरंकारदेव सेवक	१॥
	चित्रकला तथा दस्तकारी, मुशीलादेवी पाठक	१॥
	चित्रकला रीडर (२ भाग), नन्दजीसिंह, प्रत्येक	१॥
	चीन की यात्रा, जगदीशचन्द्र जैन	
	नवीन पुस्तक कला (तीन भाग), नन्दजीसिंह	॥२॥, ॥३॥, ॥४॥
नवीन संसार (२ भाग), जगदीशचन्द्र जैन	॥१॥, ॥२॥, ॥३॥	
नागरिक जीवन (४ भाग), गोरखनाथ चौबे	१॥, १॥, १॥, १॥	
बेसिक कताई-विज्ञान (३ भाग), नन्दजीसिंह	॥२॥, ॥३॥, ॥४॥	
भारतीय शिष्टाचार, कामताप्रसाद गुरु	१॥	
सक्सेस इन आर्ट	१॥१॥	
संसार के रहने वाले (४ भाग), जगदीशचन्द्र जैन	१॥, १॥, १॥, १॥	
विनोद पुस्तक मन्दिर		
आचार्य कृपलानी	१॥	
आचार्य विनोबा भावे	१॥	
उड़न खटोला	१॥	
क्या आप जानते हैं	१॥	
चटपटी कहानियाँ	१॥	
नीलमपरी	१॥	
पण्डित जवाहरलाल नेहरू	१॥	
बन्दर का ब्याह	१॥	
महाराणा प्रताप	१॥	
महारानी लक्ष्मीबाई	१॥	

<b>बिनोद पुस्तक मन्दिर</b>	लाला लाजपत राय	१३)
	लोकमान्य तिलक	१५)
	विजयलक्ष्मी परिडित	१५)
	वीरशिरोमणि शिवाजी	१५)
	श्रीमती सरोजिनी नायडू	१५)
	श्री महादेव देसाई	१५)
	श्री राजगोपालाचार्य	१५)
	शेखचिल्ली की कहानियाँ	१५)
	स्वामी दयानन्द	१५)
	हुक्कू भाई	१५)
<b>सरस्वती प्रेस</b>	इतिहास गाथा (२ भाग)	११५)
<b>हंस प्रकाशन</b>	मन्दिर और भवन, भगवतशरण उपाध्याय	११)
	मूरत और चित्र, भगवतशरण उपाध्याय	११)
	यह सोने का देश, भगवतशरण उपाध्याय	११)
	संगीत और नृत्य, भगवतशरण उपाध्याय	११)
	हमारे संस्कृत कवि, भगवतशरण उपाध्याय	११)
<b>हिन्दी भवन</b>	जादू की नींव, सन्तराम	११)
	नदी किनारे की कहानियाँ, सन्तराम	११५)
	नदी की कहानी, (८ भाग), सन्तराम	११)
	पानी का पैसा, स्वामीभीखू त्रिपाठी	१११)
	बूटों वाली मौंसी, इन्द्रनाथ मदान	१११)
	मनबहलाव की कहानियाँ, सन्तराम	११५)
	सुनो कहानी, रामावातार चेतन	११)

## किशोर साहित्य

<b>आश्वाराम एण्ड सन्स</b>	पत्र लेखन कला, बनारसीदास चतुर्वेदी	११)
<b>एन०डी०सहगल एण्ड सन्स</b>	अभिज्ञान शाकुन्तल, कालिदास	११)

एन०डी०सहगल एण्डसन्स	कुमार सम्भव, कालिदास	११)
	नलोदय, कालिदास	११)
	मालविकाग्निमित्र, कालिदास	११)
	मेघ दूत, कालिदास	११)
	विक्रमोर्वशी, कालिदास	११)
ओरिएण्टल बुकडिपो	इन्डोनेशिया, शर्मा व माथुर	॥
	दो लाडले, इन्द्रसेनसिंह	॥१)
	नवाव और खराव, इन्द्रसेनसिंह	॥१)
	बर्मा, शर्मा व माथुर	॥१)
	मोल का दूध, इन्द्रसेनसिंह	॥१)
किताब महल	अद्भुतमणि, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	अनर्घ राघव, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	आकाश की भोंकी, देवनाथ उपध्याय	११)
	कौशिक का कोप, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	जादू की अँगूठी, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	तपती और संवरण, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	बाल लीला, ठाकुर दत्त मिश्र	११)
	मछलियों की दुनियाँ	२)
	मालती और माधव, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, सत्यनारायण व्यास	१११)
	राकेश की मंगल यात्रा, माधव	२)
	राधा माधव, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	राम विजय, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	वरदान, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	वसन्त सेना, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	विलुप्त जन्तु, जगपति चतुर्वेदी	२)
	विज्ञान प्रवेशिका (३ भाग), माताप्रसाद	१), ११), १)
	संयोगिता स्वयंवर, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
	सुभद्रा और धनन्जय, ठाकुरदत्त मिश्र	११)
गयाप्रसाद एण्ड सन्स	आत्म निर्माण, गुलाबराय	१११)
	उन्नत राष्ट्र, शिवधानसिंह तथा राजेन्द्र प्रसाद	१११)

गयाप्रसाद एषक सन्ध	उन्नति के पथपर, उर्मिला नागरकर	१॥॥
	जीवन ज्योति, हरिशंकर शर्मा	१॥
	जीवन भांकी, हरिशंकर शर्मा	२॥
	जीवन पथ, गुलाबराय	१॥॥
	नाटक निकुंज, जगेन्द्र	२॥
	भारतीय इतिहास की कहानियाँ, बी० एन० मेहता	१॥॥
	भास ग्रन्थावली, हरदयालु सिंह	२॥
	व्यावहारिक विज्ञान, मुकुन्दीलाल गुप्त	२॥॥
	मेवाड़ महिमा, हरिशंकर शर्मा	१॥
	रत्नराशि, नर्मदाप्रसाद खरे	१॥
	हमारा स्वातन्त्र्य संघर्ष, प्रभा अग्रवाल	१॥॥
	हिटलर, शर्मनलाल अग्रवाल	१॥
देहाती पुस्तक मंडार	आर्य समाज के नेता	३॥
	आहुती	१॥
	जयघोष	२॥
	जैप्रकाशनारायण	१॥
	नवयुवकों से दो बातें	१॥
	पूर्ण आहुति	१॥
	भारत मों के सपूत	३॥
	भारतीय वीरांगनाएँ	३॥
	महर्षि दयानन्द	१॥॥
	मेवाड़ गौरव गाथा	२॥॥
	राजा महेन्द्रप्रताप	१॥॥
	राष्ट्रपत्नी महाराणा प्रताप	१॥॥
	वीर पंचरत्न	३॥॥
	शंखनाद	१॥॥
	शिवाजी (लाजपतराय)	१॥॥
	स्वाधीनता के पुजारी	३॥
	स्वामी रामतीर्थ	१॥॥
	सम्राट विक्रमादित्य	१॥॥
	सरल भागवत	३॥

देहाती पुस्तक भंडार	सरल महाभारत	३)
	सरल रामायण	३)
	हमारी माताएँ	३)
	हमारी राष्ट्रीयता	१॥)
	हमारे स्वामी	३)
	हिन्द के चार महापुरुष,	३)
न्यूलिटरेचर	महाबीरदल शिन्हावली, सीताराम गुप्त	१)
	स्काउट ड्रिल, श्रीराम वाजपेयी	१॥)
नैशनल पब्लिशिंग हाउस	अच्छी आदतें, सन्तराम वत्स	१)
	चरित्र विकास, निर्मलचन्द्र	११)
	जीवन आनन्द, निर्मलचन्द्र	१॥)
	जैसा चाहो बन जाओ, निर्मलचन्द्र	१)
मोमीलाल बनारसीदास	बुद्ध चरितावली, विद्या	
	बौद्ध योगी पत्र, भिक्षु धर्मरचित	१)
	साहसी संसार, अक्षयकुमार जैन	२॥)
राजपाल एण्ड सम्स	जीवन रश्मि	२॥)
	बा और बापू, चतुरसेन शास्त्री	१)
	भारतीय संस्कृति की कहानी, भगवतशरण उपाध्याय	१॥)
	भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी, भगवत शरण उपाध्याय	॥)
	महात्मा गांधी, सत्यकाम विद्यालंकार	॥)
	महान् मानव	१॥)
	वीर गाथा, आनन्दकुमार	१॥)
श्रीभारत भारती लि०	ऐवरेस्ट विजय, रामलाल सावल	१)
	महाभियान, रामलाल सावल	३)
	हमारे आदर्श प्रतिनिधि, (सं०) संसारचन्द्र	१॥)
हिन्दी भवन	आविष्कार और आविष्कारक, कृष्णचन्द्र विद्यालंकार	१॥)
	किशोर नाटकावली, लक्ष्मी नारायण मिश्र	१)
	छात्र जीवन, बलदेव मिश्र	१॥)
	पुरखों का चरित (पहली पोथी), जयचन्द्र विद्यालंकार	२)
	पुरखों का चरित (दूसरी पोथी), जयचन्द्र विद्यालंकार	१॥)
	पुरखों का चरित (तीसरी पोथी), जयचन्द्र विद्यालंकार	१॥)



## ग्राहस्थ्य-शास्त्र तथा महिलोपयोगी

कचावती देवी	गृह-कला (३ भाग) ॥१॥, १॥, १॥	रामनाथ लाल
	धरेलू हुनर (४ भाग) प्रत्येक १६)	"
ज्योतिर्मयी ठाकुर	स्त्री विनोदिनी ६)	विनोद पुस्तक मन्दिर
प्रेमलता अग्रवाल	आरोग्य बाला (२ भाग) १॥, ॥१॥	रामनारायण लाल
	नवीन स्वास्थ्य विज्ञान (३ भाग) ॥१॥, ॥२॥, ॥३॥	"
मन्मथनाथ गुप्त	यौन जीवन १०)	सरस्वती प्रेस
माणिकराम शर्मा	पाकविधि १)	रामनारायण लाल
सुकुमारी भटनागर	गृह-शिल्प (३ भाग) प्रत्येक ॥१॥	"
राजकुमारी विदल	नारी जीवन चक्र १॥)	मयूर प्रकाशन
सावित्री देवी वर्मा	भारतीय भोजन विज्ञान ७)	राजकमल प्रकाशन
सुभाषिणी देवी	सिलाई शिक्षा २)	कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स

## प्रौढ़-शिक्षा तथा ग्राम-साहित्य

इन्द्रसेन वर्मा	बीमार की सेवा १॥)	राजकमल प्रकाशन
कृषि शास्त्री	आलू की खेती ॥१॥	राजपाल एण्ड सन्स
	कपास की खेती ॥१॥	"
	गन्ने की खेती ॥१॥	"

गणेशशंकर पंचोकी	कपास की खेती	॥१॥	रामनाथय्य लाख
	नीचू नारंगी	॥१॥	”
गवादत्त जिवाठी	कृषि सिद्धान्त	॥१॥	”
	खाद और उनका व्यवहार	॥१॥	”
	मँगफली की खेती	॥१॥	”
	लाख की खेती	॥१॥	”
	सोंठ व हल्दी	॥१॥	”
	सोयाबीन	॥१॥	”
चतुरसेन कास्त्री	आदर्श भोजन	१)	राजपाल एण्ड सन्स
	नीरोग जीवन	१)	”
	स्वास्थ्य रक्षा	१)	”
	हमारा शरीर	१)	”
जी० बी० काळे तथा मित्रा	स्वास्थ्य प्रदीप	॥१॥	गवाप्रसाद एण्ड सन्स
देवनाथ उपाध्याय	ग्रामोपयोगी शिक्षा (२ भाग)	२)	किताब महल
वैनीचरय्य ब्रह्मेन्द्र	सरल स्वास्थ्य विज्ञान	(२ भाग) ॥१॥	गवाप्रसाद एण्ड सन्स
महात्मा गाँधी	आरोग्य की कुंजी	॥१॥	किताब महल
राजेन्द्रप्रसाद कामवाक	स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा		
	समाज सेवा	॥१॥	गवाप्रसाद एण्ड सन्स
रामजी लाख	अपना इलाज अपने हाथ	॥१॥	विनोद पुस्तक मन्दिर
	आपकाज महाकाज	॥१॥	”
	काम-काज की बातें	॥१॥	”
	गाँव पंच और पंचायत	॥१॥	”
	चकबन्दी क्यों और कैसे	॥१॥	”
	पशुओं का इलाज	॥१॥	”
	स्वावलम्बन और समाजसेवा	॥१॥	”
	हम किनसे मिलें	॥१॥	”
	हम सुखी कब होंगे	॥१॥	”
	हमारे बच्चे स्वस्थ, सुन्दर		
	और सपूत कैसे बनें	॥१॥	”
रामचरयाशिक्ष	खेती पौड़ी गन्ना ऊख	॥१॥	रामनारायण लाख

रामाचल पाण्डेय	कृषि कल्प (नाटक)	१)	रामनारायणलाल
शिवदयाल सकसेना	नवीन कृषि विज्ञान	॥३)	"
	प्रारम्भिक कृषि विज्ञान (३ भाग)		
		१), १), ॥१)	"
शिवानन्द झा	प्रारम्भिक उद्यान विज्ञान		
	(४ भाग) प्रत्येक १८)		"
सन्तराम वास	राजा भोज	१)	नैशनल पब्लिशिंग हाउस
	शकुन्तला	॥१)	"
	शैतान की मौत	॥१)	"
विविध	आरोग्य शास्त्र	(यन्त्रस्थ)	राजकमल प्रकाशन
	ईश्वर प्रार्थना	॥१)	देहाती पुस्तक भण्डार
	ईश्वर भक्ति	१८)	"
	ऐतिहासिक कहानियाँ (२ भाग)		
	प्रत्येक ॥३)		रामनारायण लाल
	कबीर की साग्री तथा बोल	१८)	देहाती पुस्तक भंडार
	कबीर दास शब्दावली	॥१)	"
	कबीर दोहावली	॥१)	"
	कबीर भजन माला	१॥१)	"
	कबीर भजनावली	१)	"
	कीर्तन भजन संग्रह	१)	"
	खजाना मुनीमी गुरु	३८)	"
	गांधी भजनमाला	॥१)	"
	प्राभ्य अर्थमेटिक	१८)	रामनारायण लाल
	गाँव का विकास	१॥१)	"
	गुटका भक्तिसागर	॥१८)	देहाती पुस्तक भंडार
	गुरुनानक के बोल	॥१)	"
	तुलसीदास के भजन	॥११)	"
	तुलसी दोहावली	॥१)	"
	धूम्रपान या विषपान	॥११)	किताब महल
	नागरिक शास्त्र की साधारण		
	नाते १८)		रामनारायण लाल
पहली पोथी		१)	"

## विबिध

पौराणिक कथाएँ	॥१॥	रामनारायण लाल
बड़ी भजन पुष्पांजलि	१॥	देहाती पुस्तक भंडार
बाबा फरीद के दोहे	॥१॥	„
बाल महाभारत	१॥१॥	रामनारायण लाल
भक्त वाणी	४॥	देहाती पुस्तक भंडार
भक्तों की पुकार	॥१॥	„
भारत का भूगोल	१॥१॥	रामनारायण लाल
भारत के मशहूर स्थान	१॥१॥	„
महाजनी सार	॥१॥	देहाती पुस्तक भंडार
मारवाड़ी गीत संग्रह	४॥१॥	„
मीरा के गीत	॥१॥	„
रंग रंगीले गीत भजन	३॥	„
रामायण तर्ज राधेश्याम	॥१॥	„
लोक-परलोक सुधार	१॥१॥	„
वेदान्त छन्दावली (५ भाग)	२१॥१॥	„
शान्तिपुर साक्षरता योजना के	चाट्स ४॥	रामनारायण लाल
स्वास्थ्य जीवन	॥१॥१॥	गयाप्रसाद एंड सन्स
संक्षिप्त सूरसागर	॥१॥	देहाती पुस्तक भंडार
सहजोबाई के पद	॥१॥	„
साक्षरता चाट्स	२॥१॥	गयाप्रसाद एंड सन्स
सूरदास भजन माला	॥१॥	देहाती पुस्तक भंडार
हमारा प्रातः स्मरण	१॥१॥	„
हमारा शरीर- (यन्त्रस्थ)		राजकमल प्रकाशन
ज्ञान वैराग्य छन्दावली		देहाती पुस्तक भंडार
(२ भाग) १॥		

# कला तथा दस्तकारी

असगरअली कादरी	पुस्तक-कला दर्शन (३ भाग) II), II*, III)	रामनारायण लाल
एम० के०रब०	काष्ठ-कला परिचय २II) काष्ठ शिल्प (३ भाग) II), I*, III)	”
द्वारकाप्रसाद शास्त्री	पुस्तकालय संगठन और संचालन ३)	लहर प्रकाशन
रामेश्वरदयाल वंसल विविध	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्पस ३) वर्कशाप गाइड २II)	आत्माराम एण्ड सन्स कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स

## विविध

औधराज के चीक	सूर्य नमस्कार २)	भारती भण्डार
जगदीश गुप्त	नयी कविता (अर्द्धवार्षिक काव्य- संकलन) १, २, ३, प्रत्येक २)	किताब महल
तथा अन्य (सं०)	मीठे बोल में जादू है ३II)	एन० डी० सहगल
जगन्नाथ (अद्भु०)	उत्तरी संगीत शास्त्र २)	आत्माराम एण्ड सन्स
पतंजली देव शर्मा	सृजन (त्रैमासिक पत्र) प्रति १)	राजकमल प्रकाशन
बद्रीनाथ तिवारी	वार्षिक ४)	”
तथा अन्य (सं०)	मालाकार (उपहार ग्रन्थ) १०)	
रवीन्द्रनाथ ठाकुर	आधार (चौमासा पत्र) १II)	हिन्दी भवन
रामवतार चेतन		
तथा अन्य (सं०)		



## हिन्दी परीक्षाओं के लिये

### हिन्दी के प्रसिद्ध काव्य-ग्रन्थों की प्रामाणिक टीकाएँ

१. कामायनी की टीका—श्री तारकनाथ बाखी, एम० ए० ५)
२. साकेत की टीका—श्री फूलचन्द जैन 'सारंग', एम० ए० ५)
३. प्रियप्रवास की टीका—श्री तारकनाथ बाखी, एम० ए० ५)
४. उद्धवशतक-की टीका—श्री भारतभूषण 'सरोज', एम० ए० २॥)
५. आधुनिक कवि सुमित्रानंदन पंत की टीका—श्री तारकनाथ बाखी, एम० ए० २॥)
६. आधुनिक कवि महादेवी वर्मा की टीका—श्री तारकनाथ बाखी, एम० ए० २॥)
७. कबीर साखियाँ (टीका सहित)—श्री तारकनाथ बाखी, एम० ए०, श्री राम वाशिष्ठ, एम० ए० ३॥)
८. पृथ्वीराज रासो (टीका सहित)—डॉ० हरिहरनाथ टक्कन तथा श्री पद्मचन्द्र भद्रबाख, एम० ए० १॥)
९. भ्रमरगीत सार की टीका—डॉ० नरेन्द्रदेवसिंह यात्री तथा प्रो० राजेन्द्र शर्मा, एम० ए० ५)
१०. बिहारी सतसई (टीका सहित)— (प्रिस में) ३)

हिन्दी की सभी परीक्षाओं की पाठ्य व सहायक पुस्तकें  
आप हमारे यहाँ से मँगा सकते हैं

**विनोद पुस्तक मन्दिर**

हास्पिटल-रोड, आगरा ।



## अमृत की रचनाएँ

अपने बीस-बाइस साल के साहित्यिक जीवन में अमृतराय ने बहुत नहीं लिखा है मगर जो भी लिखा है, कहानी, उपन्यास, आलोचनाएँ, और अनुवाद जो किये हैं उन सबने रसज्ञ पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनकी सभी कृतियों खूब चर्चा का विषय रही हैं और आज शायद यह कहना अत्युक्ति न होगी कि नये लिखनेवालों में अमृतराय का एक विशेष स्थान है, जो उनका अपना है। उनकी स्वस्थ, अन्नभेदिनी जीवन-दृष्टि, उनकी स्फूर्तिपूर्ण लेखन-शैली, उनकी पानी की तरह बहनेवाली रवा-दवाँ जवान, उनके हास्य-व्यंग्य—के लिए इन कृतियों को पढ़िये।

### उपन्यास

बीज  
नागफनी का देश  
हाथी के दांत

७॥)

१॥)

२॥)

### कहानी संग्रह

जीवन के पहलू

२)

इतिहास

२॥)

लालधरती

२॥)

कस्बे का एक दिन

२॥)

भोरे से पहले

२)

कठघरे

२)

### आलोचना

नयी समीक्षा

४॥)

साहित्य में संयुक्त मोर्चा

१॥)

### यात्रा-साहित्य

सुबह के रंग

२)

### अनूदित-साहित्य

अग्निदीक्षा

४)

आदिविद्रोही

६॥)

फाँसी के तख्ते से

२॥)

नूतन आलोक

२॥)

## हंस प्रकाशन

इलाहाबाद



# देहाती पुस्तक भण्डार के प्रमुख प्रकाशन

## उच्चतम टेक्निकल साहित्य

इलैक्ट्रिक गाइड (नवीन संशोधित संस्करण)	प्रो० नरेन्द्रनाथ	६१
इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक	"	१११
इलैक्ट्रिक बैट्रीज	"	३॥॥
इलैक्ट्रिक वायरिंग	"	४॥॥
इलैक्ट्रिक लाइटिंग	"	६॥॥
इलैक्ट्रिकल सुपरवाइजर परीक्षा पेपर्स	"	४॥॥
सुपरवाइजर तथा वायरमैन परीक्षा प्रश्नोत्तर	"	३॥॥
इलैक्ट्रिकल परीक्षा पेपर्स (दोनों भाग)	"	६॥॥
ऑयल व गैस इंजन गाइड	"	१०॥॥
ऑयल इंजन गाइड	"	६॥॥
क्रड ऑयल इंजन गाइड	"	४॥॥
वायरलैस रेडियो गाइड	"	६॥॥
रेडियो सर्विसिंग (रेडियो मैकेनिक)	"	६॥॥
घरेलू बिजली तथा रेडियो मास्टर	"	२॥॥
मोटरकार वायरिंग	"	४॥॥
टांका लगाने का ज्ञान	"	२॥॥
छोटे डाइनेमो तथा इलैक्ट्रिक मोटर बनाना	"	३॥॥
प्रैक्टिकल आर्मेचर बाईन्डिंग	"	६॥॥
रैफरीजरेटर गाइड	"	६॥॥
बहूत रेडियो विज्ञान	"	११॥॥
ट्रांसफार्मर गाइड	"	४॥॥
बिजली के मोटरों की मरम्मत	"	४॥॥
ट्रेन लाइटिंग	"	३॥॥
खराद-शिफ्टा (टर्नर गाइड)	—	३॥॥
वर्कशाप गाइड (फिटर ट्रेनिंग)	—	३॥॥
खराद तथा वर्कशाप गाइड	—	६॥॥
प्रैक्टिकल वही-साजी	रामभवतार 'वीर'	४॥॥
साइक्लिक रिपेयरिंग गाइड	"	२॥॥
हारमोनियम मरम्मत	"	२॥॥
ग्रामोफोन मरम्मत	"	२॥॥
सिलाई-मशीन रिपेयरिंग	"	२॥॥
इलैक्ट्रिसिटी रूल्ज (सम्पूर्णा)	के० प्रसाद	१॥॥
रेडियो मास्टर	"	२॥॥
भवन-निर्माण कला (बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन)	रामभवतार 'वीर'	१०॥॥
विरवकर्मा दर्पण	"	१०॥॥
इलैक्ट्रिक तथा गैस वेल्डिंग	जयनारायण शर्मा	४॥॥
फाउंड्री प्रैक्टिस (ढलाई)	"	६॥॥
इलैक्ट्रोप्लेटिंग (बिजली द्वारा मुलुम्मा)	प्रेमनाथ 'शावा	४॥॥
वीविज गाइड	प्रो० एल. ए. च.	४॥॥



मैक्रिकल फोटोग्राफी शिक्षा	निर्मलकुमार गुप्त २॥)
व्यव वैल गाइड	पुष्पनाथ पंगोत्रा २॥)
लो कॉस्ट हाउसिंग टैक्निक (इंगलिस)	एच आर. मिश्र ५)
लो कॉस्ट हाउसिंग टैक्निक (हिन्दी)	" ५)
जन्त्री पैमाइश चोब लकड़ी (हिन्दी)	१॥)
जन्त्री पैमाइश चोब लकड़ी (इंगलिस)	१॥)
लोकोशैड फिटर गाइड	हरिचन्द्र रत्ता १२)
मोटर मैकेनिक टीचर	श्री कृष्णानन्द ६)
मोटर ड्राइविङ्ग	" १॥)
मोटरकार इन्स्ट्रक्टर	" १०)
मोटर साइकिल गाइड	" १॥)
मोटरकार प्राइमर	" १॥)
खेती और ट्रैक्टर (ट्रैक्टर गाइड)	" ६)
ट्रैक्टर प्राइमर	" १०)
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिङ्ग (प्रेस में)	" १)
सर्किट डायग्राम्ज ऑफ रेडियो	वेदप्रकाश
बिन बिजली का रेडियो	"
बच्चों का रेडियो	"
बच्चों का टेलीफोन	"
बच्चों के वैज्ञानिक खेल	"
लोकल रेडियो सैट	"
रेडियो का साधारण ज्ञान	"
एम्प्लीफायर लाउड स्पीकर	"
बच्चों का वायरलैस	"
फरनीचर बुक	" ६)
स्टीम इंजीनियर्स और इन्जन	रत्नप्रकाश
स्टीम इंजीनियर्स गाइड (प्रेस में)	एच० सी १०)
आइस प्लांट (बर्फ मशीन)	" १॥)
सभी प्रकार के सरते रेडियो बनाना	जे० एस् १॥)
घरेलू प्रिन्टिङ्ग-प्रेस बनाना	" १॥)
बच्चों का ग्रामोफोन बनाना	" १॥)
सिनेमा प्रोजेक्टर बनाना	" १॥)
बच्चों का स्टीम-इन्जन बनाना	" १॥)
बच्चों का पानी का जहाज बनाना	" १॥)

नोट (१) :—उपरोक्त लगभग सभी पुस्तकें उर्दू भाषा में भी तैयार हैं ।  
 नोट (२) :—१. मोटरका ओवरहालिंग २. जनरल मैकेनिक गाइड ३. शीप प्रैक्टिस  
 ४. ब्लेक स्मिथ ५. स्टीम टरबाइन ६. परिपग गाइड उत्तर रेलवे  
 ड्राइवर रूज आदि पुस्तकें भी शीघ्र ही छपकर तैयार होनेवाली हैं ।

**देहाती पुस्तक भण्डार**  
**बाबड़ी बाजार, दिल्ली—७**

# हमारे प्रमुख प्रकाशन

## अलोचना

भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा—ले० डा० नगेन्द्र	१५॥
देव और उनकी कविता—ले० डा० नगेन्द्र	६॥
रीति काव्य की भूमिका—ले० डा० नगेन्द्र	५॥
विचार और विश्लेषण—ले० डा० नगेन्द्र	५॥
कविता में प्रकृति चित्रण—ले० डा० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 'तरुण'	४॥
हिन्दी-साहित्य-रत्नाकर—ले० डा० विमलकुमार जैन	५॥
हिन्दी के अर्वाचीन रत्न—ले० डा० विमलकुमार जैन	७॥
जैनेन्द्र और उनके उपन्यास—ले० रघुवीरशरण भालानी	५॥

## उपन्यास

लट-नीड़—ले० उषादेवी मित्रा	४॥
वर जाल—ले० कृष्णचन्द्र शर्मा 'भिक्षु'	३१॥
गाँ और छपटें—ले० श्रीचन्द्र अग्निहोत्री	३॥
। अन्धेरी है—ले० महेन्द्रनाथ	४॥
कार—श्रीराम शर्मा 'राम'	४॥
( पानी—ले० यादवचन्द्र जैन एम० ए०	८॥
)। महल—ले० कृष्णचन्द्र एम० ए०	३१॥
( परीक्षा—ले० वीरेन्द्रसिंह यदुवंशी	३१॥
) शहर—ले० ताजवर सामरी	६॥
( राग—ले० ए० एन० कृष्ण राव	३१॥

## अनूदित उपन्यास

) उज्ज्वल—मूल लेखक स्टीफैन ज्वीग, अनु० शिवदानसिंह चौहान	६॥
( राजदूत—मूल लेखक जुले वार्न, अनु० जगन्नाथ शर्मा	४॥
) आह कः—[चीन के प्रेमचन्द्र लुहसू की अमर कृति 'दि टू स्टेरी ओफ आह क्यू' का हिन्दी अनुवाद] अनु० नूरनवी अब्बासी	२॥
) जादूगरनीने—जार्ज सैण्ड : अनुवादक गोपालकृष्ण कौल	४॥
) महामूर्ख—दास्ताएवस्की : अनु०—शिवदानसिंह चौहान	८॥

## नाटक तथा एकांकी

नए गुलाम—[एकांकी] ले० कृष्णचन्द्र एम० ए०	२॥)
अमर बेल—[सामाजिक नाटक] ले० हरिश्चन्द्र खन्ना	३)

## कहानियाँ

युक्तिचिप्टिस की डाली—ले० कृष्णचन्द्र एम० ए०	२)
भूमि-दान—ले० कृष्णचन्द्र एम० ए०	२॥)
पानी का पेड़—ले० कृष्णचन्द्र एम० ए०	२॥)
चाँदी के तार - ले० महेन्द्रनाथ	३)
गल्प-निकुंज—[हिन्दी की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ]	३॥)
भारत के महापुरुष—[ हिन्दी की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ ]	२॥)
शिकार की कहानियाँ—ले० बालकृष्ण एम० ए०	२)
हिन्दी की प्रमुख कहानियाँ—ले० बालकृष्ण एम० ए०	१॥)

## शिशुपालन तथा बाल-मनोविज्ञान

बच्चे के प्रारम्भिक वर्ष—ले० प्रो० जगदीशसिंह	३)
हमारे बच्चे—ले० प्रो० जगदीशसिंह	२॥)
उलझे बच्चे—ले० प्रो० जगदीशसिंह	१॥)
बच्चे कहाँ से आते हैं ?—ले० डा० द्वारकाप्रसाद एम० ए०	२)
बालक बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याएँ—ले० डा० द्वारकाप्रसाद एम० ए०	२॥)

## विविध

हमारे रीति-रिवाज—ले० प्रो० जगदीशसिंह	२॥)
चरित्र विकास—प्रो० निर्मलचन्द्र	१)
जीवन—प्रो० निर्मलचन्द्र	१॥)

नेशनल पब्लिशिंग हाउस

नई सड़क, दिल्ली

# हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन

उपन्यास

शब्द चित्र

माँ की ममता : पं० छविनाथ पाण्डेय	२॥॥	सूरतें और सीरतें : प्रो० कपिल	१)
मीमांसा : श्री अनूपलाल मंडल	२॥॥	आलोचना और निबन्ध	
बुझने न पाय : "	"	४) साहित्य-चिन्तन : श्री इलाचंद्र जोशी	२॥॥
वे अभागो : "	"	५) चिन्ताधारा : श्री जानकीवल्लभ शास्त्री	३)
साकी : "	"	१॥॥ साहित्य-विवेचन : प्रो० जगनाथ प्रसाद	
सविता : "	"	३)	मिश्र २॥॥॥
समाज की वेदी पर : "	"	१॥॥ मूल्यांकन : प्रो० कपिलदेव सिंह	३)
दर्द की तस्वीरें : "	"	२) मैथिली साहित्य (संक्षिप्त परिचय) :	
रूपरेखा : "	"	१॥॥ श्री बैजनाथसिंह विनोद	२॥॥
लहरों के बीच : श्री विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त		साहित्य-समीक्षा : देवेन्द्रनाथ शर्मा	२॥॥॥
		२॥॥ निर्गुण-काव्य-दर्शन : प्रो० सिद्धनाथ	
अविरल आँसू : महन्त धनराज पुरी	५)	तिवारी	५)
सरस्वती की अरमहस्या : श्री रमण	२)	काव्य और कल्पना : डा० रामखेलावन	
अमर प्रेम : श्री माणिक महाचार्य	२॥॥	पांडेय	३॥॥
प्रश्न चिन्ह : प्रो० गुरुदेवशरण	२॥॥	आधुनिक काव्य	
कहानियाँ		तम्रगृह : श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात	२॥॥
आज का प्रेम : श्री ब्रजकिशोर 'नारायण'	२॥॥	कर्ण :	" १॥॥
प्रमिता : पं० मोहनलाल महतो 'वियोगी'	२॥॥	कैकेयी :	" ३)
गौने की विदा : श्री शिवसहाय चतुर्वेदी	२)	मधुविन्दु : श्री रामसिंहासन सहाय 'मधुर'	१)
निर्माण के चित्र : श्री रमण	१)	प्रेम-गीत : श्री आरसीप्रसाद सिंह	२)
चम्पा के फूल : श्री परदेशी	२॥॥	धारा : श्री विनोदानन्द ठाकुर	१॥॥
घर और बाहर : श्री राजनाथ राय	३॥॥	नई चेतना : महेन्द्र भटनागर	२)

नाटक	सामान्य मनोविज्ञान : प्रो० जमुआर २)
पारिजात-मंजरी : प्रो० देकेन्द्रनाथ शर्मा १॥)	प्रवेशिका मनोविज्ञान : प्रो० कृष्णकुमार
संस्कृति की कलक : श्री रमण १॥)	जमुआर १)
वर्धमान महावीर : श्री ब्रजकिशोर	समाजशास्त्र
‘नारायण’ १॥)	समाज की भूमिका : श्री पंचानन मिश्र ४)
नवयुग का प्रभात : श्री उग्रमोहन भा २)	शिक्षाशास्त्र
जय : श्री रासबिहारी लाल २)	भारतीय शिक्षा का इतिहास (दो भाग) :
राजनीति	श्री मुनेश्वरप्रसाद भाग एक ६)
राजनीति-विज्ञान : प्रो० जगन्नाथ प्रसाद	” भाग दो ७॥)
मिश्र ६)	समवायी शिक्षण-कला : श्री रामप्रसाद २)
भारतीय संविधान और शासन :	बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त : ” २)
प्रो० विमलाप्रसाद ६॥)	धार्मिक साहित्य
अर्थशास्त्र	बुद्धधर्म के उपदेश : श्री धर्मरक्षित २॥)
भारत का आर्थिक इतिहास : प्रो०	गाँधी-साहित्य
मोतीचंद गोविल ३)	बापू के कदमों में : राष्ट्रपति डाक्टर
इंग्लैंड का आर्थिक इतिहास : ” २)	राजेन्द्र प्रसाद ५)
अर्थशास्त्र की भूमिका : प्रो० रामावतार	बापू के साथ : श्री सुमंगल प्रकाश ३॥)
लाल ६॥)	प्रबन्ध-साहित्य
द्वितीय पंचवर्षीय योजना : प्रो० रामावतार	संस्कृत का अध्ययन : राष्ट्रपति डाक्टर
लाल १॥)	राजेन्द्र प्रसाद २)
भारतीय अर्थशास्त्र की भूमिका :	प्राणों की बाजी : डा० रामखेलावन पांडेय
प्रो० नर्मदेश्वर भा ६)	१॥)
मनोविज्ञान	जीवन की सफलता : पं० छविनाथ पांडेय
संक्षिप्त बाल-मनोविज्ञान : प्रो० कृष्णकुमार	॥३)
जमुआर १॥)	छात्र-जीवन : प्रो० फूलदेवसहाय वर्मा १॥)

श्री अजन्ता प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, पटना-४

## हमारे कुछ विशिष्ट प्रकाशन

- आलोचना और भाषा-विज्ञान २. साहित्यिकों के संस्मरण (सं० प्रेमनारायण  
 १ काव्यालोचन के सिद्धान्त (शिवनन्दन- टंडन) १॥)  
 प्रसाद २॥) ३. पण्डित महावीर प्रसाद द्विवेदी ,, ॥)  
 २ बृहत् सुहावरा कोष (रामदहिन मिश्र) यात्रा-साहित्य  
 (प्रेस में) १. भूस्वर्ग-काश्मीर (हंसकुमार तिवारी) १॥)  
 ३. काव्यदर्पण (रामदहिन मिश्र)—साहित्य- २. मेरे योरोप के अनुभव—डा० राजेन्द्र  
 शास्त्र के सभी अंगों का सांगोपांग विवरण १०) प्रसाद ॥)  
 ४. काव्यालोक (रामदहिन मिश्र)— ५) खेती  
 ५ काव्य में अप्रस्तुतयोजना (रामदहिन मिश्र) ५) १. खेती (गोलोकबिहारी चौधरी) - खेती के  
 समाज-शास्त्र, राजनीति और इतिहास व्यापारिक रूप पर विस्तृत विवेचना । २॥)  
 ६. सार्वजनिक अर्थशास्त्र और आर्थिक २. खेती की कहावतें (व्यथित हृदय) ॥८)  
 पुनर्निमाण (केदारनाथ प्रसाद) ८) दर्शन, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य  
 ७. गुफा से महल (विश्वमोहन कुमार सिन्हा) ४६. भारतीय ईश्वरवाद (रामवतार शर्मा)  
 आदि काल से मानव द्वारा अपने विकास दार्शनिक विवेचन ३)  
 के लिए की गयी विभिन्न प्रचेष्टाओं ४७ सम्मोहन विद्या (पी० सी० सरकार) ॥॥)  
 का सविस्तर विवरण । ३) ४८. सरल प्रारम्भिक चिकित्सा (नागेन्द्रपति  
 ८. जनता के तीन सिद्धान्त (सनयातसेन) त्रिपाठी) १)  
 'सान-मिन-चुइ' का हिन्दी अनुवाद । ६) १. नवीन बाल-मनोविज्ञान (रासबिहारी  
 ९. मेगास्थनीज का भारत-विवरण (योगेन्द्र राय शर्मा) ५)  
 मिश्र) २) २. असामान्य मनोविज्ञान (जगदानन्द  
 १०. विजयनगर-साम्राज्य का इतिहास पाण्डेय) ८)  
 (वासुदेव उपाध्याय) ४) २. टोटका-विज्ञान (स्वामी कृत्यानन्द)—  
 ११. प्राचीन भारत का इतिहास (भगवत रोगों की औषधियों तथा चुटकुले-निदान  
 शरण उपाध्याय) १०) का अपूर्व संग्रह । गृहस्थ परिवार के  
 १२. आधुनिक भारत (हरिहरप्रसाद राय) ६॥) लिए उपयोगी ग्रन्थ २॥॥)  
 १३. भारत का ऐतिहासिक पटलस २॥) बिहार-साहित्य  
 १४. विश्वइतिहास की भूमिका (रामशरण १. बिहार-दर्पण (गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ) ७)  
 शर्मा) पहला, दूसरा भाग १०॥) २. बिहार के दर्शनीय स्थान (गदाधरप्रसाद  
 संस्मरण और जीवन-चरित अम्बष्ठ) मूल्य— २॥)  
 १. राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद (सं० शिव- १. बिहार की भाषा तथा बोलियाँ  
 पूजन सहाय) २॥) (ग० अम्बष्ठ) ॥॥)

ग्रंथमाला-कार्यालय, पटना—४

विशेष विवरण के लिए सूचीपत्र मंगाइए ।

उत्तर भारत की सबसे बड़ी प्रकाशन एवं विक्रय संस्था  
आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली—६



हमारा प्रकाशन हिन्दी-साहित्य  
के भण्डार की शोभा है। साहित्य, विद्या एवं  
ज्ञान के सभी क्षेत्रों में इसको समुचित सम्मान मिला  
है। पाठशालाओं, लायब्रेरियों एवं शिक्षण वर्ग के लिए  
यह एक अद्भुत प्रयत्न है। इनमें से बहुत से तो अनेक  
संस्थाओं से तथा सरकारों से पुरस्कृत हैं।

इसके अतिरिक्त—

सभी उपयोगी विषयों पर प्राप्य हिन्दी पुस्तकों का यह  
एक आधुनिकतम एवं वृहद् भण्डार है।



हमारे यहाँ भारतवर्ष के लगभग सभी प्रकाशकों का प्रकाशन  
प्रचुर मात्रा में सदैव उपलब्ध रहता है।



इस सूचीपत्र में दी गई सभी पुस्तकें हमसे प्राप्त कीजिये।



आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली—६  
(प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता)

# साधना की सिद्धि रचना की सार्थकता में है

संदर्भ और अध्ययन ग्रंथ :—

आधुनिक हिन्दी-कथा साहित्य

और मनोविज्ञान	डा० देवराज उपाध्याय	१०)
हिन्दी कहानियों की शिल्पविधि का विकास	डा० लक्ष्मीनारायण लाल	१०)
प्रकृति और काव्य (हिन्दी)	डा० रघुवंश	६॥)
प्रकृति और काव्य (संस्कृत)	डा० रघुवंश	६॥)
ऋतम्भरा	डा० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या	३)
विचारधारा	डा० धीरेन्द्र वर्मा	३॥)
विचार और वितर्क	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	३)
मध्यकालीन धर्म-साधना	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	४)
मध्यकालीन प्रेम-साधना	श्री परशुराम चतुर्वेदी	३॥)
भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएँ	श्री परशुराम चतुर्वेदी	३॥॥)
कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा	श्री शिवप्रसादसिंह	५)
सौन्दर्य-शास्त्र	डा० हरद्वारी लाल शर्मा	३)
कबीर का रहस्यवाद	डा० रामकुमार वर्मा	३॥)
हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग	डा० नामवरसिंह	५)
विदेशों के महाकाव्य	श्री गोपीकृष्ण गोपेश	६॥)

निबन्ध और आलोचना :—

कला और संस्कृति	डा० वासुदेवशरण अग्रवाल	४॥)
साहित्यावलोकन	प्रो० विनयमोहन शर्मा	३)
गद्य-पथ	श्री सुमित्रानन्दन पन्त	३)
लोकगीतों की सामाजिक व्याख्या	श्री श्रीकृष्ण दास	४)
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	डा० लक्ष्मीसागर दार्ष्णीय	५)
महाकवि भूषण	श्री भगीरथ प्रसाद दीक्षित	२॥)
मीरा-दर्शन	प्रो० मुरलीधर श्रीवास्तव	२॥)
तुलसी रसायन	डा० भगीरथ मिश्र	२॥)
पद्माकर कवि	श्री शुकदेव दुबे	२॥)
संत कबीर दर्शन	श्री राजेन्द्र सिंह गौड़	२)



हमारे कवि	श्री राजेन्द्रसिंह गौड़	३)
हमारे लेखक	श्री राजेन्द्रसिंह गौड़	४)
नाटक की परख	डा० एस० पी० खत्री	४)
प्रबन्ध पारिजात	श्री पदुमलाल पुत्रालाल बखशी	१॥)
निबन्धादर्श	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा	१॥)
हिन्दी में निबंध साहित्य	श्री जनार्दन स्वरूप	१॥)
प्रगतिवाद—एक समीक्षा	डा० धर्मवीर भारती	३॥)
प्रसाद के तीन ऐतिहासिक नाटक	श्री राजेश्वरप्रसाद अर्गल	२॥)
निबंध संग्रह	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	५)
दिल की बात	श्री गुरुदयाल मल्लिक	३)
साहित्य विहार	श्री विद्योगी हरि	१॥)
हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास	श्री राजेन्द्रसिंह गौड़	५)
कवि निराला और उनका काव्य-साहित्य	श्री गिरीशचन्द्र तिवारी	३)
नयी कविता	श्री विश्वम्भर 'मानव'	४)

उपन्यास :—

बहता पानी	श्री मन्मथनाथ गुप्त	३॥)
अनबुझी प्यास	श्री दुर्गाशङ्कर मेहता	७॥)
मरु प्रदीप	श्री रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	३॥)
गुनाहों का देवता	डा० धर्मवीर भारती	५)
सूरज का सातवाँ घोड़ा	डा० धर्मवीर भारती	१॥)
मुक्ति की राह	डा० एस० पी० खत्री (अनुवाद)	६)
चांदनी के खँडहर	श्री गिरिधर गोपाल	२)
द्वाभा	श्री प्रभाकर माचवे	२)
काठ का उरलू और कबूतर	श्री केशवचन्द्र वर्मा	४)

कहानी:—

हिन्दी कहानियाँ	डा० श्रीकृष्णलाल	२)
उपनिषदों की कहानियाँ: (प्रथम भाग)	श्री रामप्रताप शास्त्री	२॥)
उपनिषदों की कहानियाँ: (द्वितीय भाग)	श्री रामप्रताप शास्त्री	२॥)
प्रायश्चित्त	श्री सत्यजीवन वर्मा	२)
छायातप	डा० रघुवंश	२॥)

भाँसू और पसीना	डा० रामप्रताप बहादुर	२)
आस्कर वाइल्ड की कहानियाँ	डा० धर्मवीर भारती	२)
पूँजीपति	श्री गोपीकृष्ण गोपेश	२)
मेरा देश	श्री अहमद 'नदोम' कासिमी	२)
मन की मौज	श्री राजेन्द्र सिंह गौड़	२॥)

कविता :—

नीहार	श्रीमती महादेवी वर्मा	३)
ररिम	श्रीमती महादेवी वर्मा	३)
प्रभाती	श्री सोहनलाल द्विवेदी	२॥)
वीर सतसई	श्री वियोगी हरि	१॥)
भाँकी	श्री आनन्दिप्रसाद	१)
स्याम संदेशो	श्री अमृतलाल चतुर्वेदी	३)
अंजलि	डा० रामकुमार वर्मा	१॥)
ठण्डा लोहा	डा० धर्मवीर भारती	३)
वर्षान्त के बादल	श्री अंचल	३)
कवि तानसेन और उनका काव्य	श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी	२॥)
संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएँ	श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी	२॥)
सूर सागर सार	डा० धीरेन्द्र वर्मा	४॥)
संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो	डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी	४)
वृहत् संत कबीर	डा० रामकुमार वर्मा	१०)
संक्षिप्त संत कबीर	डा० रामकुमार वर्मा	२)
वन-आनन्द	श्री शंभुप्रसाद बहुगुना	४॥)
तुलसी दोहावली सार	श्री कृष्णमुरारीलाल	॥॥)

गाद्यकान्थ :—

हिमहास	डा० रामकुमार वर्मा	१॥)
शबनम	श्रीमती दिनेशनन्दिनी	१॥)
उनमन	श्रीमती दिनेशनन्दिनी	३)
निर्भर और पाषाण	श्री तेजनारायण काक	१॥)

संकलन :—

निकष : भाग १-२

संपादक डा० धर्मवीर भारती  
तथा लक्ष्मीकान्त वर्मा

प्रत्येक ३)

निकष : ३-४ संयुक्तांक

संपादक डा० धर्मवीर भारती  
तथा श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा

६)

नाटक :—

प्रेम की पराकाष्ठा

श्री सत्यजीवन वर्मा

२॥)

शिवाजी

डा० रामकुमार वर्मा

१)

कौमुदी महोत्सव

डा० रामकुमार वर्मा

१॥)

चार ऐतिहासिक एकांकी

डा० रामकुमार वर्मा

१॥)

सात एकांकी

डा० एस० पी० खत्री

२॥)

कला और संस्कृति :—

संस्कृति संगम

आचार्य चिंतिमोहन सेन

२॥)

भारतवर्ष में जाति-भेद : नवीन सं०

आचार्य चिंतिमोहन सेन

२)

शिल्प कथा

आचार्य नन्दलाल वसु

१)

प्राचीन लोकोत्सव

श्री मन्मथ राय

२॥)

देश-विदेश में मनोरंजन

श्री मन्मथ राय

४)

आर्यमविद्या

श्री माधवराव सप्रे

४)

गीतादर्शन की पृष्ठभूमि

श्री सत्यदेव शास्त्री

१॥)

भाषा और काव्य शास्त्र :—

हिन्दी काव्य शास्त्र

श्री शान्ति लाल बालेन्दु

४)

ग्रामीण हिन्दी

डा० धीरेन्द्र वर्मा

१॥)

नवीन पिंगल

श्री अवध उपाध्याय

१॥)

विविध :—

श्रीमती क्यूरी

श्री लालबहादुर शास्त्री

३॥)

लक्ष्मीबाई

श्री दत्तात्रेय पारसनीय

३)

क्रिकेट प्रदर्शिका

डा० 'अमर'

१)

गार्हस्थ्य जीवन और ग्राम सेवा

श्री परशुराम चतुर्वेदी

१)

यूरोप के पत्र

डा० धीरेन्द्र वर्मा

१॥)

जानवरों की ऐतिहासिक कहानियाँ

श्री राममूर्ति मेहरोत्रा

१)

महाबली हनुमान

श्री राजवल्लभ ओझा

१॥)

बिगुल

श्री सोहनलाल द्विवेदी

१॥)

बापू का सपना

श्री नर्मदेवर चतुर्वेदी

१)

साहित्य भवन (प्राइवेट) लिमिटेड, इलाहाबाद—३

## शिक्षा संबंधी तथा मनोवैज्ञानिक पुस्तकें

प्रो० लालजी राम शुक्ल एम० ए० बी० टी०	आचार्य सीताराम चतुर्वेदी
बाल मनोविकास ६)	अध्यापन कला २)
सरल मनोविज्ञान ६)	पाठशाला प्रबन्ध २।।)
बाल-शिक्षण ३।।)	संस्कृत शिक्षण-पद्धति २।।)
शिक्षा मनोविज्ञान (प्रथम भाग) ३।।)	शिक्षा प्रणालियाँ और उनके प्रवर्तक ६।।)
शिक्षा मनोविज्ञान (द्वितीय भाग) ४)	भारत में सावजनिक शिक्षा का इतिहास ३।।।)
शिक्षा-विज्ञान ३।।)	प्रो० कल्याणपति त्रिपाठी एम० ए० बी० टी०
नवीन मनोविज्ञान ५)	भाषा शिक्षण २।)
मानसिक चिकित्सा ४)	डॉ० ए० एस० अल्टेकर
मानसिक आरोग्य ४)	प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति ५)
अनुभव प्रकाश ३)	श्री बेनीमाधव शर्मा एम० ए० एम० एड०
समाज विकास ३।।)	इतिहास शिक्षण २)
नीति शास्त्र ५)	सामाजिक अध्ययन की शिक्षा २।।)
डॉ० सीताराम जयासवाल एम० ए०, एम० एड० (हारवर्ड), पी० एच० डी० (मिशीगन)	प्रौढ़-शिक्षा के प्रयोग और विधान ३।।)
शिक्षा-शास्त्र ६)	विद्यालय व्यवस्था २।।।)
शिक्षा सिद्धान्त और प्रयोग २)	रचनात्मक शिक्षा ३।।)
नवीन शिक्षा मनोविज्ञान २)	सामाजिक शिक्षा २।।)
शिक्षण विधान २।)	बच्चों की शिक्षा २।)
शिक्षालय और स्वास्थ्य २)	राष्ट्र और शिक्षालय २)
भूगोल शिक्षण २)	शिक्षण-विधि के सिद्धान्त ३।।)
प्रौढ़-शिक्षा प्रसार १-२)	प्रो० निरंजन कुमार तथा प्रो० सी० पी० श्रीवास्तव
प्राचीन परिचमी शिक्षा का इतिहास २।।।)	प्रारम्भिक शिक्षा सिद्धान्त तथा मनोविज्ञान ३)
मध्यकालीन परिचमी शिक्षा का इतिहास २।।।)	सामान्यज्ञान तथा विज्ञान ३)
आधुनिक परिचमी शिक्षा का विकास ३)	श्री के० एल० किचलू
परिचमी शिक्षा का इतिहास ६)	गणित शिक्षा के सिद्धान्त तथा शिक्षण प्रणाली २)
बाल-विकास और शिक्षण ५)	श्री ज्योत्सना द्विवेदी एम० ए० एम० एड०
प्रो० शिवनारायण लाल श्रीवास्तव एम० ए० कविता की शिक्षा १।।)	हिन्दी किशोर साहित्य ३)
श्रीमती रानी टंडन एम० एड०	श्रीमती हेमांगिनी जोशी
शिक्षा के सिद्धान्त और शिक्षा मनोविज्ञान २।।)	शिशु-शिक्षण १।।)
श्रीवैजनाथलाल श्रीवास्तव बी० ए० एल० टी०	प्रो० इकबाल बहादुर देवसरे
चित्रकला पाठन-शैली १।।)	भारतीय चित्रकला ३।।)
इतिहास शिक्षण-शैली १।।)	

### नन्दकिशोर एण्ड ब्रदर्स

चौक, वाराणसी—१

## हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन

आलोचना—	धूल के बादल—श्री कमल शुरु	४)
भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका—	देवता—श्री कमल शुरु	२॥)
डा० नगेन्द्र	नाटक—	
सूर-मीमांसा—डा० ब्रजेश्वर वर्मा	भारतेन्दु—सेठ गोविन्ददास	२)
कृष्णकाव्य की रूपरेखा—	रहीम—सेठ गोविन्ददास	२)
श्री वेदमित्र 'व्रती'	समाधि—श्री विष्णु प्रभाकर	३)
बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य—	मीरा—श्री सन्त गोकुलचन्द्र	१॥॥)
डा० प्रतिगल सिंह	हिरौल—श्री सन्त गोकुलचन्द्र	१॥)
काव्य सम्प्रदाय और वाद—	आधुनिक एकांकी—	
श्री अशोककुमार सिंह	चन्द्र श्री सन्त गोकुल	३)
हिन्दी गद्य का आविर्भाव और विकास—	एकांकी सुपमा—	
श्री धर्मचन्द्र सन्त	श्री जी० एल० लूथरा	२॥)
हिन्दी साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में—	विविध—	
श्री धर्मचन्द्र सन्त	अतीत स्मृतियाँ (पुरानी खोजें)—	
भाषा का इतिहास—पं० भगवदत्त	श्री सोहनलाल	१॥=)
उपन्यास—	आदर्श चरितावली—	
मायाजाल—श्री गुरुदत्त	श्री सन्त गोकुलचन्द्र	२॥)
उमड़ती घटायें—श्री गुरुदत्त	आलोक स्तम्भ—	
लुढ़कते पत्थर—श्री गुरुदत्त	श्री सन्त गोकुलचन्द्र	२॥)
सहस्रबाहु—श्री गुरुदत्त	चारु चयनिका (कहानी-संग्रह)—	
यथार्थ से आगे—	श्री धर्मचन्द्र सन्त	३)
श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी	नवीन लोकोक्तियाँ और मुहावरे—	
असीम की सीमा—यादवचन्द्र जैन	श्री धर्मचन्द्र संत	१॥)
श्री और त्याग—श्री कमल शुरु	सं० वाल्मीकि रामायण—	
श्री और—श्री कमल शुरु	डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास	२॥)
काले नगर में—श्री कमल शुरु	डुनियादी शिक्षण पद्धति—	
पथ से दूर—श्री कमल शुरु	श्री धर्मप्रकाश	३)

ओरिएण्टल बुक डिपो

नई सड़क दिल्ली ।

# राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली—६

हमारे

नवीन प्रकाशन

* संस्कृति के चार अध्याय	श्री रामधारीसिंह दिनकर	१५॥
* अंगरेजी साहित्य की रूपरेखा	डा० भगवतशरण उपाध्याय	२॥॥
* शिक्षा में नए प्रयोग	ला० सूरजभान एम० एड० (लंदन)	४॥
* प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण	श्री विराज एम० ए०	२॥
* कब तक पुकारूँ (उपन्यास)	डा० राज्ञेय राघव	८॥
* एक गधे की आत्मकथा (उप०)	श्री कृश्नचन्दर एम० ए०	३॥
* खण्डहर (उप०)	बालक	५॥
* नींव की मिट्टी (उप०)	श्री शिवसागर मिश्र	३॥
* संघर्ष (उप०)	श्री के० एम० पणिकर	३॥
* तीन दिन (कहानी-संग्रह)	श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	३॥
* हाथियों की खोज में	श्री विराज एम० ए०	१॥॥
* रेत और माग	श्री खलील जिब्रान	२॥
* यात्री	श्री खलील जिब्रान	२॥
* धम्म पद (संस्कृत से अनूदित)	प्रो० इन्द्र० एम० ए०	३॥
* नीरोग जीवन	आचार्य चतुरसेन	१॥
* स्वास्थ्य-रक्षा	आचार्य चतुरसेन	१॥
* आदर्श भोजन	आचार्य चतुरसेन	१॥
* वीरगाथा	श्री आनन्दकुमार	१॥॥
* महान् आविष्कारक, एडीसन	श्री विराज एम० ए०	२॥॥
* एटम : हमारे जीवन में		३॥
* बाल पंचतंत्र (दो भागों में)	धर्मपाल शास्त्री	१॥॥
* बाल हितोपदेश (दो भागों में)	धर्मपाल शास्त्री	१॥॥
* चिड़ियाघर	प्रकाश परिडत	॥॥॥
* आम्नो सर्कस देखें	प्रकाश परिडत	॥॥॥

हिन्दी साहित्य का बृहत् सूचीपत्र जिसका मुद्रित मंगाव—

राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली—६



लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय  
Lal Bahadur Shastri National Academy of  
Administration Library  
MUSSOORIE/मसूरी

अवाप्ति सं० /Acc. No. -- \_\_\_\_\_

कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनांक या उससे पहले  
वापस कर दें।

Please return this book on or before the  
date last stamped below.

दिनांक Due Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Due Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

GL H-R 016.07  
AKH







**GANDHI SMIRITI LIBRARY**  
**LAL BAHADUR SHASTRI**  
**NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION**  
**MUSSOORIE**

Accession No. 120639

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.
5. Books lost, defaced or injured in any way shall have to be replaced or its double price shall be paid by the borrower.

**Help to keep this book fresh, clean & moving.**